



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 31, 2011—जनवरी 6, 2012 (पौष 10, 1933)
No. 53] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 2011—JANUARY 6, 2012 (PAUSA 10, 1933)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संसन्म और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएँ]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 31 दिसम्बर 2011

परीक्षा नोटिस सं. 03/2012-एनडीए-I

आवेदन-प्रपत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख : 30.01.2012

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2012

(आयोग की वेबसाइट-<http://www.upsc.gov.in>)

फा. सं. 7/2/2011-प. 1 (ख)--राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना और वायु सेना स्कंधों के लिए दिसम्बर, 2012 से शुरू होने वाले 129वें पाठ्यक्रम हेतु और नौ सेना अकादमी के 91वें भारतीय नौसेना अकादमी कोर्स (आई एन ए सी) में प्रवेश हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 15 अप्रैल, 2012 को एक परीक्षा आयोजित की जाएगी। भारतीय नौसेना अकादमी में भर्ती उम्मीदवारों को 4 वर्ष का बी.टेक. कोर्स करना होगा तथा रिक्तियों/पदों की उपलब्धता के आधार पर नौसेना के कार्यपालक और तकनीकी विभाग में भर्ती का अवसर भी दिया जा सकता है।

परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 335 होगी (जिसमें थल सेना के लिए 195, नौ सेना के लिए 39, वायु

सेना के लिए 66 और भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैंडेट एंट्री स्कीम के लिए यह संख्या 35 होगी)। रिक्तियाँ अंतिम हैं तथा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स की प्रशिक्षण क्षमतानुसार इनमें परिवर्तन किया जा सकता है।

विशेष ध्यान : (i) प्रत्येक उम्मीदवार को अपने ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र में अपने वरीयता क्रम के अनुसार (1 से 4) सेवाओं का स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। उसे यह भी सलाह दी जाती है कि वह जितनी चाहे उतनी वरीयताओं का उल्लेख करें, ताकि योग्यता क्रम में उनके रैंक को ध्यान में रखते हुए, नियुक्ति करते समय उनकी वरीयताओं पर भली-भांति विचार किया जा सके।

(ii) उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केवल उन्हीं सेवाओं पर उनकी नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जिनके लिए वे अपनी वरीयता व्यक्त करते हैं, अन्य सेवा व सेवाओं पर नहीं। उम्मीदवार द्वारा अपने प्रपत्र में पहले निर्दिष्ट वरीयता में कृत्रिम/परिवर्तन के अनुरोध को आयोग स्वीकार नहीं करेगा।

(iii) आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिए

आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा।

2. परीक्षा के केन्द्र :

परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर आयोजित की जाएगी :

अगरतला, अहमदाबाद, ऐज़ल, इलाहाबाद, बंगलौर, बरेली, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, कटक, देहरादून, दिल्ली, धारवाड़, दिसपुर, गंगटोक, हैदराबाद, इम्फाल, इटानगर, जयपुर, जम्मू, जोरहाट, कोच्चि, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मदुरै, मुंबई, नागपुर, पणजी (गोवा), पटना, पोर्ट ब्लेयर, रायपुर, रांची, सम्बलपुर, शिलांग, शिमला, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, तिरुपति, उदयपुर और विशाखापट्टनम।

आयोग यदि चाहे तो उक्त परीक्षा के उपर्युक्त केन्द्रों तथा तारीखों में परिवर्तन कर सकता है। यद्यपि उम्मीदवारों को उक्त परीक्षा के लिए उनकी पसन्द के केन्द्र देने के सभी प्रयास किए जाएंगे, तो भी आयोग परिस्थितिवश किसी उम्मीदवार को अपनी विवक्षा पर अलग केन्द्र दे सकता है। जिन उम्मीदवारों को इस परीक्षा में प्रवेश दे दिया जाता है उन्हें समय-सारणी तथा परीक्षा स्थल (स्थलों) की जानकारी दे दी जाएगी।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि केन्द्र में परिवर्तन से सम्बद्ध अनुरोध को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाएगा, किन्तु जब कोई उम्मीदवार अपने उस केन्द्र में परिवर्तन चाहता है जो उसने उक्त परीक्षा हेतु अपने आवेदन में निर्दिष्ट किया था तो उसे परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग को इस बात का पूरा औचित्य बताते हुए एक पत्र अवश्य भेजना चाहिए कि वह केन्द्र में परिवर्तन क्यों चाहता है। ऐसे अनुरोधों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा। किन्तु 29 फरवरी, 2012 के बाद प्राप्त अनुरोधों को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

3. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रीयता :

उम्मीदवार या तो :--

1. भारत का नागरिक हो, या
2. नेपाल की प्रजा हो, या
3. भूटान की प्रजा हो, या
4. भारत में स्थायी रूप से रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हुआ तिब्बती शरणार्थी हो; या
5. भारतीय मूल का व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों जैसे कीनिया, उगाण्डा तथा तंज़ानिया, संयुक्त गणराज्य, ज़ांबिया, मलावी, ज़ैरे तथा इथोपिया या वियतनाम से प्रवर्जन कर के आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग 2, 3, 4 और 5 के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाणपत्र प्रदान किया हो, पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिए यह पात्रता प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं होगा।

(ख) आयु-सीमाएं, लिंग और वैवाहिक स्थिति :

केवल ऐसे अविवाहित पुरुष उम्मीदवार जिनका जन्म दो जनवरी, 1994 से पहले न हुआ हो तथा पहली जुलाई, 1996 के बाद न हुआ हो, पात्र हैं।

आयोग जन्म की वह तारीख स्वीकार करता है जो मैट्रिकुलेशन या माध्यमिक विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र या किसी भारतीय विश्वविद्यालय द्वारा मैट्रिकुलेशन के समकक्ष माने गए प्रमाणपत्र या किसी विश्वविद्यालय द्वारा अनुसूचित मैट्रिकुलेटों के रजिस्ट्रों में दर्ज की गई हो और यह उद्घरण विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित हो। मूल प्रमाणपत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगे।

आयु के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज जैसे जन्म कुण्डली, शपथ-पत्र, नगर निगम से और सेवा अभिलेख से प्राप्त जन्म संबंधी उद्घरण तथा अन्य ऐसे ही प्रमाणपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

अनुदेशों के इस भाग में आए हुए 'मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र' वाक्यांश के अंतर्गत उपर्युक्त वैकल्पिक प्रमाणपत्र सम्मिलित हैं।

टिप्पणी-1 : उम्मीदवार यह ध्यान रखें कि आयोग उम्मीदवार की जन्म की उसी तारीख को स्वीकार करेगा जो कि आवेदन-प्रपत्र प्रस्तुत करने की तारीख को मैट्रिकुलेशन/उच्चतर माध्यमिक परीक्षा प्रमाणपत्र या समकक्ष प्रमाणपत्र में दर्ज है और इसके बाद उसमें परिवर्तन के किसी अनुरोध पर न तो विचार किया जाएगा और न उसे स्वीकार किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : उम्मीदवार यह भी नोट कर लें कि उनके द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश के लिए जन्म की तारीख एक बार घोषित कर देने और आयोग द्वारा उसे अपने अभिलेख में दर्ज कर लेने के बाद उसमें बाद में या बाद की किसी अन्य परीक्षा में परिवर्तन करने की अनुमति किसी भी आधार पर नहीं दी जाएगी।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र के संबंधित कॉलम में जन्म तिथि भरते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। यदि बाद की किसी अवस्था में, जांच के दौरान उनके द्वारा भरी गई जन्म तिथि की उनके मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र में दी गई जन्म तिथि से कोई भिन्नता पाई गई तो आयोग द्वारा उनके विरुद्ध नियम के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

टिप्पणी-4 : उम्मीदवारों को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिए चुना नहीं जाएगा। चाहे वह उस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा में भले ही सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण काल में शादी कर लेगा उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है सब उससे वसूल किया जाएगा।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :

(i) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना स्कंध के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

(ii) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के वायु सेना और नौ सेना स्कंधों तथा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैडेट एंटी स्क्रीम के लिए : किसी राज्य शिक्षा बोर्ड अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित भौतिकी और गणित सहित स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 की 12वीं कक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष।

जो उम्मीदवार स्कूली शिक्षा प्रणाली 10+2 के अधीन 12वीं कक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में बैठ रहे हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं।

ऐसे उम्मीदवार जो एस एस बी साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लें हैं लेकिन एस एस बी साक्षात्कार के समय मैट्रिक/10 + 2 या समकक्ष प्रमाणपत्र मूल रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते, उन्हें प्रमाणपत्र, उनकी फोटोप्रति सहित "अपर महानिदेशालय, भर्ती, सेना मुख्यालय, वैस्ट ब्लॉक-III, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066" को तथा नौ सेना अकादमी के उम्मीदवारों के मामले में "नौसेना मुख्यालय, डी एम पी आर, ओ आई एण्ड आर अनुभाग, कमरा सं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011" को 5 दिसम्बर, 2012 तक भेजना होगा। ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अन्य वे सभी उम्मीदवार जो मूल रूप में अपने मैट्रिक और 10 + 2 पास या समकक्ष प्रमाणपत्र एस एस बी साक्षात्कार के समय प्रस्तुत कर चुके हैं तथा एस एस बी प्राधिकारियों द्वारा उनका सत्यापन करवा चुके हैं उन्हें सेना मुख्यालय या नौसेना मुख्यालय, जैसा भी मामला हो, इन्हें फिर से प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं है।

ऐसे मामलों में जहां बोर्ड/विश्वविद्यालय के द्वारा अभी तक प्रमाणपत्र जारी नहीं किए गए हों, शिक्षा संस्थाओं के प्रधानाचार्य के द्वारा दिये गये मूल प्रमाणपत्र भी स्वीकार्य होंगे, ऐसे प्रमाणपत्रों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपियां/फोटोस्टेट प्रतियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। अपवाद की परिस्थितियों में आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं से युक्त न होने पर भी शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उनके पास ऐसी योग्यताएं हों, आयोग के विश्वास से जिनका स्तर, उसे इस परीक्षा में प्रवेश देना उचित ठहरता हो।

टिप्पणी-1 : वे उम्मीदवार जो 11वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं। इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं हैं।

टिप्पणी-2 : वे उम्मीदवार, जिन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा में अभी तक अर्हता प्राप्त करनी है और जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग ने परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, नोट कर लें कि उनको दी गई यह विशेष छूट है। उन्हें 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख 5 दिसम्बर, 2012 तक प्रस्तुत करना है और बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम घोषणा में विलंब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

टिप्पणी-3 : जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, अगर प्रवेश दे दिया गया तो भी उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

टिप्पणी-4 : वे उम्मीदवार जो आईएनएसबी/पीएबीटी में पहले फेल हो चुके हैं, वायु सेना के लिए योग्य नहीं हैं।

(घ) शारीरिक मानक:

उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा (I), 2012 हेतु परिशिष्ट-II में दिए गए शारीरिक मानकों के दिशा-निर्देशों के अनुरूप शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए।

वे उम्मीदवार जिन्होंने या तो इस्तीफा दे दिया है या जिन्हें सशस्त्र बल के किसी प्रशिक्षण संस्थान से अनुशासनात्मक कार्रवाई के तहत निकाल दिया गया हो, आवेदन करने की योग्यता नहीं रखते हैं।

4. शुल्क :

उम्मीदवारों को रु. 50/- (रुपए पचास मात्र) फीस के रूप में (अ.जा./अ.ज.जा./उम्मीदवारों टिप्पणी 2 में उल्लिखित जे.सी.ओ./एम.सी.ओ./ओ.आर. के बच्चों को छोड़कर जिन्हें कोई शुल्क नहीं देना होगा) या तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में नकद जमा करके या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर/स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद/स्टेट बैंक ऑफ मैसूर/स्टेट बैंक ऑफ पटियाला/स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर की नेट बैंकिंग सेवा का उपयोग करके या वीजा/मास्टर क्रेडिट/डेबिट कार्ड का उपयोग करके भुगतान करना होगा।

जिन आवेदकों के मामले में बैंक से भुगतान संबंधी विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं उन्हें फर्जी भुगतान मामला समझा जाएगा और ऐसे सभी आवेदकों की सूची ऑनलाइन आवेदन पत्र भेजने के अंतिम दिन के बाद दो सप्ताह के भीतर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। इन आवेदकों को ई-मेल के जरिए यह भी सूचित किया जाएगा कि वे आयोग को किए गए अपने भुक्तान के प्रमाण की प्रति प्रस्तुत करें। आवेदकों को इसका प्रमाण 10 दिनों के भीतर दस्ती अथवा स्पीड पोस्ट के जरिए आयोग को भेजना होगा। यदि आवेदक की ओर से कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है तब उनका आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकार कर दिया जाएगा और इस संबंध में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-1 : अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और टिप्पणी-2 में उल्लिखित उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना होगा तथापि अन्य पिछड़ी श्रेणियों के उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं है तथा उन्हें निर्धारित शुल्क का पूरा भुगतान करना होगा।

टिप्पणी-2 : थल सेना में सेवारत/भूतपूर्व जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/गैर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों तथा भारतीय नौसेना/भारतीय वायुसेना के समकक्ष रैंकों के अफसरों के बच्चों को निर्धारित शुल्क देने की जरूरत नहीं होगी यदि वे मिलिट्री स्कूल (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल के नाम से जाना जाता था)/सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों में शिक्षा पा रहे हैं। (टिप्पणी : ऐसे सभी उम्मीदवारों को संबद्ध प्रिंसीपलों से शुल्क में छूट हेतु उनकी पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होगा और एस एस बी परीक्षण/साक्षात्कार के लिए अर्हक घोषित किए गए उम्मीदवारों द्वारा एस एस बी परीक्षण/साक्षात्कार के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना होगा)।

टिप्पणी-3 : आवेदन के साथ आयोग को अदा किये गये शुल्क को वापस करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता है और न उसे किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

5. आवेदन कैसे करें:

उम्मीदवार <http://www.upsconline.nic.in> वेबसाइट सुविधा का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश उपर्युक्त वेबसाइट में उपलब्ध हैं।

टिप्पणी-1 : आवेदकों को केवल एक ही आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाता है तथापि, किसी अपरिहार्य परिस्थिति वश यदि वह एक से अधिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है, वह यह सुनिश्चित कर लें कि उच्च आर आई डी वाला आवेदन पत्र हर तरह अर्थात् आवेदक का विवरण, परीक्षा केन्द्र, फोटो, हस्ताक्षर, शुल्क आदि से पूर्ण है। एक से अधिक आवेदन पत्र भेजने वाले उम्मीदवार यह नोट कर लें कि केवल उच्च आर आई डी (रजिस्ट्रेशन आई डी) वाले आवेदन पत्र ही आयोग द्वारा स्वीकार किए जाएंगे और एक आर आई डी के लिए अंदा किए गए शुल्क का समायोजन किसी अन्य आर आई डी के लिए नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-2 : सभी उम्मीदवारों को चाहे वे पहले से ही सरकारी सेवा में हों, जिनमें सशस्त्र सेना बल के उम्मीदवार भी शामिल हैं और भारतीय नौसेना के नौसैनिक (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित), राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों, सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रम अथवा इसी प्रकार के अन्य संगठनों अथवा निजी रोजगार में कार्यरत उम्मीदवारों को आयोग को सीधे आवेदन करना होगा।

विशेष ध्यान दें--

(क) जो व्यक्ति पहले से ही स्थायी या अस्थायी हैसियत से सरकारी सेवा में हों या आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर कार्य प्रभारित कर्मचारी या जो लोक उद्यमों में सेवारत हैं, (ख) सशस्त्र सेना बल में कार्यरत उम्मीदवार, भारतीय नौसेना के नौसैनिक (बाल एवं परिशिल्पी शिक्षार्थियों सहित), और (ग) राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (जिसे पहले सैनिक स्कूल, देहरादून कहा जाता था) के कैडेट्स, मिलिट्री स्कूलों (जिन्हें पहले किंग जार्ज स्कूल कहा जाता था) और सैनिक स्कूलों की सोसायटी द्वारा चलाए जाने वाले सैनिक स्कूलों के छात्रों को अपने कार्यालय/विभाग अध्यक्ष, कमांडिंग अधिकारी, संबद्ध कॉलेज/स्कूल के प्रिंसिपल, जैसा भी मामला हो, को लिखित रूप में सूचित करना होगा कि उन्होंने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है।

उम्मीदवार नोट करें कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता/संबद्ध प्राधिकारी से इस परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले/बैठने वाले उम्मीदवारों की अनुमति रोकने संबंधी कोई पत्राचार प्राप्त होता है तो उनके आवेदन पत्र अस्वीकृत किए जा सकते हैं/उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है।

टिप्पणी-3 : उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्र में परीक्षा के लिए केन्द्र भरते समय सावधानीपूर्वक निर्णय लेना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा प्रेषित प्रवेश प्रमाणपत्र में दर्शाये गये केन्द्र से इतर केन्द्र में बैठता है तो उस उम्मीदवार के प्रश्नपत्रों का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा तथा उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

टिप्पणी-4 : जिन आवेदन प्रपत्रों के साथ निर्धारित शुल्क संलग्न नहीं होगा (उपर्युक्त पैरा 4 के अंतर्गत शुल्क माफी के दावे को छोड़कर) या जो अधूरे भरे हुए हों, उनको एकदम अस्वीकृत कर दिया जायेगा और किसी भी अवस्था में अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन या पत्र-व्यवहार को स्वीकार नहीं किया जायेगा। उम्मीदवार को अपने आवेदन प्रपत्रों के साथ आयु तथा शैक्षिक योग्यता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी श्रेणियां और शुल्क में छूट आदि का प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं

करना होगा। इसलिए वे इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं या नहीं। अतः परीक्षा में उनका प्रवेश भी पूर्णतः अनन्तिम होगा। यदि किसी बाद की तारीख को सत्यापन करते समय यह पता चलता है कि वे पात्रता की सभी शर्तें पूरी नहीं करते हैं तो उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी। परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम के जुलाई, 2012 में घोषित होने की संभावना है।

साक्षात्कार के लिये बुलाये गये सभी उम्मीदवारों को सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) के समक्ष मैट्रिक परीक्षा का मूल प्रमाणपत्र अथवा समकक्ष परीक्षा के प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होंगे। जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार में अर्हता प्राप्त कर लेंगे उन्हें साक्षात्कार के तुरंत बाद मूल प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करना होगा। जांच पड़ताल के बाद मूल प्रमाणपत्र लौट दिए जाएंगे। जो उम्मीदवार पहले ही 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके हैं, वे सेवा चयन बोर्ड हेतु अपना 10 + 2 परीक्षा उत्तीर्ण करने का मूल प्रमाणपत्र या अंक सूची अवश्य लाएं।

यदि उनका कोई भी दावा असत्य पाया जाता है तो उनके विरुद्ध आयोग द्वारा निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है :

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निर्मांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है:

- (i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना, या
- (ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना, या
- (iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना, या
- (iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गये प्रलेख प्रस्तुत करना, या
- (v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना, या
- (vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी अनियमित या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना, या
- (vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाना, या
- (viii) उत्तर-पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों, या
- (ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार करना, या
- (x) परीक्षा चलाने के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान करना या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाना, या
- (xi) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेज़र या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या
- (xii) उम्मीदवारों को परीक्षा देने की अनुमति देते हुए प्रेषित प्रवेश प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेश का उल्लंघन करना, या
- (xiii) ऊपर खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार को करने की कोशिश करना या करने के लिए उकसाना।

वह अपने को दण्ड-अभियोजन का शिकार बनाने के अतिरिक्त

- (क) आयोग की जिस परीक्षा का उम्मीदवार है उसके लिए आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है।

और/या

- (ख) स्थाई रूप से या किसी निर्दिष्ट अवधि के लिये अपवर्जित किया जा सकता है :

- (1) आयोग द्वारा उनकी किसी परीक्षा या चयन के लिए;

- (2) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिए; और

- (ग) यदि वह पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो समुचित नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

- (i) उम्मीदवार को इस सम्बन्ध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो, और

- (ii) उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

6. आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख :

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र 30 जनवरी, 2012 रात्रि 11.59 बजे तक भर जा सकते हैं जिसके पश्चात् लिंक निरुपयोग्य होगा।

7. आयोग/थल सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय के साथ पत्र-व्यवहार:

निम्नलिखित मामलों को छोड़कर आयोग अन्य किसी भी मामले में उम्मीदवार के साथ पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

- (i) पात्र उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के लगभग तीन सप्ताह पहले या तो पेपर प्रवेश प्रमाण पत्र या ई-प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। ई-प्रवेश पत्र का तरीका या तो ई-मेल के माध्यम से होगा (आवेदक द्वारा आवेदन पत्र भेजते समय जैसा मुहैया कराया गया है) या वे इसे संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।

- (ii) यदि किसी उम्मीदवार को परीक्षा प्रारंभ होने से एक सप्ताह पूर्व तक प्रवेश प्रमाणपत्र/ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी उम्मीदवारी से संबंध कोई सूचना न मिले तो उसे आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। ऐसी किसी सूचना के प्राप्त होने पर प्रवेशित उम्मीदवार को प्रवेश प्रमाणपत्र/ई-प्रवेश पत्र अथवा उसकी अनुप्राप्ति/अनुलिपि भेज दी जाएगी। इस संबंध में जानकारी आयोग परिसर में स्थित सुविधा काउंटर पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं. 011-23385271/011-23381125/011-23098543 से प्राप्त की जा सकती है। यदि उम्मीदवार से प्रवेश प्रमाणपत्र/ई-प्रवेश पत्र प्राप्त होने के संबंध में कोई सूचना आयोग कार्यालय में परीक्षा प्रारंभ होने से कम से कम एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होती है तो इसके लिए उम्मीदवार प्रवेश प्रमाणपत्र/ई-प्रवेश पत्र प्राप्त न होने के लिए वह स्वयं ही जिम्मेदार होगा।

सामान्यतः किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश प्रमाणपत्र/ई-प्रवेश पत्र के बिना बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्रवेश प्रमाणपत्र/ई-प्रवेश

पत्र प्राप्त होने पर इसकी सावधानीपूर्वक जांच कर लें तथा किसी प्रकार की त्रुटि/असंगति होने पर आयोग को तुरंत इसकी जानकारी दें।

किसी कोर्स में प्रवेश विभिन्न कोर्सों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर उनकी पात्रता तथा उम्मीदवार द्वारा दिये गये वरीयता क्रम को ध्यान में रखकर दिया जाएगा।

उम्मीदवारों को ध्यान रखना चाहिए कि परीक्षा में उनका प्रवेश उनके द्वारा आवेदन प्रपत्र में दी गई जानकारी के आधार पर रहेगा। यह आयोग द्वारा पात्रता की शर्तों के सत्यापन किए जाने पर आधारित होगा।

- (iii) यदि किसी उम्मीदवार को आयोग से एक से अधिक प्रवेश प्रमाणपत्र/ई-प्रवेश पत्र प्राप्त हों तो वह परीक्षा में बैठने के लिए उनमें से किसी एक प्रवेश प्रमाणपत्र/ई-प्रवेश पत्र का ही प्रयोग करें तथा अन्य प्रवेश प्रमाणपत्र/ई-प्रवेश पत्र आयोग के कार्यालय को वापिस कर दें।

- (iv) यदि किसी उम्मीदवार को गलती से किसी अन्य उम्मीदवार का प्रवेश प्रमाणपत्र/ई-प्रवेश पत्र प्राप्त हो जाये तो उसे तत्काल आयोग को वापिस कर दें तथा सही प्रवेश प्रमाणपत्र/ई-प्रवेश पत्र प्रेषित करने का अनुरोध करना चाहिए। उम्मीदवार को ध्यान रखना चाहिए कि किसी अन्य उम्मीदवार के प्रवेश प्रमाणपत्र/ई-प्रवेश पत्र के आधार पर परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

- (v) उम्मीदवार के आवेदन प्रपत्र की स्वीकार्यता तथा वह उक्त परीक्षा में प्रवेश का पात्र है या नहीं है इस बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

- (vi) उम्मीदवार ध्यान रखें कि प्रवेश प्रमाणपत्र में कहीं-कहीं नाम तकनीकी कारणों से संक्षिप्त रूप में लिखे जा सकते हैं।

- (vii) उम्मीदवार को यह सुनिश्चित अवश्य कर लेना चाहिए कि आवेदन में उनके द्वारा दी गई ई-मेल आई डी मान्य और सक्रिय हो।

- (viii) उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था अवश्य कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित पते पर भेजे गए पत्र आदि आवश्यक होने पर उसको बदले हुए पते पर मिल जाया करें। पते में किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर आयोग को उसकी सूचना यथाशीघ्र दी जानी चाहिए। आयोग ऐसे परिवर्तनों पर ध्यान देने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता है, किन्तु इस विषय में कोई जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता।

महत्वपूर्ण : आवेदन के सम्बन्ध में सभी पत्र-व्यवहार परीक्षा नियंत्रक, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110069 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नलिखित विवरण अवश्य होना चाहिए:

1. परीक्षा का नाम और वर्ष
2. रजिस्ट्रेशन आई डी (आर आई डी)
3. अनुक्रमांक (यदि मिला हो)
4. उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)
5. पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन प्रपत्र में दिया है।

विशेष ध्यान (1) : जिन पत्रों में ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

विशेष ध्यान (2) : यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी

उम्मीदवार का पत्र/पत्रादि प्राप्त होता है या जिसमें उसका पूरा नाम और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं दिया जायेगा, और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों ने अगर परीक्षा के लिए आवेदन करने के बाद, अपना पता बदल लिया हो तो उनको चाहिए कि परीक्षा के लिए लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए—सेना मुख्यालय, ए.जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खंड (III), स्कंध-1, आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473।

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिये—नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, ओ आई एण्ड आर अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010097/23011282।

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी. ओ. 3(ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लाक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7081, को सूचित कर देना चाहिए।

जो उम्मीदवार इन अनुदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये सम्मन-पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जाएगा।

जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करने के लिए अनुशंसित हैं वह अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा से 20 दिन के पश्चात् सम्बन्धित सर्विस हेडक्वार्टर्स के निम्नलिखित पते पर सम्पर्क करें या वेबसाइट को देखें :

सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए—सेना मुख्यालय, ए. जी. ब्रांच, आरटीजी (रा.र.अ. प्रविष्टि), पश्चिमी खण्ड-III, स्कंध-(I), आर. के. पुरम, नई दिल्ली-110066, दूरभाष सं. 26175473, या www.joinindianarmy.nic.in

नौसेना/नौसेना अकादमी को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए—नौ सेना मुख्यालय, जनशक्ति एवं भर्ती निदेशालय, आर. एण्ड आर. अनुभाग, कमरा नं. 204, 'सी' स्कंध, सेना भवन, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010097/23011282 या www.nausenabharti.nic.in

वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के लिए—वायु सेना मुख्यालय, कार्मिक (अधिकारी) निदेशालय, पी. ओ. 3 (ए), कमरा नं. 17, 'जे' ब्लाक, वायु सेना भवन के सामने, मोतीलाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110011, दूरभाष सं. 23010231 एक्सटेंशन 7081/7082 या www.careerairforce.nic.in के पते पर लिखने चाहिये।

उम्मीदवार को भेजे गए सम्मन-पत्र द्वारा सूचित तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार के लिए पहुंचना है। साक्षात्कार को स्थगित करने से संबद्ध अनुरोध पर केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जायेगा जिसके लिए निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय होगा। इस प्रकार के अनुरोध उस चयन केन्द्र के प्रशासनिक अधिकारी को संबोधित होने

चाहिए जहां से साक्षात्कार हेतु आह्वान-पत्र (कॉल लेटर) प्राप्त हुआ है। सेना/नौ सेना/वायु सेना मुख्यालय में प्राप्त पत्रों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार सितम्बर-अक्तूबर, 2012 में अथवा भर्ती निदेशालय की सुविधानुसार किए जाएंगे।

8. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अन्तिम परिणामों की घोषणा और अन्तिम रूप से अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश :

संघ लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा में आयोग के स्व:निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। ये उम्मीदवार बुद्धिमत्ता परीक्षण तथा व्यक्तित्व परीक्षण के लिए सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे जहां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के थल सेना, नौ सेना स्कंधों और भारतीय नौ सेना अकादमी 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम के उम्मीदवारों की अधिकारी क्षमता तथा वायु सेना के उम्मीदवारों का पाईलट एप्टीट्यूड परीक्षण तथा अधिकारी क्षमता का मूल्यांकन किया जाएगा। वायु सेना को प्रथम वरीयता देने वाले उम्मीदवारों के मामले में लागू पीएबीटी सेवा चयन बोर्ड से अर्हता प्राप्त उन सभी उम्मीदवारों के लिए भी जिन्होंने वायु सेना एक वरीयता के रूप में दी है उनकी योग्यता और इच्छा के आधार पर किया जाएगा।

दो चरणों की चयन प्रक्रिया :

मनोवैज्ञानिक अभिरूचि परीक्षण और बुद्धिमत्ता परीक्षण पर आधारित दो चरणों की चयन-प्रक्रिया चयन केन्द्रों/वायुसेना चयन बोर्डों में प्रारंभ कर दी गई है। सभी उम्मीदवारों को चयन केन्द्रों/वायु सेना चयन केन्द्रों पर पहुंचने से पहले दिन प्रथम चरण परीक्षण में रखा जाएगा। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को द्वितीय चरण/शेष परीक्षणों के लिए प्रवेश दिया जाएगा जिन्होंने पहला चरण उत्तीर्ण कर लिया होगा। वे उम्मीदवार जो चरण-II उत्तीर्ण कर लेंगे उन्हें इन प्रत्येक में से (i) अपनी जन्मतिथि के समर्थन के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण या समकक्ष प्रमाणपत्र, और (ii) शैक्षिक योग्यता के समर्थन में 10+2 या समकक्ष उत्तीर्ण के प्रमाणपत्र की मूल प्रति के साथ-साथ 2 फोटो प्रति भी जमा करनी होंगी।

जो उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर वहां परीक्षण देंगे वे अपने ही जोखिम पर इन परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको किसी व्यक्ति की लापरवाही से या अन्यथा कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिए वे सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के हकदार नहीं होंगे। उम्मीदवारों के माता-पिता या अभिभावकों को इस आशय के एक प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे। स्वीकार्यता हेतु थल सेना/नौ सेना/नौ सेना अकादमी और वायुसेना के उम्मीदवारों को 1 लिखित परीक्षा तथा 2 अधिकारी क्षमता परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे, जो क्रमशः आयोग तथा सेवा चयन बोर्ड द्वारा उनके स्वनिर्णय के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे। वायु सेना के उम्मीदवारों के अतिरिक्त सेवा चयन बोर्ड अर्हता प्राप्त सभी उम्मीदवारों को अपनी इच्छानुसार पात्रता और वायु सेना एक वरीयता के रूप में दी हो, पीएबीटी में अलग अर्हता प्राप्त करनी होगी।

अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों को इन शर्तों पर उनके द्वारा लिखित परीक्षा तथा सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर एकल संयुक्त सूची में रखा जाएगा। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की थल सेना, नौ सेना, वायु सेना में और भारतीय नौ सेना, अकादमी की 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम में

प्रवेश के लिए अंतिम रूप से नियतन/चयन, उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को देखते हुए उम्मीदवारों की पात्रता, शारीरिक स्वास्थ्यता और योग्यता/सह-वरीयता के अनुसार होगा। वे उम्मीदवार जो एक से अधिक सेवाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के पात्र हैं, उनके नियतन/चयन पर, उनके द्वारा दिए गए वरीयता-क्रम के संदर्भ में विचार किया जाएगा और किसी एक सेवा/पाठ्यक्रम में उनके अंतिम रूप से नियतन/चुन लिए जाने पर, उनके नाम पर शेष सेवाओं/पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

विशेष ध्यान : वायु सेना के प्रत्येक उम्मीदवार का पायलट एप्टीट्यूड परीक्षण केवल एक बार किया जाता है। अतः उसके द्वारा प्रथम परीक्षण में प्राप्त ग्रेड वायु सेना चयन बोर्ड के सामने बाद में होने वाले साक्षात्कार में स्वीकार किया जाएगा। जो उम्मीदवार पायलट एप्टीट्यूड के प्रथम परीक्षण में असफल हो जाता है वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा के वायु सेना विंग या जनरल ड्यूटी (पायलट) ब्रांच या नेवल एयर आर्म में प्रवेश के लिए आवेदन नहीं कर सकता।

जिन उम्मीदवारों का किसी पिछले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कोर्स में पायलट एप्टीट्यूड परीक्षण हो चुका है तो उन्हें इस परीक्षा के वायु सेना विंग के लिए तभी आवेदन करना चाहिए, अगर उन्होंने यह प्रशिक्षण उत्तीर्ण कर लिया हो। अलग-अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किए जाएं इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से अकादमी में प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। उम्मीदवार को नियुक्ति-प्राधिकारी को संतुष्ट करना होगा कि वह अकादमी में प्रवेश के लिए सभी तरह से उपयुक्त है।

9. प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए अनर्हताएं :

जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी अथवा भारतीय नौ सेना अकादमी की 10+2 कैंडिडेट एंटी स्क्रीम किसी पहले कोर्स में प्रवेश पा चुके थे पर अधिकारी सुलभ विशेषताओं के अभाव के कारण या अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये थे उनको अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

किंतु जिन उम्मीदवारों को अस्वस्थता के आधार पर पहले राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय नौ सेना अकादमी से वापस ले लिया गया था या जिन्होंने अपनी इच्छा से उक्त अकादमी छोड़ दी हो उन्हें अकादमी में प्रवेश मिल सकता है बशर्ते कि वे स्वास्थ्य तथा अन्य निर्धारित शर्तें पूरी करते हों।

10. उम्मीदवार को अपना आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत कर देने के बाद उम्मीदवारी वापस लेने से संबंधित उसके किसी भी अनुरोध को किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11. (क) परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण (ख) अकादमी में प्रवेश हेतु शारीरिक मानक से मार्गदर्शक संकेत और (ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि के संक्षिप्त विवरण आदि की विस्तृत जानकारी के संबंध में क्रमशः परिशिष्ट I, II और III में विस्तार से समझाया गया है।

कुलदीप कुमार सहरावत
उप सचिव

परिशिष्ट-I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य विवरण)

(क) परीक्षा की योजना:

1. लिखित परीक्षा के विषय, नियत समय तथा प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :--

विषय	कोड	अवधि	अधिकतम अंक
गणित	01	2½ घंटे	300
सामान्य योग्यता परीक्षण	02	2½ घंटे	600
कुल			900
सेवा चयन बोर्ड टेस्ट/साक्षात्कार			900

2. सभी विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न ही होंगे। गणित और सामान्य योग्यता परीक्षण के भाग-ख के प्रश्न-पत्र (परीक्षण पुस्तिकाएं) द्विभाषी रूप हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किये जाएंगे।

3. प्रश्न-पत्रों में, जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल्स और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न-पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए। किसी भी हालत में उन्हें प्रश्न-पत्र के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी।

5. परीक्षा के एक अथवा सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग की विवक्षा पर रहेगा।

6. उम्मीदवारों को वस्तुपरक प्रश्न-पत्रों (प्रश्न-पुस्तिकाओं) के उत्तर लिखने के सिव्हे कैलकुलेटर अथवा गणितीय अथवा लघुगणकीय सारणियां प्रयोग करने की अनुमति नहीं है, अतः ये उन्हें परीक्षा भवन में नहीं लानी चाहिए।

(ख) परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण :

प्रश्न-पत्र-I

गणित

(कोड संख्या 01)

(अधिकतम अंक 300)

1. बीजगणित:

समुच्चय की अवधारणा, समुच्चयों पर संक्रिया, वेन आरेख, द्वि-समरूपन नियम, कार्तीय गुणन, संबंध, तुल्यता-संबंध।

वास्तविक संख्याओं का एक रेखा पर निरूपण। समिश्र संख्याएं- आधार-भूत गुणधर्म, मापक, कोणांक, इकाई का घनमूल। संख्याओं की द्विआधारी प्रणाली। दशमलव प्रणाली की एक संख्या का द्विआधारी प्रणाली में परिवर्तन तथा विलोमतः परिवर्तन। अंकगणितीय, ज्यामितीय तथा हरात्मक श्रेणी, वास्तविक गुणांक सहित द्विघात समीकरण। ग्राफों द्वारा दो चरों वाले रैखिक असमिका का हल। क्रमचय तथा संचय। द्विपद प्रमेय तथा इसके अनुप्रयोग। लघुगणक तथा उनके अनुप्रयोग।

2. आव्यूह तथा सारणिकः

आव्यूहों के प्रकार, आव्यूहों पर संक्रिया। आव्यूह के सारणिक, सारणिकों के आधारभूत गुणधर्म, वर्ग आव्यूह के सहखंडन तथा व्युत्क्रम, अनुप्रयोग—दो या तीन अज्ञातों में रैखिक समीकरणों के तंत्र का कैमर के नियम तथा आव्यूह पद्धति द्वारा हल।

3. त्रिकोणमितिः

कोण तथा डिग्रियों तथा रेडियन में उनका मापन। त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय सर्वसमिका योग तथा अंतर सूत्र। बहुल तथा अपवर्तक कोण। व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन। अनुप्रयोग—ऊँचाई तथा दूरी, त्रिकोणों के गुणधर्म।

4. दो तथा तीन विमाओं की विश्लेषिक ज्यामितिः

आयतीय कार्तीय निर्देशक पद्धति, दूरी सूत्र, एक रेखा का विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण। एक रेखा से एक बिन्दु की दूरी। मानक तथा सामान्य प्रकार में एक वृत्त का समीकरण। परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरवलय के मानक प्रकार। एक शंकु की उत्केन्द्रता तथा अक्ष। त्रिविम आकाश में बिन्दु, दो बिन्दुओं के मध्य दूरी। दिक्-को साइन तथा दिक्-अनुपात। समतल तथा रेखा के विभिन्न प्रकारों में समीकरण। दो रेखाओं के मध्य कोण तथा दो तलों के मध्य कोण। गोले का समीकरण।

5. अवकल गणितः

वास्तविक मान फलन की अवधारणा—फलन का प्रांत, रेंज व ग्राफ। संयुक्त फलन, एकैकी, आच्छादक तथा व्युत्क्रम फलन, सीमांत की धारणा, मानक सीमांत—उदाहरण। फलनों के सांतत्य—उदाहरण, सांतत्य फलनों पर बीज गणितीय संक्रिया, एक बिन्दु पर एक फलन का अवकलन एक अवकलन के ज्यामितीय तथा भौतिक निर्वचन—अनुप्रयोग। योग के अवकलज, गुणनफल और फलनों के भागफल, एक फलन का दूसरे फलन के साथ अवकलज, संयुक्त फलन का अवकलज। द्वितीय श्रेणी अवकलज, वर्धमान तथा ह्रास फलन। उच्चिष्ठ तथा अल्पिष्ठ की समस्याओं में अवकलजों का अनुप्रयोग।

6. समाकलन गणित तथा अवकलन समीकरणः

अवकलन के प्रतिलोम के रूप में समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन तथा खंडशः समाकलन, बीजीय व्यंजकों सहित मानक समाकल, त्रिकोणमितीय, चरघातांकी तथा अतिपरवलयिक फलन। निश्चित समाकलनों का मानांकन वक्र रेखाओं द्वारा घिरे समतल क्षेत्रों के क्षेत्रफलों का निर्धारण—अनुप्रयोग।

अवकलन समीकरण की डिग्री तथा कोटि की परिभाषा, उदाहरणों द्वारा अवकलन समीकरण की रचना। अवकलन समीकरण का सामान्य तथा विशेष हल। विभिन्न प्रकार के प्रथम कोटि तथा प्रथम डिग्री अवकलन समीकरणों का हल—उदाहरण। वृद्धि तथा क्षय की समस्याओं में अनुप्रयोग।

7. सदिश बीजगणितः

दो तथा तीन विमाओं में सदिश, सदिश का परिमाण तथा दिशा, इकाई तथा शून्य सदिश, सदिशों का योग, एक सदिश का अदिश गुणन, दो सदिशों का अदिश गुणनफल या बिन्दुगुणनफल। दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल, अनुप्रयोग—बल तथा बल के आघूर्ण तथा किया गया कार्य तथा ज्यामितीय समस्याओं में अनुप्रयोग।

8. सांख्यिकी तथा प्रायिकता :

सांख्यिकी: आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता-बंटन, संचयी बारंबारता-बंटन—उदाहरण। ग्राफीय निरूपण—आयत चित्र, पाई चार्ट, बारंबारता बहुभुज—उदाहरण केन्द्रीय प्रवृत्ति का मापन—माध्य, माध्यिका तथा बहुलक। प्रसरण तथा मानक विचलन—निर्धारण तथा तुलना। सहसंबंध तथा समाश्रयण।

प्रायिकता: यादृच्छिक प्रयोग, परिणाम तथा सहचारी प्रतिदर्श समष्टि, घटना, परस्पर अपवर्जित तथा निश्चेष घटनाएं—असंभव तथा निश्चित घटनाएं, घटनाओं का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ। पूरक, प्रारंभिक तथा संयुक्त घटनाएं। प्रायिकता पर प्रारंभिक प्रमेय—साधारण प्रश्न। प्रतिदर्श समाविष्ट पर फलन के रूप में यादृच्छिक चर। द्विआधारी बंटन, द्विआधारी बंटन को उत्पन्न करने वाले यादृच्छिक प्रयोगों के उदाहरण।

प्रश्न पत्र-II

सामान्य योग्यता परीक्षण

(कोड संख्या 02)

(अधिकतम अंक-600)

भाग (क) अंग्रेजी :

(अधिकतम अंक 200)

अंग्रेजी का प्रश्न-पत्र इस प्रकार का होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी की समझ और शब्दों के कुशल प्रयोग का परीक्षण हो सके। पाठ्यक्रम में विभिन्न पहलू समाहित हैं जैसे व्याकरण और प्रयोग विधि शब्दावली तथा अंग्रेजी में उम्मीदवार की प्रवीणता की परख हेतु विस्तारित परिच्छेद की बोधगम्यता तथा संबद्धता।

भाग (ख) सामान्य ज्ञान :

(अधिकतम अंक 400)

सामान्य ज्ञान के प्रश्न-पत्रों में मुख्य रूप से भौतिकी, रसायन शास्त्र, सामान्य विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, भूगोल तथा सामायिक विषय आयेंगे। इस प्रश्न-पत्र में शामिल किए गए विषयों का क्षेत्र निम्न पाठ्य-विवरण पर आधारित होगा। उल्लिखित विषयों को सर्वांग-पूर्ण नहीं मान लेना चाहिए तथा इसी प्रकार के ऐसे विषयों पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिनका इस पाठ्य विवरण में उल्लेख नहीं किया गया है। उम्मीदवार के उत्तरों में विषयों को बोधगम्य ढंग से समझने की मेधा और ज्ञान का पता चलना चाहिए।

खंड-क (भौतिकी) :

द्रव्य के भौतिक गुणधर्म तथा स्थितियां, संहति, भार, आयतन, घनत्व तथा विशिष्ट घनत्व, आर्कमिडिज का सिद्धांत, वायु दाब मापी, बिम्ब की गति, वेग और त्वरण, न्यूटन के गति नियम, बल और संवेग, बल समान्तर चतुर्भुज, पिण्ड का स्थायित्व और संतुलन, गुरुत्वाकर्षण, कार्य, शक्ति और ऊर्जा का प्रारंभिक ज्ञान।

ऊष्मा का प्रभाव, तापमान का माप और ऊष्मा, स्थिति परिवर्तन और गुप्त ऊष्मा, ऊष्मा अभिगमन की विधियां। ध्वनि तरंग और उनके गुण-धर्म, सरल वाद्य यंत्र, प्रकाश का बहुरेखीय चरण, परावर्तन और अपवर्तन, गोलीय दर्पण और लेन्सेज, मानव नेत्र, प्राकृतिक तथा कृत्रिम चुम्बक, चुम्बक के गुण धर्म। पृथ्वी चुम्बक के रूप में। स्थैतिक तथा धारा विद्युत। चालक और अचालक, ओहम नियम, साधारण विद्युत परिपथ। धारा के मापन, प्रकाश तथा चुम्बकीय प्रभाव, विद्युत शक्ति का माप। प्राथमिक और

गौण सेल। एक्स-रे के उपयोग। निम्नलिखित के कार्य के संचालन के सिद्धान्त : सरल लोलक, सरल घिरनी, सङ्कन, उत्तोलक, गुब्बारा, पंप, हाईड्रोमीटर, प्रेशर कुकर, थर्मस फ्लास्क, ग्रामोफोन, टेलीग्राफ, टेलीफोन, पेरिस्कोप, टेलिस्कोप, माइक्रोस्कोप, नाविक दिक्पूचक, तड़ित चालक, सुरक्षा फ्यूज।

खंड-ख (रसायन शास्त्र) :

भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, तत्व मिश्रण तथा यौगिक, प्रतीक सूत्र और सरल रासायनिक समीकरण रासायनिक संयोग के नियम (समस्याओं को छोड़कर) वायु तथा जल के रासायनिक गुण धर्म, हाइड्रोजन, आक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाई-आक्साइड की रचना और गुण धर्म, आक्सीकरण और अपचयन।

अम्ल, क्षारक और लवण।

कार्बन-भिन्न रूप

उर्वरक-प्राकृतिक और कृत्रिम।

साबुन, कांच, स्याही, कागज, सीमेंट, पेंट, दियासलाई और गनपाउडर जैसे पदार्थों को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री।

परमाणु की रचना, परमाणु तुल्यमान और अणुभार, संयोजकता का प्रारंभिक ज्ञान।

खंड (ग) (सामान्य विज्ञान) :

जड़ और चेतन में अंतर।

जीव कोशिकाओं, जीव द्रव्य और ऊतकों का आधार।

वनस्पति और प्राणियों में वृद्धि और जनन।

मानव शरीर और उसके महत्वपूर्ण अंगों का प्रारंभिक ज्ञान।

सामान्य महामारियों और उनके कारण तथा रोकने के उपाय।

खाद्य-मनुष्य के लिए ऊर्जा का स्रोत। खाद्य के अवयव, संतुलित आहार, सौर परिवार, उल्का और धूमकेतु, ग्रहण।

प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों की उपलब्धियां।

खंड-घ (इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन आदि) :

भारतीय इतिहास का मोटे तौर पर सर्वेक्षण तथा संस्कृति और सभ्यता की विशेष जानकारी।

भारत में स्वतंत्रता आंदोलन

भारतीय संविधान और प्रशासन का प्रारंभिक अध्ययन। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं, पंचायती राज, सहकारी समितियां और सामुदायिक विकास की प्रारंभिक जानकारी।

भूदान, सर्वोदय, राष्ट्रीय एकता और कल्याणकारी राज्य।

महात्मा गांधी के मूल उपदेश।

आधुनिक विश्व निर्माण करने वाली शक्तियां, पुनर्जागरण, अन्वेषण और खोज, अमेरिका का स्वाधीनता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति और रूसी क्रांति, समाज पर विज्ञान और औद्योगिकी का प्रभाव।

एक विश्व की संकल्पना, संयुक्त राष्ट्र, पंचशील, लोकतंत्र, समाजवाद तथा साम्यवाद, वर्तमान विश्व में भारत का योगदान।

खंड-ङ (भूगोल) :

पृथ्वी, इसकी आकृति और आकार, अक्षांश और रेखांश, समय संकल्पना, अंतर्राष्ट्रीय तारीख रेखा, पृथ्वी की गतियां और उसके प्रभाव, पृथ्वी का उद्भव, चट्टानें और उनका वर्गीकरण, अपक्षय-यांत्रिक और रासायनिक, भूचाल तथा ज्वालामुखी। महासागर धाराएं और ज्वार भाटे।

वायुमण्डल और इसका संगठन, तापमान और वायुमण्डलीय दाब।

भूमण्डलीय पवन, चक्रवात और प्रति चक्रवात, आर्द्रता, द्रव्यण और वर्षण ;

जलवायु के प्रकार, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र।

भारत का क्षेत्रीय भूगोल-जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, खनिज और शक्ति संसाधन, कृषि और औद्योगिक कार्यकलापों के स्थान और वितरण। भारत के महत्वपूर्ण समुद्री पत्तन, मुख्य समुद्री, भू और वायु मार्ग, भारत के आयात और निर्यात की मुख्य मदें।

खंड-च (सामयिक घटनाएं) :

हाल ही के वर्षों में भारत में हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी। सामयिक महत्वपूर्ण विश्व घटनाएं।

महत्वपूर्ण व्यक्ति-भारतीय और अन्तर्राष्ट्रीय, इनमें सांस्कृतिक कार्यकलापों और खेलकूद से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति भी शामिल हैं।

टिप्पणी : इस प्रश्न-पत्र के भाग (ख) में नियत अधिकतम अंकों में सामान्यतः खण्ड क, ख, ग, घ, ङ तथा च प्रश्नों के क्रमशः लगभग 25%, 15%, 10%, 20%, 20% तथा 10% अंक होंगे।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण :

उम्मीदवार की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित परीक्षा ली जाएगी। उनके ग्रुप परीक्षण भी किए जाएंगे, जैसे ग्रुप परिचर्चा, ग्रुप योजना, बहिरंग ग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा। ये सभी परीक्षण उम्मीदवारों की मेधाशक्ति की जांच के लिए हैं। मोटे तौर पर ये परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए अपितु इनसे उसकी सामाजिक विशेषताओं तथा सामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा।

परिशिष्ट-III

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के शारीरिक मानक के मार्गदर्शक संकेत

टिप्पणी : उम्मीदवारों को निर्धारित शारीरिक मानकों के अनुसार शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। इस संबंध में मार्गदर्शक संकेत नीचे दिये गये हैं। बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में स्वास्थ्य के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जाते हैं, अतः उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे अन्तिम अवस्था पर निराशा से बचने के लिए आवेदन प्रपत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें।

उम्मीदवारों को परामर्श दिया जाता है कि सेवा चयन बोर्ड से अनुशंसा के बाद सैनिक अस्पताल में चिकित्सा परीक्षा में शीघ्र निर्णय के लिए छोटी-मोटी कमियों/बीमारियों को दूर कर लें।

कुछ ऐसे दोष/बीमारियां नीचे दर्शाई गई हैं :—

- (क) कान का मैल
- (ख) डेवियेटिड नेजल सेप्टम
- (ग) हाइड्रोसिल/फीमोसिस
- (घ) अधिक भार/कम भार
- (ङ) छाती कम होना
- (च) बवासीर
- (छ) गाहनी कामेस्टिया
- (ज) टांसिल
- (झ) वेरिकोसिल

सशस्त्र सेना में सभी प्रकार के कमीशन के लिए प्रवेश पाने वाले असैनिक उम्मीदवार चयन बोर्ड द्वारा अपनी जांच के दौरान किसी क्षति या संक्रमित रोग होने पर सेना के स्रोतों से सरकारी खर्च पर बाह्य-रोगी चिकित्सा के हकदार होंगे—वे अस्पताल के अधिकारी-वार्ड में सरकारी खर्च पर अंतरोगी चिकित्सा के भी पात्र होंगे, बशर्ते कि—

- (क) क्षति परीक्षण के दौरान हुई हो, अथवा
- (ख) चयन बोर्ड द्वारा परीक्षण के दौरान रोग का संक्रमण हुआ हो और स्थानीय सिविल अस्पताल में उपयुक्त जगह नहीं हो या रोगी को सिविल अस्पताल में ले जाना अव्यवहारिक हो; अथवा

(ग) चिकित्सा बोर्ड उम्मीदवार को प्रेषण हेतु दाखिल कराना अपेक्षित समझे।

नोट : वे विशेष सेवा के हकदार नहीं हैं।

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित उम्मीदवार को सेवा के चिकित्सा अधिकारियों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा करानी होगी। अकादमी में केवल उन्हीं उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जाएगा जो चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित कर दिये जाते हैं। चिकित्सा बोर्ड का कार्यवृत्त गोपनीय होता है, जिसे किसी को नहीं दिखाया जाएगा। किन्तु अयोग्य/अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को उनके परिणाम की जानकारी चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दे दी जाएगी तथा उम्मीदवारों को चिकित्सा बोर्ड से अपील करने का अनुरोध करने की प्रक्रिया भी बता दी जाएगी। अपील चिकित्सा बोर्ड के दौरान अयोग्य घोषित उम्मीदवारों को समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के प्रावधान के बारे में सूचित किया जायेगा।

(क) उम्मीदवारों का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तथा उन्हें ऐसी बीमारी/अशक्तता से मुक्त होना चाहिए जिससे उनके कुशलतापूर्वक सैन्य कार्य करने में बाधा पड़ सकती हो।

(ख) उनमें कमजोर शारीरिक गठन/दैहिक दोष या वजन की कमी नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार ज्यादा वजन और मोटा नहीं होना चाहिए।

(ग) कद कम से कम 157.5 सेंमी (वायु सेना के लिए 162.5 सेंमी) का हो। गोरखा और भारत के उत्तर पूर्व के पर्वतीय प्रदेशों, गढ़वाल तथा कुमायूँ के व्यक्तियों का 5 सेंमी कम कद स्वीकार्य होगा। लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद में 2 सेंमी की कमी भी स्वीकार्य की जा सकती है। कद और वजन मानक नीचे दिए जाते हैं।

कद और वजन के मानक—थल सेना/वायु सेना के लिए

सारणी-I

कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता)	वजन किलोग्राम में		
	16-17 वर्ष	17-18 वर्ष	18-19 वर्ष
152	42.5	44.0	45.0
155	43.5	45.3	47.0
157	45.0	47.0	48.0
160	46.5	48.0	49.0
162	48.0	50.0	51.0
165	50.0	52.0	53.0
167	51.0	53.0	54.0
170	52.5	55.0	56.0
173	54.5	57.0	58.0
175	56.0	59.0	60.0
178	58.0	61.0	62.0
180	60.0	63.0	64.5
183	62.5	65.0	66.5

कद और वजन के मानक—नौसेना के लिए

सारणी-II

कद सेंटीमीटरों में (बिना जूता)	वजन किलोग्राम में		
	16 वर्ष	18 वर्ष	20 वर्ष
152	44	45	46
155	45	46	47
157	46	47	49
160	47	48	50
162	48	50	52
165	50	52	53
168	52	53	55
170	53	55	57
173	55	57	59
175	57	59	61
178	59	61	62
180	61	63	64
183	63	65	67

उपयुक्त सारणी-1 में दिए गए औसत वजन का ± 10 प्रतिशत (नौ सेना के लिए ± 6 किलोग्राम) कम ज्यादा वजन सामान्य सीमा के अंदर माना जाएगा। किन्तु भारी हड्डियों वाले लंबे चौड़े व्यक्तियों तथा पतले पर अन्यथा स्वस्थ व्यक्तियों के मामले में गुणवत्ता के आधार पर इसमें कुछ छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-1 : ऐसे मामलों में जहां चिकित्सा बोर्ड यह प्रमाणित कर देता है कि उम्मीदवार प्रशिक्षण पूरा होने तक बढ़कर अपेक्षित मानक हो सकता है कदम में 2.5 सेंमी की (नौ सेना के लिए 5 सेंमी) छूट दी जा सकती है।

टिप्पणी-2 : वायु सेना में पायलट के रूप में विशेष अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु टांग की लंबाई, जांघ की लंबाई तथा बैठे हुए लंबाई की स्वीकार्य माप निम्न प्रकार होगी :—

	न्यूनतम	अधिकतम
टांग की लंबाई	99.00 सेंमी	120.00 सेंमी
जांघ की लंबाई	—	64.00 सेंमी
बैठे हुए लंबाई	81.50 सेंमी	96.00 सेंमी

राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के उम्मीदवार की कम उम्र के कारण 5.0 सेंमी तक ऊंचाई में 2.65 सेंमी (न्यूनतम) एक टांग की लंबाई में और 1.0 सेंमी (न्यूनतम) तक बैठे हुए ऊंचाई में गुंजाइश दी जा सकती है बशर्ते कि चिकित्सा बोर्ड ने प्रमाणित कर दिया हो कि उम्मीदवार में बड़ेतरी हो सकती है और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा होने तक यह अपेक्षित स्तर प्राप्त कर सकता है।

(घ) छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए, पूर्ण रूप से फुलाया हुआ सीना 81 सेंमी से कम नहीं होना चाहिए। पूरा सांस लेने के बाद इसका न्यूनतम फुलाव 5 सेंमी होना चाहिए। माप इस तरह फीता लगाकर की जाएगी कि इसका निचला किनारा सामने चूचक से लगा रहे और फीते का ऊपरी भाग पीछे स्कंध फलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोण (लोअर एंगिल) को छूते रहना चाहिए। छाती का एक्स-रे करना जरूरी है। इसे यह जानने के लिए किया जाएगा कि छाती का कोई रोग तो नहीं है।

(ङ) हड्डियों या जोड़ों में कोई अप विकृति या उनकी कार्यप्रणाली में कोई विकृति नहीं होनी चाहिए।

मेरुदण्ड की स्थितियां

(च) मेरुदण्ड अथवा त्रिक—श्रेणिफलक—संधि संबंधी रोग या अभिघात का पूर्व चिकित्सीय इतिहास, अभिदृश्यक लक्षणों सहित या उनके बिना जो उम्मीदवार को शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन सफलतापूर्वक जीने से रोक रहे हों के मामले में भारतीय वायु सेना में कमीशन नहीं दिया जाएगा। मेरुदण्ड अस्थिभंग/अन्तरा कशेरुका चक्रिश्च भ्रंश का इतिहास तथा इन स्थितियों के लिए किए गए शल्य चिकित्सकीय उपचार स्वीकार्य नहीं होंगे। चिकित्सा परीक्षा के दौरान निम्नलिखित स्थितियां पाए जाने पर उम्मीदवार वायु सेना सेवा के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे :—

(i) मेरुदण्ड का कणिकागुल्मीय रोग

(ii) संधिशोथ संरूप/कशेरुकासन्धिग्रह

—रूमेटीड सन्धिशोध तथा संबद्ध विकार

—बद्ध कशेरुकासन्धिशोध

—अस्थिसंधिशोथ, कशेरुकासंधिग्रह तथा अपविकसित संधि रोग

—संधिहीन आभवात (यथा घूर्ण कफ की वक्षति, टेनिस कर्पूर, पुनरावर्ती कटिवेदना आदि)

—एस एल ई, त्वक्पेशी शोथ, बहुपेशीशोथ पर्विका वाहिकाशोथ सहित विविध विकार

(iii) कशेरुकाग्रसरण/कशेरुकासन्धिग्रह

(iv) कशेरुकाओं का सम्पीड़न अस्थिभंग

(v) शेयूरमैन रोग (कौमार कुब्जता)

(vi) ग्रेव मेरुदण्ड की निर्बन्धित गतियों से संबद्ध होने पर ग्रेव अग्रकुब्जता की क्षति

(vii) एक पार्श्वीय/द्विपार्श्वीय ग्रेव पर्शुका सहित प्रमाण्य तंत्रिका वैज्ञानिक या परिसंचरण कमी

(viii) कॉब पद्धति द्वारा मापे जाने पर 15 डिग्री से अधिक पार्श्वकुब्जता

(ix) मज्जा केन्द्रक हिर्म्येशन

(x) एक से अधिक स्तर पर स्मोल पर्व की मौजूदगी

(xi) शीर्षधर भ्रूचकपाल और शीर्षधर अक्षक विषमताएं

(xii) ग्रेव, अभिपृष्ठ या कटि मेरुदण्ड में किसी भी स्तर पर अर्ध कशेरुका तथा/अथवा अपूर्ण रोध (संयुक्त) तथा ग्रेव, अभिपृष्ठ या कटि मेरुदण्ड में एक से अधिक स्तर पर पूर्ण कशेरुका रोध

(xiii) सभी स्तरों पर एकपार्श्वीय त्रिकास्थि संयोजन अथवा कटि कशेरुका भवन (पूर्ण या अपूर्ण) तथा द्विपार्श्वीय अपूर्ण त्रिकास्थि संयोजन अथवा कटि कशेरुका भवन

(xiv) विशेषज्ञ द्वारा विचार की गई कोई अन्य असामान्यता

(छ) हल्का काइफोसिस या लोडोसिस जहां विरूपता मुश्किल से दिखाई देती है जहां दर्द की या हरकत में रुकावट की शिकायत नहीं है, स्वीकृति में बाधा नहीं बनेगा।

(ज) दिखाई पड़ने वाले स्कोलिओसिस के या अन्य किसी तरह की असामान्यता या मेरुदण्ड की विरूपता का जो मामूली से अधिक हो—संदेह होने पर मेरुदण्ड का उपयुक्त एक्स-रे लिया जाना है और परीक्षार्थी को विशेषज्ञ की सलाह हेतु प्रस्तुत करना है।

(झ) एक्स-रे परीक्षा के बाद पाई गई निम्नलिखित अवस्थाएं थल सेना में प्रवेश हेतु अयोग्यता का कारण बानी जाएंगी :—

1. मेरुदण्ड की ग्रेन्यूलोमेट्स बीमारी

2. आर्थराइटिडीस/स्पोन्डिलोसिस

3. कावपद्धति से यथामापित स्कोलियोसिस जो 15 डिग्री से अधिक हो। (थल सेना के लिए 10 डिग्री)

4. मामूली से ज्यादा काइफोसिस/लोडोसिस

5. स्पेण्डिलोसथेसिस/स्पेण्डिलससिस
6. एरनिएटिड न्यूक्लियस, पलपोसस
7. कशेरुक का संपीडन विभंग
8. श्वैरमेन की बीमारी
9. प्रदर्शनीय तंत्रकीय या परिसंचारी अभाव के साथ ग्रेव पर्शुका
10. एक से अधिक स्तर पर श्मोले के नोड की उपस्थिति
11. शीर्षधरानुकपाल (अटलांटे-आक्सीपीटल) तथा अटलांटे अक्षीय असंगतियां
12. 'एक पक्षीय अथवा द्विपक्षीय अपूर्ण स्कारलाइजेशन'
13. एस.वी. 1 तथा एल.वी. 5 के इतर स्पाईनाबाइफिडा
14. विशेषज्ञ द्वारा मानी गई कोई अन्य अपसामान्यता।

(ज) उम्मीदवार मानसिक विकृति या दौरे पड़ने का पिछला रोगी नहीं होना चाहिए।

(ट) उम्मीदवार सामान्य रूप से सुन सके। उम्मीदवार को इस योग्य होना चाहिए कि वह शांत कमरे में प्रत्येक कान से 610 सें.मी. की दूरी से जोर की कानाफूसी सुन सके। कर्ण नासिका की पिछली या अब की बीमारी का कोई प्रमाण न हो। वायु सेना के लिए श्रव्यतामितीय परीक्षण किये जाएंगे। 250 एच. जैड, 4000 एच. जैड के बीच की आवर्तियों में श्रव्यतामितीय कमि +20 डेसिबल से अधिक नहीं हो। वाणी में किसी प्रकार की हकलाहट नहीं होनी चाहिए।

(ठ) हृदय या रक्त वाहिकाओं के संबंध में कोई क्रियात्मक या आंगिक रोग नहीं होना चाहिए। रक्त दाब सामान्य हो।

(ड) जिगर या तिल्ली बड़ी हुई न हो, उदर के आंतरिक अंग की कोई बीमारी होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(ढ) यदि किसी उम्मीदवार को हर्निया है और उसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो तो वह उम्मीदवार अनुपयुक्त होगा, ऐसे मामले में जहां हर्निया की शल्य-क्रिया की गई हो, पाठ्यक्रम आरंभ होने से पहले अंतिम चिकित्सीय परीक्षण के पहले कम से कम छः महीने बीत गए हों।

(ण) हाइड्रोसील, वेरिकोसिल या पाइल्स का रोग नहीं होना चाहिए।

(त) मूत्र की परीक्षा की जाएगी और यदि इसमें कोई असमानता मिलती है तो इस पर उम्मीदवार अस्वीकृत हो जाएगा।

(थ) अशक्तता लाने या आकृति बिगाड़ने वाले चर्म का ऐसा रोग होने पर उम्मीदवार अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(द) उम्मीदवार को दूर-दृष्टि चार्ट को ऐनक लगाकर या ऐनक हटाकर अच्छी आंख में 6/6 तथा खराब आंख में 6/9 की दृष्टि से पढ़ने में समर्थ होना चाहिए। मायोपिया 2.5 डी तथा हायपरमेट्रोपिया 3.5 डी (एस्टिमेटिज्म सहित) से अधिक नहीं होना चाहिए। यह जानने के लिए कि आंख में कोई रोग तो नहीं है आंख की आंतरिक परीक्षा औपथलमेस्कोप से की जाएगी। उम्मीदवार के दोनों नेत्रों की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। वर्ण दृष्टि का मानक सी.पी. स्थल सेना के लिए सीपी III होगा। उम्मीदवार में लाल व हरे रंगों को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए।

उम्मीदवारों को इस आशय का प्रमाणपत्र देना होगा कि उसे या इसके परिवार के किसी सदस्य को जन्मजात रतौंधी आने का रोग नहीं हुआ है।

जिन उम्मीदवारों ने दृष्टि की तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए रेडियल केरीटोमि करवाई हो या जिनके पास से इसे करवाने का प्रमाण मिलेगा उन्हें सभी तीनों सेवाओं से स्थाई रूप से बहिष्कृत कर दिया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने वर्तन दोष (रिफ्रेक्टिव एरर) को ठीक करवाने के लिए लेसिक सर्जरी करवाई हुई है, वे रक्षा सेवाओं के लिए स्वीकार्य नहीं होंगे।

नौसेना उम्मीदवारों की दृष्टि मानक :

बिना चश्मे के असंशोधित	6/9
चश्मे के साथ संशोधित	6/6
निकट दृष्टि की सीमा	-0.75
दूर दृष्टि की सीमा	+1.5
दूरबीन दृष्टि	111
कलर प्रिसेप्शन की सीमा	1

वायु सेना के लिए दृष्टि मानक :

प्रायः ऐनक पहनने वाले उम्मीदवार वायु सेना हेतु पात्र नहीं हैं। न्यूनतम दूरस्थ दृष्टि 6/6 एक आंख में तथा 6/9 दूसरी आंख में, हाइपरमेट्रोपिया के लिए केवल 6/6 तक सही किए जाने योग्य। वर्ण दृष्टि दोष सीपी-I हाइपरमेट्रोपिया : + 2.0 डी एस पी एच प्रत्यक्ष निकट दृष्टिता-शून्य नेत्र अपवर्तनमानपीय निकटदृष्टिता : -0.5 किसी भी अनुमेय याम्योत्तम में एस्टिमेटिज्म : +0.75 डीसीवाई एल

(+ 2.0 के अंदर डी-मैक्स)

मैइडोक्स रोड परीक्षण

(i) 6 मीटर पर — इक्सोफोरिया - 6 प्रिज्म डी
एसोफोरिया - 6 प्रिज्म डी
हाइपर - 1 प्रिज्म डी
हाइपो - 1 प्रिज्म डी

(ii) 33 सेमी. पर — इक्सोफोरिया - 16 प्रिज्म डी
इक्सोफोरिया - 6 प्रिज्म डी
हाइपर - 1 प्रिज्म डी
हाइपो - 1 प्रिज्म डी

हस्त -- त्रिविमदर्शी--सभी बीएसवी ग्रेड्स

अभिसरण - 10 सें. मी. तक के लिए

दूर तथा निकट के लिए कवर परीक्षण

पार्श्वीय अपसरण/अभिसरण

शीघ्र तथा पूर्व उपलब्धि

सीटू में रेडियल केरेटोमि, प्रकाश अपवर्तन केरेटोमि/लेजर

अपवर्तन संबंधी दोषों को सही कराने हेतु की गई केरेटोमिल्यूसिस (पी आर के/लेसिक) शल्य चिकित्सा वायुसेना दायित्वों के लिए अनुमत नहीं है।

आई ओ एल रोप सहित या उसके बिना मोतियाबिन्द की शल्य चिकित्सा कराने वाले उम्मीदवारों को भी अयोग्य घोषित किया जाएगा।

द्विनेत्री दृष्टि—अच्छी द्विनेत्री दृष्टि होनी चाहिए (उत्तम आयांम तथा गहराई सहित संयोजन तथा स्टीरियोप्सिस)

जिन उम्मीदवारों की लेसिक शल्य चिकित्सा हुई है, उन्हें भारतीय वायु सेना की उड़ान शाखा में नियुक्ति हेतु योग्य नहीं माना जाएगा।

(ध) यू.एस.जी. उदर जांच की जाएगी तथा किसी प्रकार की जन्मगत संरचनात्मक असामान्यता या उदर के अंगों का रोग पाए जाने पर सशस्त्र सेना से अस्वीकृत किया जा सकता है।

(न) उम्मीदवार के पर्याप्त संख्या में कुदरती व मजबूत दांत होने चाहिए। कम से कम 14 दांत बिन्दु वाला उम्मीदवार स्वीकार्य है। जब 32 दांत होते हैं तब कुल 22 दांत बिन्दु होते हैं।

उम्मीदवार को तीव्र पायरिया का रोग नहीं होना चाहिए।

(प) वायुसेना के उम्मीदवारों के लिए रूटीन ईसीजी तथा ईईजी सामान्य सीमा में होने जरूरी है।

(फ) 'शारीरिक उपयुक्तता' प्रतिशत उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि नीचे दी गई क्रियाओं के दैनिक पालन के द्वारा वे अपना शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा बनाए रखें :

(क) 15 मिनट में 2.5 कि.मी. की तेज दौड़

(ख) उछल-कूद

(ग) दण्ड-बैठक (प्रत्येक कम से कम बीस-बीस बार)

(घ) ठोड़ी को ऊंचाई तक छूना (कम से कम आठ बार)

(ङ) 3 से 4 मीटर रस्सी पर चढ़ना।

परिशिष्ट-III

सेवा आदि का संक्षिप्त विवरण

1. अकादमी में भर्ती होने से पूर्व माता-पिता या संरक्षक को निम्नलिखित प्रमाणपत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे :

(क) इस आशय का प्रमाणपत्र कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि कोई चोट लग जाए या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या संवेदनाहरण दवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) इस आशय का बंधपत्र कि, यदि उम्मीदवार को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इस आधार पर बर्खास्त या निकाला या वापस किया गया कि उसने उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश लेने के लिए अपने आवेदन-प्रपत्र में जानबूझ कर गलत विवरण दिया अथवा महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया अथवा उसे उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से अनुशासनिक आधार पर बर्खास्त या निकाला अथवा वापस किया गया अथवा उक्त राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के दौरान विवाह के कारण अथवा किसी ऐसे कारण से जो कैडेट के नियंत्रण में है, वह अपने प्रशिक्षण की अवधि पूरी नहीं करता अथवा वह कैडेट, ऊपर बताए गए

के अनुसार किसी कमीशन को स्वीकार नहीं करता तो गारंटीकर्ता तथा कैडेट अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से तत्काल सरकार को वह रोकड़ राशि देने के लिए बाध्य होंगे जो सरकार नियत करेगी। किंतु यह राशि उस व्यय से अधिक नहीं होगी जो सरकार ने कैडेट के प्रशिक्षण के दौरान उस पर खर्च की है तथा कैडेट द्वारा सरकार से प्राप्त किए गए वेतन तथा भत्ते सहित सारी राशि पर ब्याज भी लगेगा जिसकी दर सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर लगने वाली ब्याज दर, जो उस समय लागू है, के समान होगी।

2. आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित प्रशिक्षण के खर्च को सरकार वहन करेगी, उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक से यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार का जेब खर्च वे खुद वहन करेंगे—सामान्यतया इन खर्चों के 400 रुपये से अधिक होने की संभावना नहीं है। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को पूरा या आंशिक रूप से बर्दाश्त करने में असमर्थ हों तो पहले और दूसरे वर्ष के लिए रु. 400 तक और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में तीसरे वर्ष के प्रशिक्षण के लिए रु. 400 और थल सेना/नौ सेना/वायु सेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में आगे के वरिष्ठ प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों के लिए रु. 400 तक सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जा सकती है। ऐसा कोई कैडेट वित्तीय सहायता लेने का हकदार नहीं होगा जिसके माता-पिता अथवा अभिभावक की आय 1500/- रुपये प्रतिमाह से अधिक तथा 2000/- रुपये प्रतिमाह है और यदि उनका एक से अधिक लड़का/आश्रित नौ सेना और वायु सेना में स्थापित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सैन्य अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी तथा इनके सदृश प्रशिक्षण में एक ही समय प्रशिक्षण ले रहा है।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता या संरक्षक सरकार से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो अपने पुत्र/संरक्षित के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के तुरंत बाद अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन-पत्र देना चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे (411023) के कमांडेंट को अग्रेषित कर देगा।

3. अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने गये, उम्मीदवारों को आने पर कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पास निम्नलिखित राशि जमा करनी होगी:—

	रुपये
(क) प्रतिमाह रु. 400 के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च	2,000
(ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मर्दों के लिए	3,200
(ग) 1 सेमिस्टर के दौरान प्रासंगिक व्यय	425
योग	5,625

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में से नीचे लिखी राशि वापस कर दी जाएगी:—

	रुपये
(क) 400 रु. प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च	2,000
(ख) वस्त्र तथा उपस्करों की मर्दों के लिए लगभग	475

4. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियाँ/वित्तीय सहायता उपलब्ध हैं:

(1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति : यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है। जिनके माता-पिता की आय सभी साधनों से रु. 350 तथा रु. 500 प्र.मा. के बीच हो। छात्रवृत्ति की राशि सरकारी वित्तीय सहायता के बराबर होगी। जब तक कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या अन्य कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों में रहेगा तब तक के लिए वह प्राप्त होगी किंतु शर्त यह है कि कैडेट का व्यवहार अच्छा रहे और वह संतोषजनक प्रगति करता रहे और उसके माता-पिता की आय निर्धारित सीमा से कम रहे। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी उन्हें सरकार से अन्य वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी।

(2) कर्नल कैडिल फ्रैंक मेमोरियल छात्रवृत्ति : यह 360 रुपये प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति उस मराठा कैडेट को दी जाएगी जो भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हो। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाली किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है।

(3) कौर सिंह मेमोरियल छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियाँ उन दो कैडेटों को प्रदान की जाती हैं जिन्हें बिहार के उम्मीदवारों में उच्चतर स्थान प्राप्त हो। प्रत्येक छात्रवृत्ति 37 रु. प्रति मास की होगी तथा अधिकतम 4 वर्ष के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला में प्रशिक्षण के दौरान तथा उसके बाद भारतीय सेना अकादमी, देहरादून तथा वायु सेना फ्लाईंग कॉलेज तथा भारतीय नौ सेना अकादमी, इस्लीमाला में जहाँ कैडेट को प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, प्रशिक्षण पूर्ण करने पर भेजा जाएगा, दी जाती रहेगी। छात्रवृत्ति तभी मिलती रहेगी जब कैडेट उपर्युक्त संस्थाओं में अच्छी प्रगति करता रहे।

(4) असम सरकार छात्रवृत्ति : दो छात्रवृत्तियाँ असम के कैडेटों को प्रदान की जाएंगी। प्रत्येक छात्रवृत्ति 30 रु. प्रति मास की रहेगी तथा जब तक छात्र राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रहेगा उसे मिलती रहेगी। छात्रवृत्ति असम के दो सर्वोत्तम कैडेटों को उनके माता-पिता की आय पर ध्यान दिए बिना प्रदान की जाएगी। जिन कैडेटों को यह छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी, उन्हें सरकार की ओर से अन्य वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाएगी।

(5) उत्तर प्रदेश सरकार छात्रवृत्तियाँ : दो छात्रवृत्तियाँ 30 रु. प्रति मास की तथा 400 रु. की परिधान वृत्ति उत्तर प्रदेश सरकार के दो कैडेटों की योग्यता तथा आय के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में संतोषजनक प्रगति करने पर 3 वर्ष के लिए दी जाएगी। जिन कैडेटों को ये छात्रवृत्तियाँ मिलेंगी उन्हें अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता सरकार से नहीं मिलेगी।

(6) केरल सरकार छात्रवृत्ति : पूरे वर्ष के लिए 480 रु. की एक योग्यता छात्रवृत्ति रा. र. अकादमी में प्रशिक्षण की पूरी अवधि के लिए केरल राज्य द्वारा उस कैडेट को दी जाती है जो केरल राज्य का अधिवासी निवासी हो और जो रा. र. अकादमी हेतु अखिल भारतीय सं.लो.से.आ. की प्रवेश परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त कर लेता है भले ही उसने वह परीक्षा राष्ट्रीय भारतीय सेना कॉलेज से या भारत भर में किसी सैनिक स्कूल से उत्तीर्ण की हो। ऐसा करते समय कैडेट के पिता/संरक्षक की आर्थिक स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है।

(7) बिहारी लाल मंदाकिनी पुरस्कार : यह 500 रुपये का नकद पुरस्कार सर्वोत्तम बंगाली लड़के को अकादमी से प्रत्येक कोर्स के लिए मिलता है, आवेदन-पत्र कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से मिलते हैं।

(8) उड़ीसा सरकार छात्रवृत्तियाँ : तीन छात्रवृत्तियाँ—एक थल सेना, एक नौ सेना तथा एक वायु सेना के कैडेट के लिए प्रत्येक 80 रु. प्रति मास के हिसाब से उड़ीसा सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएंगी जो उड़ीसा राज्य के स्थायी निवासी हैं। इनमें से दो छात्रवृत्तियाँ कैडेटों की योग्यता तथा आय के साधन के आधार पर दी जाएंगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की आय रु. 5000 प्रति वर्ष से अधिक न हो तथा तीसरी छात्रवृत्ति बिना उसके माता-पिता या अभिभावकों की आय को ध्यान में रखते हुए सर्वोत्तम कैडेट को दी जाएगी।

(9) पश्चिम बंगाल सरकार छात्रवृत्तियाँ : निम्नलिखित वर्गों की छात्रवृत्तियाँ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उन कैडेटों को दी जाएंगी जो पश्चिमी बंगाल के स्थायी निवासी हैं :

योजना-I

छात्रवृत्तियों की संख्या : प्रत्येक वर्ष में 6 छात्रवृत्तियाँ।
छात्रवृत्तियों का विवरण : प्रत्येक वर्ष में आरंभ होने वाले दोनों सत्रों में थल सेना, नौसेना तथा वायु सेना के लिये एक-एक छात्रवृत्ति।

छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता के लिये वित्तीय अनुदान:

पहले वर्ष : कपड़े खरीदने हेतु 2500/- रु. का एक मुश्त वित्तीय अनुदान तथा जेब खर्च के लिये 125/- रु. प्रति माह।

दूसरे/तीसरे/चौथे वर्ष : 129/- रु. प्रति माह का जेब खर्च।

योजना-II

छात्रवृत्तियों की संख्या : प्रत्येक वर्ष 6 छात्रवृत्तियाँ।

छात्रवृत्तियों का वितरण : योजना I में दिये अनुसार।

छात्रवृत्ति प्राप्तकर्ता को वित्तीय : पहले/दूसरे/तीसरे/चौथे वर्ष - एक मुश्त 100/- रु. प्रति वर्ष का अनुदान।

(10) पायलट अफसर गुरमीत सिंह बेदी मेमोरियल छात्रवृत्ति : रु. 420 प्रतिमाह की एक छात्रवृत्ति ऐसे कैडेट को दी जाती है जो वायुसेना कैडेटों के चौथे सत्र के अंत में योग्यता में सर्वोत्तम होगा। यह एक वर्ष की अवधि के लिए होगी। (पाँचवें और छठे सत्र के दौरान) यह छात्रवृत्ति बंद कर दी जाएगी। यदि प्राप्तकर्ता रेलीगेट कर दिया गया हो या इसके प्राप्त करने की अवधि में छोड़कर चला गया हो। जो कैडेट इस प्रकार की पहले से ही कोई योग्यता छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता ले रहा है, उसे छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी।

(11) हिमाचल प्रदेश सरकार छात्रवृत्ति : हिमाचल प्रदेश के कैडेटों को 4 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाएंगी। प्रशिक्षण के प्रथम दो वर्षों के लिए छात्रवृत्तियाँ 30 रुपये प्रतिमास तथा प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के लिए 40 रुपये प्रतिमास मिलेंगी। यह छात्रवृत्ति उन कैडेटों को मिलेगी जिनके माता-पिता की मासिक आय 500 रुपये प्रतिमास से कम होगी, जो कैडेट सरकार से वित्तीय सहायता ले रहा हो उसे छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी।

(12) तमिलनाडु सरकार की छात्रवृत्ति : तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रति कोर्स रु. 30 प्रतिमास की एक छात्रवृत्ति तथा साथ

में रु. 400 सप्ताह भत्ता (कैडेट के प्रशिक्षण की पूरी अवधि के दौरान केवल एक बार) देना शुरू किया है जो उस कैडेट को दिया जाएगा जो तमिलनाडु राज्य का हो तथा जिसके अभिभावक/संरक्षक की मासिक आय रु. 500 से अधिक न हो। पात्र कैडेट अपना आवेदन कमांडेंट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को वहां पहुंचने पर प्रस्तुत कर सकते हैं।

(13) कर्नाटक सरकार की छात्रवृत्तियां : कर्नाटक सरकार ने प्रति वर्ष 18 (अठारह) छात्रवृत्तियां जनवरी से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए 9 और जुलाई से शुरू होने वाले कोर्सों के लिए 9, कर्नाटक राज्य के उन कैडेटों को दी है जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कालेज, देहरादून में अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं। इन छात्रवृत्तियों की राशि 480 रुपये प्रति वर्ष है।

रु. 480 प्रति वर्ष की चार (4) और छात्रवृत्तियां (दो प्रतिसत्र) कर्नाटक राज्य के उन छात्रों को दी गई हैं जो सैनिक स्कूल, बीजापुर या राष्ट्रीय इण्डियन मिलिट्री कालेज, देहरादून के अलावा अन्य संस्थानों पर अपनी शिक्षा पूरी करके राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आते हैं।

(14) एलबर्ट एक्का छात्रवृत्ति : बिहार सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में रु. 50/- प्रतिमास की 25 योग्यता छात्रवृत्तियां राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में छः समयावधि के पूरे समय के वास्ते एक बार और रु. 650/- वस्त्र तथा उपस्कर के वास्ते देना शुरू किया है। जिस कैडेट को उपर्युक्त योग्यता छात्रवृत्ति मिलती है वह सरकार से कोई अन्य छात्रवृत्ति या वित्तीय सहायता का पात्र नहीं होगा। पात्र कैडेट राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में आने पर कमांडेंट को आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(15) फ्लाईंग आफिसर डीवी पिंटू स्मारक छात्रवृत्ति : ग्रुप कैप्टन एम. वशिष्ठ ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में वरीयताक्रम में प्रथम तीन स्थान पाने वाले कैडेटों को पहला सेमेस्टर पूरा करने पर दूसरे सत्र के समाप्त होने तक, एक सत्र के लिए 125/- रु. प्रतिमाह की दर से तीन छात्रवृत्तियां प्रारंभ की हैं। सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले कैडेट उपर्युक्त छात्रवृत्ति पाने के हकदार नहीं होंगे। पात्र कैडेट प्रशिक्षण पर पहुंचने के बाद कमांडेंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी को अपना आवेदन पत्र भेज सकते हैं।

(16) भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों के लिए वित्तीय सहायता—
महाराष्ट्र राज्य

महाराष्ट्र के भूतपूर्व सैनिक अधिकारियों/कर्मचारियों के उन आश्रितों को, जो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी/भारतीय सैनिक अकादमी/वायु सेना अकादमी/नौ सेना अकादमी में कैडेट के रूप में प्रशिक्षण ले रहे हैं, प्रशिक्षण प्रतिष्ठान द्वारा निर्धारित जेब खर्च निम्नलिखित दरों पर दिया जाएगा :

भूतपूर्व अधिकारी	: प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल जेब खर्च का 50 प्रतिशत।
भूतपूर्व जूनियर कमीशन प्राप्त अधिकारी	: प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल जेब खर्च का 75 प्रतिशत।
अन्य रैंकों के भूतपूर्व सैन्य कर्मी	: प्रशिक्षण की संपूर्ण अवधि के दौरान कुल जेब खर्च का 100 प्रतिशत।

आश्रितों के माता-पिता/अभिभावकों को अपने आवेदन पत्र संबंधित जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को प्रस्तुत करने चाहिए और इसके साथ उन्हें अकादमी से प्राप्त प्रमाणपत्र भी भेजने चाहिए जिनमें जेब खर्च की दरें

दर्शाई गई हों, जिनके आधार पर आवेदकों के माता-पिता को इस राशि का भुगतान किया जाएगा।

इन छात्रवृत्तियों की शर्तें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खड़कवासला, पुणे (411023) से प्राप्त की जा सकती हैं।

5. चुने हुए उम्मीदवारों के अकादमी में आने के बाद तत्काल उनके लिए निम्नलिखित विषयों में एक प्रारंभिक परीक्षा होगी:—

(क) अंग्रेजी

(ख) गणित

(ग) विज्ञान

(घ) हिन्दी

(क), (ख) तथा (ग) के लिए परीक्षा का स्तर, भारतीय विश्वविद्यालय या हायर सैकंडरी शिक्षा बोर्ड की हायर सैकंडरी परीक्षा के स्तर से ऊंचा नहीं होगा।

(घ) ऊपर लिखित विषय की परीक्षा में यह जांचा जायेगा कि उम्मीदवार को अकादमी में भर्ती होने के समय हिन्दी का कितना ज्ञान है। अतः उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि प्रतियोगिता परीक्षा के उपरान्त अध्ययन के लिए उदासीन न हो जाएं।

प्रशिक्षण :

6. तीनों सेनाओं अर्थात् थल सेना, नौ सेना और वायु सेना के लिए चुने गए उम्मीदवारों को 3 वर्ष के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दिया जाता है जो एक सर्व सेना संस्था है। पहले ढाई वर्ष का प्रशिक्षण तीनों सेनाओं के लिए समान है। सफल होने पर कैडेटों को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वारा बीएससी/बीएससी (कम्प्यूटर)/बीए डिग्री प्रदान की जायेगी।

नौसेना अकादमी के लिए चयनित उम्मीदवारों को भारतीय नौसेना अकादमी, इस्लीमाला में 4 वर्ष की अवधि के लिए शैक्षिक तथा शारीरिक दोनों प्रकार का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। 10+2 कैडेट एंट्री स्कीम को भारतीय नौसेना अकादमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने (पासिंग आउट) पर बी. टेक डिग्री प्रदान की जाएगी।

7. राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने के बाद थल सेना कैडेट भारतीय सेना अकादमी, देहरादून में भारतीय नौसेना अकादमी इस्लीमाला नौसेना कैडेट, में और वायु सेना कैडेट, ए.एफ.ए. हैदराबाद जाएंगे।

8. भारतीय सेना अकादमी में सेना कैडेटों को 'जेन्टलमेन कैडेट' कहा जाता है और उन्हें एक वर्ष तक कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इन्फैन्ट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने योग्य अफसर बन सकें। प्रशिक्षण सफलता से पूरा करने के बाद जेन्टलमेन कैडेटों को उनके शेप-वन (SHAPE-एक) शारीरिक दृष्टि से योग्य होने पर लेफ्टिनेंट के पद पर स्थायी कमीशन दिया जाता है।

9. नौ सेना कैडेटों के राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में पास होने पर उन्हें नौ सेना की कार्यपालक शाखा के लिए चुना जाता है, भारतीय नौसेना अकादमी इस्लीमाला में एक वर्ष की अवधि के लिए और आगे प्रशिक्षण दिया जाता है जिसके सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें उप लेफ्टिनेंट के रैंक में पदोन्नत किया जाता है।

10. वायु सेना कैडेटों को हवाई उड़ान का डेढ़ वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाता है। तथापि उन्हें एक वर्ष का प्रशिक्षण पूरा होने पर अनन्तिम रूप से फ्लाईंग अफसर के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है। उनके बाद छः महीने का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने पर उन्हें एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर स्थायी रूप से कमीशन अफसर के रूप में समाहित कर दिया जाता है।

सेवा की शर्तें :

11. सेना अधिकारी एवं वायु सेना व नौ सेना के समकक्ष रैंक

(i) कैडेट प्रशिक्षण हेतु नियत वृत्तिका

जैन्टलमैन कैडेट, सेवा अकादमियों, अर्थात् भारतीय सैन्य अकादमी तथा अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी, की पूरी प्रशिक्षण अवधि के दौरान 21,000/- रु. प्रतिमाह (15,600/- रुपये पे बैंड के वेतन के रूप में तथा 5,400/- रुपये का ग्रेड पे) की वृत्तिका पाने के हकदार होंगे।

(ii) वेतन

(क) रैंक	पे बैंड (रु.)
लैफ्टिनेंट से मेजर	15,600—39,100/- (पे बैंड-3)
लैफ्टिनेंट कर्नल से मेजर जनरल	37,400—67,000/- (पे बैंड-4)
लैफ्टिनेंट जनरल एचएजी मान*	67,000/- (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)—79,000/-
एचएजी+मान	75,500/- (वार्षिक वेतन वृद्धि @ 3%)—80,000/-

(*लैफ्टिनेंट जनरल की कुल संख्या के 1/3 पर लागू होगी)

वी सी ओ ए एस/सेना कमांडर/	80,000/- (नियत)
लैफ्टिनेंट जनरल (एनएफएसजी)	
सी ओ ए एस	90,000/- (नियत)

(ख) वेतन के अतिरिक्त ग्रेड पे भी निम्नानुसार दी जाएगी :—

लैफ्टिनेंट	5,400/- रु.
कैप्टन	6,100/- रु.
मेजर	6,600/- रु.
लैफ्टिनेंट कर्नल	8,000/- रु.
कर्नल	8,700/- रु.
ब्रिगेडियर	8,900/- रु.
मेजर जनरल	10,000/- रु.

(ग) लैफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक के रैंक के अधिकारियों को सेना सेवा वेतन (एम एस पी) के रूप में 6,000/- रुपये प्रति माह की एक नियत धनराशि भी देय है।

(iii) योग्यता वेतन तथा अनुदान

अधिकारियों को उनकी योग्यता के आधार पर विशेष निर्धारित योग्यता होने पर रु. 6,000/-, 9,000/-, 15,000/- या 20,000/- रु. का एकमुश्त

योग्यता अनुदान देय है। सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को उनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर नीचे दिए अनुसार योग्यता वेतन देय है :

- मास्टर उड़ान अनुदेशक—500/- रु. प्रतिमाह
- वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-I—400/- रु. प्रतिमाह
- वरिष्ठ उड़ान अनुदेशक, श्रेणी-II—280/- रु. प्रतिमाह
- मास्टर ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक—400/- रु. प्रतिमाह
- ग्रीन कार्डधारक वायुयान चालक—280/- रु. प्रतिमाह

सेना उड़ान कोर में कार्यरत सेना वायुयान चालकों (पायलटों) को नीचे दिए गए अनुसार उड़ान भत्ता देय है:—

(क) ब्रिगेडियर तथा ऊपर	10,500/- रु.
(ख) मेजर से कर्नल	14,000/- रु.
(ग) कैप्टन	11,000/- रु.
(घ) लैफ्टिनेंट	9,000/- रु.

इस समय एक अधिकारी वेतन के अलावा निम्नलिखित भत्ते प्राप्त करता है :

(क) महंगाई भत्ता सिविल राजपत्रित अधिकारियों पर समय-समय पर लागू होने वाली समान दरों से और उन्हीं शर्तों के अधीन स्वीकार्य होगा।

(ख) 400/- रु. प्रति माह की दर से किट रख-रखाव भत्ता

(ग) तैनाती के क्षेत्र एवं रैंक के आधार पर कार्यस्थल क्षेत्रों में तैनात अधिकारी 6,780/- रु. से 8,400/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक अति सक्रिय कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता 4,200/- रु. से 5,200/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता तथा 1,600/- रु. से 2,000/- रु. प्रतिमाह की दर से प्रतिपूरक संशोधित कार्यस्थल क्षेत्र भत्ता के लिए पात्र होंगे।

(घ) प्रतिपूरक कार्यस्थल क्षेत्र भत्ते के अतिरिक्त अधिकारियों को 9,000 फीट और उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को 1,060/- रु. प्रतिमाह से 11,200/- रु. प्रतिमाह तक की रेंज में हाई एल्टीट्यूड भत्ते के पात्र होंगे जो अधिकारी के रैंक और तैनाती के स्थान पर निर्भर करेगा।

(ङ) परिधान भत्ता : एक समय किट के लिए 14,000/- रु. की दर से आरंभिक भत्ता और प्रति तीन वर्षों के लिए 3,000/- रुपये।

(च) परिवहन भत्ता : अधिकारियों को ए-1/ए वर्ग के शहरों में परिवहन भत्ता 3,200/- रुपये + उस पर महंगाई भत्ता प्रतिमाह तथा अन्य स्थानों पर 1,600/- रुपये + उस पर महंगाई भत्ता दिया जाएगा।

12. (क) सेना सामूहिक बीमा राशि एक अनिवार्य अंशदायी सामूहिक योजना है जो कैडेटों, जिनमें राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के नौसेना और वायुसेना के कैडेट शामिल हैं, द्वारा कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण आरंभ करने की तारीख से राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षण पूरा होने तक तीन वर्ष के लिए एक बार

में रु. 4250/- की अग्रिम एकमुश्त राशि की अदायगी पर रु. 8 लाख के लिए बीमा कवर प्रदान करती है। पदावनति के मामले में, ऐसा होते ही प्रत्येक पदावनति अवधि के लिए रु. 770/- की अतिरिक्त बीमा राशि का भुगतान करना होगा। विकलांगता के कारण जिन्हें चिकित्सीय आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से बाहर कर दिया जाता है उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए बीमाकृत राशि के 50 प्रतिशत तक का लाभ दिया जाता है अर्थात् 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 4 लाख रु. जो कि 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए 80,000/- रु. तक आनुपातिक रूप से कम हो जाता है। 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के कारण बाहर किए जाने वाले कैडेटों को 50,000/- का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा और प्रशिक्षण के अंतिम वर्ष के दौरान 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के कारण अशक्त ठहराए जाने पर बाहर किए गए कैडेटों को 1 लाख रु. का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। मंदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार अथवा अवांछनीय माने जाने अथवा स्वेच्छ से अकादमी छोड़ने वाले कैडेट भी विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

(ख) बीमा : भारतीय सैनिक अकादमी में वजीफा (स्टाइपेंड) प्राप्त कर रहे जेंटलमैन कैडेटों का नियमित अधिकारियों पर यथा लागू मुख्य ए जी आई योजना के अनुसार पहली अप्रैल, 2011 से 40 लाख रु. के लिए बीमा

किया जाता है। विकलांगता के कारण जिन्हें चिकित्सीय आधार पर भारतीय सैनिक अकादमी से बाहर कर दिया जाता है। उन मामलों में 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए बीमाकृत राशि के लिए 50 प्रतिशत का लाभ दिया जाता है अर्थात् 100 प्रतिशत विकलांगता के लिए 20 लाख रु. के लिए बीमा किया जाएगा जो 20 प्रतिशत विकलांगता के लिए 4 लाख रु. तक आनुपातिक रूप से कम हो जाता है और तथापि, 20 प्रतिशत से कम विकलांगता के लिए 50,000/- रु. के अनुग्रह अनुदान का भुगतान किया जाएगा। मंदिरापान, नशे की लत तथा भर्ती से पहले हुए रोगों से उत्पन्न विकलांगता के लिए विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान देय नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त, अनुशासनिक आधार अथवा अवांछनीय माने जाने अथवा स्वेच्छ से अकादमी छोड़ने वाले कैडेट भी विकलांगता लाभ और अनुग्रह अनुदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

13. सेवा निवृत्ति लाभ

पेंशन, उपदान और ग्रेच्युटी अवार्ड समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार स्वीकार्य होंगे।

14. छुट्टी

समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार छुट्टी स्वीकार होगी।

कुलदीप कुमार सहरावत
उप सचिव

गृह मंत्रालय

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110003, दिनांक 13 दिसम्बर 2011

सं. ओ.दे-6851/11/कार्मिक (डी.ए.5)--सरकारी सेवा से स्वेच्छिक सेवा-निवृत्त होने संबंधी नोटिस दिनांक 06.07.2011 स्वीकार हो जाने के फलस्वरूप श्री आर. एन. सरकार, सहायक कमान्डेन्ट (आई.आर.एल.ए.-6851), 64 बटालियन, के.रि.पु. बल ने दिनांक 01.12.2011 (पूर्वाह्न) को अपने पद से कार्यभार त्याग दिया। तदनुसार, उन्हें दिनांक 01.12.2011 (पूर्वाह्न) से इस बल की नफरी से निकाला जाता है।

आर. एन. मिश्रा
पुलिस उप महानिरीक्षक (कार्मिक)

भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग

प्रधान महालेखाकार (ले व ह) का कार्यालय, केरल

तिरुवनंतपुरम, दिनांक 19 दिसम्बर 2011

सं. का.स्था. (ह व रो)/ई-IV पै/124--भारतीय लेखा तथा लेखा परीक्षा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी सेवानिवृत्त हुई हैं :--

क्र. सं.	नाम	पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख
1.	के. वत्सला	वरिष्ठ लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.11.2011 अपराह्न (अधिवर्षिता)
2.	बी. ललितांबिका	सहायक लेखा अधिकारी प्रधान कार्यालय, तिरुवनंतपुरम	30.11.2011 अपराह्न (अधिवर्षिता)

हस्ता./- अपठनीय
उप महालेखाकार (प्रशासन)

भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

कोलकाता-700016, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

सं. 22810/एसपी/ए-19012/(4-आरवी)/ईएस-09/एम-109/19बी--राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर श्री रूपेश वर्मा को स्थानापन्न रूप में वेधन अभियंता (कनिष्ठ)/सहायक कार्यपालक अभियंता के रूप में पुनर्पदनामित, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (समूह 'क' राजपत्रित पद) के पद पर रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 के रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान में अनंतिम आधार पर 18.07.2011 (पूर्वाह्न) से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं,

उन्हें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, मध्य क्षेत्र, नागपुर में तैनात किया जाता है।

के. ए. इब्राहिम कुंजु
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 22811/एसपी/ए-19012/(4-आरवी)/ईएस-09/एम-109/19बी--राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर श्री अमर सिंह मीणा (अनुसूचित जनजाति) को स्थानापन्न रूप में वेधन अभियंता (कनिष्ठ)/सहायक कार्यपालक अभियंता के रूप में पुनर्पदनामित, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (समूह 'क' राजपत्रित पद) के पद पर रु. 5,400/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 के रु. 15,600--39,100/- के वेतनमान में 03.08.2011 (पूर्वाह्न) से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं, उन्हें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, उत्तरी क्षेत्र, लखनऊ में तैनात किया जाता है।

के. ए. इब्राहिम कुंजु
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

सं. 22525/एसपी/ए-32013/3-निदेशक (भूरसायनिकी)/96/19बी (खंड-V)--राष्ट्रपति जी, विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित रसायनज्ञों (वरिष्ठ) को पदोन्नति पर निदेशक (भूरसायनिकी) पुनर्पदनामित अधीक्षण रसायनज्ञ के रूप में रु. 7,600/- के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 के रु. 15,600--39,100/- में प्रत्येक के सामने उल्लिखित तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं :--

क्र. सं.	नाम	अधीक्षण रसायनज्ञ के रूप में पुनर्पदनामित, निदेशक (भूरसायनिकी) के पद पर पदोन्नति की तिथि
1.	श्री एस. टी. इंगले	30.06.2011(पूर्वाह्न)
2.	श्री जी. नरसिम्हन	27.06.2011(पूर्वाह्न)

के. ए. इब्राहिम कुंजु
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी
कृते महानिदेशक

कोलकाता-16, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

सं. 22902/एसपी/ए-12025/1-भूविज्ञान/अधिसूचना/06/19ए--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक (समूह क, राजपत्रित) के पद पर रु. 5,400/- (संशोधित) के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 के निम्नतम में (रु. 15,600--39,100/-)

में अस्थायी आधार पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित अन्य विवरण एवं तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं :—

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि	जन्म तिथि	तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1.	श्रीमती रश्मि	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	06.02.1976	मिशन-II क्षेत्र, कोलकाता	बी पूर्वी कार्यालय,
2.	श्री मयंगलबम श्यामकुमार सिंह	23.10.2009 (अपराह्न)	01.02.1980	परि: असम एवं मेघालय, उत्तर पूर्व क्षेत्र, गुवाहाटी	*अनंतिम
3.	श्री बी. कुमारवेल	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	06.06.1979	महाराष्ट्र मध्य क्षेत्र कार्यालय, नागपुर	*अनंतिम

*उपरोक्त नियुक्ति अनंतिम है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अध्याधीन है।

डी. पुरुषोत्तमन
अधीक्षण (भूविज्ञान) एण्ड प्रभारी भूविज्ञान संवर्ग
कृते उप महानिदेशक (कार्मिक)

सं. 22903/एसपी/ए-12025/1-भूविज्ञान/अधिसूचना/06/19ए--
राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित अभ्यर्थियों को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में भूवैज्ञानिक (समूह क, राजपत्रित) के पद पर रु. 5,400/- (संशोधित) के ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड-3 के निम्नतम में (रु. 15,600--39,100/-) में अस्थायी आधार पर प्रत्येक के सामने उल्लिखित अन्य विवरण एवं तिथि से प्रभावित आगामी आदेशों तक नियुक्त करते हैं। :—

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तिथि	जन्म तिथि	तैनाती का स्थान	अभ्युक्ति
1.	श्रीमती लोपमुद्रा भोल	22.03.2010 (पूर्वाह्न)	16.02.1984	परि: मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, मध्य क्षेत्र कार्यालय, भोपाल	*अनंतिम
2.	श्री रंजीत ए.	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	10.02.1984	उत्तर पूर्व क्षेत्र, शिलांग	*अनंतिम
3.	श्री रमेश लयश्राम	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	25.03.1980	परि: पंजाब हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश, उत्तरी क्षेत्र कार्यालय चंडीगढ़	*अनंतिम
4.	श्रीमती श्रद्धा नन्नावरे	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	31.03.1983	आंध्र प्रदेश, राज्य इकाई, दक्षिणी क्षेत्र, हैदराबाद	###अनंतिम
5.	श्री पिनाकी रॉय	01.04.2010 (पूर्वाह्न)	22.01.1976	भा. भू. सं. प्र. सं., हैदराबाद	*अनंतिम

*उपरोक्त नियुक्ति अनंतिम है तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र के सत्यापन के अध्याधीन है तथा **एमएससी उपाधि प्रमाण-पत्र

के सत्यापन न होने के कारण, ## विद्यालय प्रमाण-पत्र में सही नाम के शपथ पत्र तथा जाति के सत्यापन के कारण, # चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रमाण पत्र के लंबित होने के कारण है।

डी. पुरुषोत्तमन
अधीक्षण (भूविज्ञान) एण्ड प्रभारी भूविज्ञान संवर्ग
कृते उप महानिदेशक (कार्मिक)

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

सं. 32013/6/2006-विपणन-1--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए जाने पर माननीय राष्ट्रपति जी, डॉ. (सुश्री) मानवी को वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 5,400/- में दिनांक 28.07.2011 (पूर्वाह्न) से कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में सहायक निदेशक (तेल एवं वस्त्र) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुकुमार
उप सचिव

सं. 12018/2/2009-विपणन-1--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए जाने पर माननीय राष्ट्रपति जी, श्री ब्रजेश कुमार तिवारी को वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे रु. 6,600/- में दिनांक 17.10.2011 (पूर्वाह्न) से कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में उप कृषि विपणन सलाहकार (ग्रुप-III) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुकुमार
उप सचिव

सं. 12018/3/2009-विपणन-I(भाग)--संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए जाने पर माननीय राष्ट्रपति जी श्री प्रसाद चक्रवर्ती को वेतन बैंड-3, रु. 15,600--39,100 + ग्रेड पे रु. 7,600/- में दिनांक 14.11.2011 (पूर्वाह्न) से कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय में सहायक कृषि विपणन सलाहकार (ग्रुप-I) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुकुमार
उप सचिव

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

मुंबई-400085, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

सं. पीडी/6(5)/2009-भर्ती-III/2011/8701--नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती बी. पी. उषा, वरिष्ठ लिपिक, पीआरपी, कल्पावकम को दिनांक 24.11.2011 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में

इस अनुसंधान केन्द्र में सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

दिनांक 02.08.2010 (पूर्वाह्न) से 01.08.2011 (अपराह्न) तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 4,800/- में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियमित रूप से नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

सं. पीडी/11(2)/2010-भर्ती-III/2011/8705--नियंत्रक, भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती जया पी. प्रभु, सहायक लेखा अधिकारी को दिनांक 02.08.2010 (पूर्वाह्न) से 01.08.2011 (अपराह्न) तक एवं दिनांक 30.09.2011 (पूर्वाह्न) से 18.11.2011 (अपराह्न) रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रु. 5,400/- में इस अनुसंधान केन्द्र में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

संदर्भ : पीडी/11(2)/2010-भर्ती-III/11/8707--नियंत्रक, भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती ज्योती डी. नार्वेकर, सहायक लेखाकार को दिनांक 11.01.2011 (पूर्वाह्न) से 23.11.2011 (अपराह्न) तक रु. 9,300--34,800/- के वेतन बैंड-2 तथा ग्रेड वेतन रुपये 4,800/- में इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर सहायक लेखा अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

सं. पीडी/11(2)/2010-भर्ती-III/2011/8706--नियंत्रक, भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्रीमती लाली थॉमस, सहायक लेखाकार को

शैलजा प्रकासम
उप स्थापना अधिकारी

मुंबई-400085, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

सं. 93/अधि./स्था.-IA/8789--निम्नलिखित तालिका में कॉलम-2 पर दर्शाए गए अधिकारियों द्वारा नामों के सामने कॉलम-3 पर दर्शाए गए पद, कॉलम-4 पर दर्शाई गई तारीखों को, कॉलम-5 पद दर्शाई गई घटना के आधार पर अधिकारियों द्वारा धारित पदों का कार्यभार त्याग किया गया है:--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार त्यागने का पद	पदत्याग करने की तारीख	घटना
1.	डॉ. विनीत कोहली	वै.अ./डी	08.11.2011 (अप.)	त्याग-पत्र
2.	श्री ए. एम. पाटणकर	वै.अ./एच	30.11.2011 (अप.)	सेवा अवधि में विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
3.	डॉ. एम. शेषाद्री	अध्यक्ष वै.अ./एफ	30.11.2011 (अप.)	सेवा अवधि में विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
4.	श्री आर. के. जकाती	वै.अ./एच	30.11.2011 (अप.)	सेवा अवधि में विस्तार के बाद सेवानिवृत्ति
5.	श्री ए. के. शुक्ला	वै.अ./ई	30.11.2011 (अप.)	अधिर्वर्षिता
6.	श्री पी. एम. औसफ	वै.अ./एफ	30.11.2011 (अप.)	अधिर्वर्षिता
7.	श्री डी. वेंकटराम	वै.अ./जी	30.11.2011 (अप.)	अधिर्वर्षिता
8.	श्री सुरेंद्र कुमार	वै.अ./एच	30.11.2011 (अप.)	अधिर्वर्षिता
9.	डॉ. वी. जगन्नाथ	वै.अ./एच	30.11.2011 (अप.)	अधिर्वर्षिता
10.	डॉ. आर. एस. वोहरा	वै.अ./एफ	30.11.2011 (अप.)	अधिर्वर्षिता
11.	डॉ. छवाली प्रकाश	वै.अ./जी	30.11.2011 (अप.)	अधिर्वर्षिता
12.	श्रीमती गिरिजा वेंकटरचलम	वरिष्ठ निजी सचिव	30.11.2011 (अप.)	अधिर्वर्षिता

एन. डी. शर्मा
नियंत्रक

परमाणु ऊर्जा विभाग

मुंबई-400001, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

सं. 6(2587)/2011-प्रशा./13169--राष्ट्रपति, श्रीमती स्वाती पाण्डेय, भारतीय डाक सेवा (1997) को दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 की पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में पाँच वर्ष की अवधि तक अथवा भावी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में निदेशक वेतन बैंड (पीबी-4, रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 8,700/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. गोविंदनकुट्टी
अवर सचिव

सं. 6(2586)/2011-प्रशा./13172--राष्ट्रपति, श्री राहुल कुलश्रेष्ठ, (आईएफएस : 1985) को दिनांक 07 दिसम्बर, 2011 की पूर्वाह्न से प्रभावी रूप में तीन वर्ष की अवधि तक अथवा भावी आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग, मुंबई में संयुक्त सचिव वेतन बैंड (पीबी-4, रु. 37,400--67,000/- + ग्रेड वेतन रु. 10,000/-) के रूप में नियुक्त करते हैं।

वी. गोविंदनकुट्टी
अवर सचिव

परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय

हैदराबाद-500629, दिनांक 1 नवम्बर 2011

सं. पखनि-51/39/2005-पेन--परमाणु खनिज अन्वेषण एवं अनुसंधान निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित अधिकारी ने अधिवर्षिता प्राप्त करने पर प्रत्येक के समक्ष उल्लिखित तारीख से अपना कार्यभार छोड़ दिया है :--

नाम	पदनाम	कार्यभार से मुक्त होने की तारीख	घटना
श्री प्रेम भल्लभ मैथानि	वैज्ञानिक अधिकारी-एच	31.10.2011	अधिवर्षिता

पी. मोहन बाबु
मुख्य प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

कम्पनी कार्य मंत्रालय

कार्यालय कम्पनी रजिस्ट्रार

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

नई दिल्ली, दिनांक 9 दिसम्बर 2011

सं. कं.रं./दिल्ली/560(5)/2011/11679--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में यह सूचना दी जाती है कि

निम्नलिखित कम्पनियों का नाम आज रजिस्ट्रार से काट दिया गया है और उक्त कम्पनियाँ विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी सं.	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	109325	मैसर्स राइजिंग टाइड साफ्टवेयर एण्ड सिस्टम प्राईवेट लिमिटेड
2.	184897	मैसर्स ए.एस.डी. इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
3.	180703	मैसर्स लेड ओ.ओ.एच. मिडिया प्राईवेट लिमिटेड
4.	125317	मैसर्स मेस्ट्रो फैशन प्राईवेट लिमिटेड
5.	156333	मैसर्स टौरस ट्राकिंग प्राईवेट लिमिटेड
6.	156571	मैसर्स वेलकम इन्फो साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
7.	208948	मैसर्स कनेक्ट वर्कप्लेस साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
8.	167334	मैसर्स इंडिका पी.एम.सी. मैन्युफैक्चरिंग प्राईवेट लिमिटेड
9.	139376	मैसर्स कर्मा क्लोथिंग प्राईवेट लिमिटेड
10.	139690	मैसर्स शीना साफ्टवेयर डेवलपमेंट प्राईवेट लिमिटेड
11.	136077	मैसर्स न्युमेरिकल सीमुलेशन टेक (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
12.	115814	मैसर्स बिलीस रेमिडीज प्राईवेट लिमिटेड
13.	136499	मैसर्स नर्मित गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	106671	मैसर्स निहाल एक्जिज प्राईवेट लिमिटेड
15.	024348	मैसर्स कास्मोस पोली प्रिन्ट प्राईवेट लिमिटेड
16.	106156	मैसर्स डीबी मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
17.	153319	मैसर्स क्वालिटी पैकर्स मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	037063	मैसर्स रीयल वैल्यू एक्सप्लोमार्क प्राईवेट लिमिटेड
19.	044132	मैसर्स एमुलेट इन्टरनेशनल प्राईवेट लिमिटेड
20.	033324	मैसर्स गंगोत्री प्रापर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
21.	161976	मैसर्स मिन्ड आर्टो लाइटिंग प्राईवेट लिमिटेड
22.	067393	मैसर्स रिपलैक्स ओवरसीज लिमिटेड
23.	161544	मैसर्स सिरियस डिजाइन्स एण्ड एवेन्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	030279	मैसर्स रितम फाइनेन्स एण्ड ट्रेडर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	072794	मैसर्स मंगला मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
26.	177073	मैसर्स कैंस फ्यूमिटेक प्राईवेट लिमिटेड	56.	149460	मैसर्स माओरी गारमेन्ट प्राईवेट लिमिटेड
27.	136865	मैसर्स बी.एम.ए. इंडिया कन्सल्टेंट प्राईवेट लिमिटेड	57.	181231	मैसर्स ए.बी. वेल्थ एडवाइजर प्राईवेट लिमिटेड
28.	205008	मैसर्स जीनेक्स ब्रोडबैंड साल्यूशन प्राईवेट लिमिटेड	58.	120626	मैसर्स इंजीनियर्स बायोटेक प्राईवेट लिमिटेड
29.	011142	मैसर्स दिल्ली पेपर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	59.	201471	मैसर्स वेब रिसोर्सेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
30.	143855	मैसर्स आर.एस. बायोफार्म लिमिटेड	60.	221350	मैसर्स शांती मल्टीमीडिया प्राईवेट लिमिटेड
31.	147055	मैसर्स कौसर इनर्जीज प्राईवेट लिमिटेड	61.	184234	मैसर्स मन्न इंडिया सेक्यूरिटी प्राईवेट लिमिटेड
32.	157263	मैसर्स ई.बी. ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड	62.	036408	मैसर्स क्रीशर्ब प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
33.	041682	मैसर्स के. एण्ड जी. बेबी केयर प्राईवेट लिमिटेड	63.	166671	मैसर्स सिलिकान गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
34.	177689	मैसर्स हीरो आटो काम्पोनेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	64.	146092	मैसर्स आईसाफ्ट ट्रेनिंग साल्यूशन्स लिमिटेड
35.	118471	मैसर्स नीतिन अग्रवाल क्रेडिट केयर प्राईवेट लिमिटेड	65.	054212	मैसर्स मेटेस्ट एम.डी.टी. सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
36.	165998	मैसर्स एस.आर.एस. एक्जिम लिमिटेड	66.	162539	मैसर्स ग्राफिका इटैलियन आर्टवर्क प्राईवेट लिमिटेड
37.	059619	मैसर्स आरती कैपिटल्स प्राईवेट लिमिटेड	67.	195906	मैसर्स एराइज ट्रेडकाम प्राईवेट लिमिटेड
38.	131041	मैसर्स बेला फ्लोरीकल्चर प्राईवेट लिमिटेड	68.	181659	मैसर्स देवाअशीष नेचुरल रिसोर्स प्राईवेट लिमिटेड
39.	033306	मैसर्स एम.आई.एफ.सी.ओ. होल्डिंग्स लिमिटेड	69.	115141	मैसर्स परफेक्ट प्रमोशन्स प्राईवेट लिमिटेड
40.	059608	मैसर्स स्मिती कैपिटल्स प्राईवेट लिमिटेड	70.	093662	मैसर्स फूल सिंह यादव एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
41.	152917	मैसर्स एपेक्स गेमिंग ऑनलाइन प्राईवेट लिमिटेड	71.	105723	मैसर्स ए.के.के.ए.पी. इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
42.	206888	मैसर्स सोफिआ राज कैफे प्राईवेट लिमिटेड	72.	035547	मैसर्स डेन्टिस ट्री (डेन्टल फिनिशिंग स्कूल) प्राईवेट लिमिटेड
43.	134148	मैसर्स नर्मित हर्बल्स प्राईवेट लिमिटेड	73.	125448	मैसर्स राम लैक्स इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड
44.	186090	मैसर्स सुमित लिंक एविएशन सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	74.	202273	मैसर्स रेड बैलून एडवर्कट्राईजर्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	180857	मैसर्स थ्रोनीक्राफ्ट मैरिन सिस्टम्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड	75.	070169	मैसर्स एम.के. फ्रैग्नेन्स प्राईवेट लिमिटेड
46.	179366	मैसर्स न्यू टाइम्स रिटेल प्राईवेट लिमिटेड	76.	184942	मैसर्स नन्दी इन्फ्राबिल्ड प्राईवेट लिमिटेड
47.	191335	मैसर्स प्रोरिच येलो पेजेस प्राईवेट लिमिटेड	77.	183921	मैसर्स नन्दी पावर जनरेशन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
48.	163659	मैसर्स हारमोन हेल्थ केयर एण्ड रिसर्च सेंटर प्राईवेट लिमिटेड	78.	176831	मैसर्स एस.आर.एम. हॉस्पिटल्स प्राईवेट लिमिटेड
49.	124744	मैसर्स कल्चर एण्ड नेचर ट्रेवल प्राईवेट लिमिटेड	79.	017585	मैसर्स हारीजन ग्लास ट्यूब्स इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
50.	054890	मैसर्स गुलमार्ग ओवरसीज प्राईवेट लिमिटेड	80.	047442	मैसर्स विद्या लीजिंग फाइनेन्स कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
51.	128321	मैसर्स ट्रिम्फ इन्टीरियर्स प्राईवेट लिमिटेड	81.	038463	मैसर्स सिग्नो इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
52.	134199	मैसर्स ट्रिम्फ मेटल्स प्राईवेट लिमिटेड	82.	182915	मैसर्स श्याम सिस्टेमा डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
53.	107505	मैसर्स आई.एफ. इन्फोटेक फ्यूजन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड	83.	167618	मैसर्स बीजापुर पावर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
54.	133085	मैसर्स ट्रान्समेड बायोफार्मा प्राईवेट लिमिटेड	84.	099770	मैसर्स ब्रिकोप्लास (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड
55.	151739	मैसर्स जी.टी.एम. ब्लैन्केट्स प्राईवेट लिमिटेड	85.	151054	मैसर्स येलो जाब्सडाट काम इंडिया प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
86.	151217	मैसर्स अविनाश इन्फ्राकोन प्राईवेट लिमिटेड
87.	179124	मैसर्स पास्को इंफो पार्क प्राईवेट लिमिटेड
88.	181656	मैसर्स रोबिन इन्फो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड
89.	118507	मैसर्स ड्रीम वीवर्स डिजाइन एण्ड कन्सल्टैन्सी प्राईवेट लिमिटेड
90.	176885	मैसर्स जेनी एनिमेशन स्टूडियो प्राईवेट लिमिटेड
91.	181310	मैसर्स एलेना मेन्टीनेन्स सर्विसेस प्राईवेट लिमिटेड
92.	077995	मैसर्स सी. डब्ल्यू. जी. वाटर टेक्नोलॉजिज प्राईवेट लिमिटेड
93.	092969	मैसर्स इन्डस मोटरसाइकिल प्राईवेट लिमिटेड
94.	026468	मैसर्स तनिशा एक्सपोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
95.	014240	मैसर्स राहुल राइस मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
96.	156708	मैसर्स उजाला टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन प्राईवेट लिमिटेड
97.	033350	मैसर्स आचार्य डेवलपर्स एण्ड कान्ट्रैक्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
98.	033339	मैसर्स महा माया डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
99.	033431	मैसर्स अलकनन्दा टावर्स प्राईवेट लिमिटेड
100.	186086	मैसर्स बाइट स्ट्रीकर्स साफ्टवेयर साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
101.	177899	मैसर्स पेमेन्ट ट्रान्जेशन सर्विसेस इंडिया प्राईवेट लिमिटेड
102.	123373	मैसर्स बाँके बिहारी रियल्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
103.	166670	मैसर्स इकोलाजी गारमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
104.	167864	मैसर्स स्पीड इन्फोवेज प्राईवेट लिमिटेड
105.	165250	मैसर्स टाइम्स ट्रेडजिम प्राईवेट लिमिटेड
106.	050014	मैसर्स माली एक्सपोर्ट एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड
107.	173491	मैसर्स राक वेल रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
108.	173884	मैसर्स टैरेस प्लान्स रियल इस्टेट प्राईवेट लिमिटेड
109.	149033	मैसर्स सफिन्क्स लेलोगिक्स बिजनेस साल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड
110.	120035	मैसर्स परफेक्ट लाजीस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
111.	160699	मैसर्स कोसी वैली हाइडल पावर कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
112.	164685	मैसर्स डायरा बुयाल स्काइ प्रोजेक्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
113.	204896	मैसर्स कम्प्रीहेन्सिव टेली कन्वर्जेंस प्राईवेट लिमिटेड
114.	033325	मैसर्स दीप शिखा एस्टेट्स प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
115.	033347	मैसर्स के. एस. जी. एस्टेट डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
116.	033349	मैसर्स ट्रांस प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
117.	033348	मैसर्स यूनिफ हाऊसिंग प्राईवेट लिमिटेड
118.	155296	मैसर्स माउन्टेन इन्फ्राकोन प्राईवेट लिमिटेड
119.	161783	मैसर्स जीयस व्हीलर्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
120.	114377	मैसर्स इल्मैक डाइज एण्ड कम्पोजिट्स प्राईवेट लिमिटेड

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स रीवरसाईड होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

सं. 560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स रीवरसाईड होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स यूनिफ्लो कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 12 दिसम्बर 2011

सं. 560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स यूनिफ्लो कंसलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्ट्रार से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और

मैसर्स विज़न सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

सं. 560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स विज़न सॉफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड का नाम

इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स संयम कॉरपोरेट सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

सं. 560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स संयम कॉरपोरेट सर्विसिज प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्स न्यूटेक प्रिसिजन कम्प्योनेन्ट्स
मैन्युफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

सं. 560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स न्यूटेक प्रिसिजन कम्प्योनेन्ट्स मैन्युफैक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स हरिजन इन्फोवेस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

सं. 560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स हरिजन इन्फोवेस प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स इकोईन्ड व्यास एण्ड व्यूज़ प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

सं. 560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स इकोईन्ड व्यास एण्ड व्यूज़ प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
मैसर्स भास्कर लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

नई दिल्ली-110019, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

सं. 560(3)--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्स भास्कर लीजिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

पी. एल. मलिक
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
रा. रा. क्षेत्र दिल्ली एवं हरियाणा

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

जम्मू-180012, दिनांक 16 नवम्बर 2011

सं. आर.ओ.सी./जेएमयू/560(5)/एफटीई/1067--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :-

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	002940	मैसर्स मक्काबॉय कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड
2.	002997	मैसर्स टोपाज़ होस्पिटैलिटीज़ सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड

म. कु. बागड़ी
कम्पनी रजिस्ट्रार
जम्मू एवं काश्मीर

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

सं. आर.ओ.सी./अहमदाबाद/560(5)/ई.ई.एस./2010--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	047657	मैसर्स अहमदाबाद इण्डस्ट्रियल एन्वायरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
2.	044864	मैसर्स श्री अमरज्योत एक्विजम प्राईवेट लिमिटेड

आर. डी. गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

अहमदाबाद, दिनांक 14 दिसम्बर 2011

सं. आर.ओ.सी./अहमदाबाद/560(5)/ई.ई.एस./2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	052248	मैसर्स आधार रिक्रिएशन प्राईवेट लिमिटेड
2.	025612	मैसर्स चार्ज लाईट इलेक्ट्रॉनिक प्राईवेट लिमिटेड
3.	037853	मैसर्स कोमेट क्रिएटिविटी प्राईवेट लिमिटेड
4.	025842	मैसर्स कोरोनेशन ट्रान्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
5.	030825	मैसर्स धर्मनंदन डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	023867	मैसर्स दत्त गैसेस प्राईवेट लिमिटेड
7.	035605	मैसर्स एक्वेस्ट ओर्गेनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
8.	013883	मैसर्स गैलैक्सी टारुनशिप प्राईवेट लिमिटेड
9.	004919	मैसर्स गुजरात सेमी प्रिंसीपल स्टोन्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	034823	मैसर्स जैन जैसवाल आयरन एण्ड स्टील प्राईवेट लिमिटेड
11.	029979	मैसर्स कल्याण पोर्टफोलियो सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
12.	025628	मैसर्स मृग बिजनेस सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
13.	041012	मैसर्स मुरतजा ब्रिडींग एण्ड हेचरी प्राईवेट लिमिटेड
14.	041731	मैसर्स रेंडीयन्स टैक्सटाइल्स प्राईवेट लिमिटेड
15.	026211	मैसर्स राय कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड

1	2	3
16.	030282	मैसर्स रक्षक कार्गो मूवर्स प्राईवेट लिमिटेड
17.	019420	मैसर्स रोहितनन रोटेमोल्ड प्राईवेट लिमिटेड
18.	019689	मैसर्स सरदार फूड प्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	011942	मैसर्स श्री रामा करहा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड
20.	044213	मैसर्स सुनोम सोल्युशन्स इण्डिया लिमिटेड
21.	047403	मैसर्स स्वदेशी विश्वासता एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
22.	017151	मैसर्स टेलिया ओर्गेनाइजर्स प्राईवेट लिमिटेड
23.	021273	मैसर्स उर्वीप्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड
24.	019779	मैसर्स उर्वीटेक इंजीनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
25.	003451	मैसर्स विजय केमिकल्स एण्ड प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
26.	032280	मैसर्स विशालराज एग्रीटेक प्राईवेट लिमिटेड
27.	035162	मैसर्स वेस्टर्न फनवर्ल्ड प्राईवेट लिमिटेड
28.	032431	मैसर्स योगीराज रियलटीज प्राईवेट लिमिटेड
29.	022122	मैसर्स शिजुका मल्टीप्रोडक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड

आर. डी. गुप्ता
उप कम्पनी रजिस्ट्रार
गुजरात

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

पटना, दिनांक 8 दिसम्बर 2011

सं. आर.ओ.सी./पैट/560(3)/7483--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से 30 दिन के अवसान पर निम्नलिखित कंपनियों का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किए गए तो रजिस्टर से काट दिए जाएंगे और उक्त कम्पनियां विघटित कर दी जाएंगी :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	007830	मैसर्स किरण प्लान्टेशन एण्ड हाऊसिंग फायनान्स लिमिटेड
2.	007832	मैसर्स सोशल फॉरेस्ट्री इण्डिया लिमिटेड
3.	007825	मैसर्स वैशाली कॉमर्शियल एण्ड प्लान्टेशन्स लिमिटेड
4.	007817	मैसर्स बरीनी सेविंग्स सेंटर एण्ड इन्वेस्टमेंट इण्डिया लिमिटेड

1	2	3
5.	007818	मैसर्स साईराज इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
6.	007819	मैसर्स सोल फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
7.	007796	मैसर्स एकता सेविंग्स एण्ड हायर परचेज लिमिटेड
8.	007780	मैसर्स रॉयल इण्डिया हाऊस एग्री प्रोडक्ट्स लिमिटेड
9.	007777	मैसर्स फलहारी प्लान्टेशन्स लिमिटेड
10.	007770	मैसर्स रिमझिम फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
11.	007766	मैसर्स कृष्णा फिनलिज लिमिटेड
12.	000007	मैसर्स छट्टराम होरीलराम कोडरमा लिमिटेड
13.	007748	मैसर्स छिपराधारा फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
14.	007737	मैसर्स सर्वोत्तम प्लान्टेशन एण्ड इकोनोमी कम्पनी लिमिटेड
15.	007738	मैसर्स सर्वोपरी एग्री फायनान्स लिमिटेड
16.	007740	मैसर्स जहानवी सेविंग्स एण्ड फायनान्स इण्डिया लिमिटेड
17.	007741	मैसर्स जय जनविकास फायनान्स लिमिटेड
18.	007727	मैसर्स वीर कुंवर जी फायनान्स इण्डिया लिमिटेड
19.	007724	मैसर्स नीलांचल फायनान्स कम्पनी लिमिटेड
20.	007709	मैसर्स उपकार प्लान्टेशन एण्ड इकोनोमी इण्डिया लिमिटेड
21.	007718	मैसर्स सदाबहार प्लान्टेशन्स (इण्डिया) लिमिटेड
22.	007697	मैसर्स युनिक वान एण्ड कृषि विकास लिमिटेड
23.	007696	मैसर्स वृद्धिशी सेविंग एण्ड क्रेडिट लिमिटेड
24.	007693	मैसर्स विजयश्री एग्री लिमिटेड
25.	007694	मैसर्स डिनोवा ओवरसीज़ जॉब एण्ड एजुकेशन लिमिटेड
26.	007684	मैसर्स प्राउनत सेविंग्स एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
27.	007674	मैसर्स साहाबाद प्लान्टेशन्स लिमिटेड
28.	007665	मैसर्स आग्रपाली सेविंग्स लिमिटेड
29.	007661	मैसर्स हसनपुर फायनान्स एण्ड इन्वेस्टमेंट इण्डिया लिमिटेड
30.	007659	मैसर्स एसोशिएटेड फार्मिंग कम्पनी लिमिटेड

अरविन्द शुक्ल
कम्पनी रजिस्ट्रार
बिहार-सह-शासकीय
समापक उच्च न्यायालय, पटना

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोलकाता-700020, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

सं. कं.रं./प.बं./ई.ई.एस.-560/2011/145--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1.	027004	मैसर्स जबिया मैनुफैक्चरिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
2.	083678	मैसर्स लोकनाथ एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
3.	134247	मैसर्स लेजिन्द विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
4.	138509	मैसर्स बेरलिनस बेकरी प्राईवेट लिमिटेड
5.	127962	मैसर्स बंदना शोपर्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	132929	मैसर्स एतरी ट्रेडलिंग प्राईवेट लिमिटेड
7.	134358	मैसर्स मंगलश्री विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
8.	134162	मैसर्स मातेश्वरी डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
9.	134042	मैसर्स सनबरिमा एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
10.	134205	मैसर्स धन प्रभाग फायनान्शियल एडवायज़री प्राईवेट लिमिटेड
11.	134148	मैसर्स बृजवासी मर्चेन्डिस प्राईवेट लिमिटेड
12.	057745	मैसर्स नव पल्लव स्टेट प्राईवेट लिमिटेड
13.	099846	मैसर्स सुतन इम्पेक्स प्राईवेट लिमिटेड
14.	134538	मैसर्स यूनिवर्सल ईस्ट कोस्टल प्रोट प्राईवेट लिमिटेड
15.	073819	मैसर्स ग्लोमर ट्रेडर प्राईवेट लिमिटेड
16.	127239	मैसर्स इस्टर्न टेलिनफ्रा प्राईवेट लिमिटेड
17.	145502	मैसर्स जनहित सेल्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	135956	मैसर्स इन्सटॉल डीलर्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	145821	मैसर्स गोदावरी स्पलायर्स प्राईवेट लिमिटेड
20.	104813	मैसर्स प्रभास डामरी एण्ड एग्री प्रोडक्ट प्राईवेट लिमिटेड
21.	049049	मैसर्स कलकत्ता पथ ओफशालमिक प्राईवेट लिमिटेड

हरिहर साहू
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कंपनियों के विषय में

कोलकाता-700020, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

सं. कं.रं./प.बं./ई.ई.एस.-560/2011/146--कम्पनी अधिनियम, 1956
की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी

जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :—

क्रम सं.	कम्पनी संख्या	कम्पनी का नाम
1	2	3
1.	052202	मैसर्स सूत्रा फार्मास्युटिकल्स एण्ड मार्केटिंग सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
2.	102931	मैसर्स हिमगिरी कन्ज्यूमर केयर प्राईवेट लिमिटेड
3.	091929	मैसर्स इंफोइल नेटवर्क लिमिटेड
4.	080046	मैसर्स हावड़ा शेयर हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
5.	043876	मैसर्स विश्नु नारायण एण्ड एशोसिएट्स प्राईवेट लिमिटेड
6.	079259	मैसर्स रेकोण अक्वाटिक प्राईवेट लिमिटेड
7.	044769	मैसर्स रोटे पैलेस इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
8.	106823	मैसर्स श्रीपाली मार्केटिंग एण्ड ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
9.	061663	मैसर्स न्यूटेन राईटिंग एंड्स प्राईवेट लिमिटेड
10.	100173	मैसर्स क्रियेशन हैल्थ केयर लिमिटेड
11.	123024	मैसर्स होनेस्टी विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
12.	005426	मैसर्स एडीपे प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
13.	001762	मैसर्स चेक आफिस टेलेग्राफ म्युचुअल रेलीफ फण्ड लिमिटेड
14.	104973	मैसर्स उत्सव टाईअप प्राईवेट लिमिटेड
15.	104982	मैसर्स अनमोल कन्ज्यूमर गुड्स प्राईवेट लिमिटेड
16.	108312	मैसर्स फेसटोनो विनिमय प्राईवेट लिमिटेड
17.	108387	मैसर्स गणपति कन्ज्यूमर गुड्स प्राईवेट लिमिटेड
18.	108388	मैसर्स पायोनियर कन्ज्यूमर गुड्स प्राईवेट लिमिटेड
19.	108655	मैसर्स जोली कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
20.	108703	मैसर्स मिस्टवॉली डीलकम प्राईवेट लिमिटेड
21.	090166	मैसर्स ज्वाहरी दुर्गा टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
22.	088125	मैसर्स फसटोन कॉमर्शियल कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
23.	088080	मैसर्स डोसियर ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
24.	090073	मैसर्स साऊथ कलकत्ता गेस्ट हाऊस प्राईवेट लिमिटेड
25.	080469	मैसर्स प्राईमेक्स सेल्स एजेन्सीज प्राईवेट लिमिटेड
26.	080731	मैसर्स वर्चुअस मर्चेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड
27.	080736	मैसर्स राघवन ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
28.	097805	मैसर्स गोलडन शीपिंग लिमिटेड

1	2	3
29.	097806	मैसर्स नोवल शीपिंग लिमिटेड
30.	105831	मैसर्स इनोवर्थ सर्विसिस प्राईवेट लिमिटेड
31.	046268	मैसर्स सिम्पलेक्स ट्रेडर्स एण्ड इन्वेस्टर्स प्राईवेट लिमिटेड
32.	046821	मैसर्स एस. कृष्णा एण्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
33.	046817	मैसर्स मनक केम एण्ड होल्डींग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
34.	046738	मैसर्स इनिता मार्केटिंग इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
35.	046545	मैसर्स अमरपाली मार्केटिंग लिमिटेड
36.	046167	मैसर्स चेस्टर फिल्ड फायनान्स प्राईवेट लिमिटेड
37.	048523	मैसर्स गोलयान पॉलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड
38.	048600	मैसर्स सबिना एन्टरप्राइजेस प्राईवेट लिमिटेड
39.	048701	मैसर्स साथी ट्रेड प्राईवेट लिमिटेड
40.	095524	मैसर्स सूर्यमाधव ट्रेडिंग प्राईवेट लिमिटेड
41.	095380	मैसर्स वर्चुअल इमेज सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड
42.	043089	मैसर्स पुष्पा मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड
43.	048745	मैसर्स फ्लागॉन ब्रिगेरीज प्राईवेट लिमिटेड
44.	043073	मैसर्स ईस्ट इण्डिया विनियर्स प्राईवेट लिमिटेड
45.	048352	मैसर्स नवल रोसिन प्राईवेट लिमिटेड
46.	043166	मैसर्स फोरमोस्ट फ्यूअल्स प्राईवेट लिमिटेड
47.	043070	मैसर्स स्पेशल रबर (इण्डिया) लिमिटेड
48.	043091	मैसर्स फेरो रेक्स इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड
49.	095465	मैसर्स रिज्वाइन प्लास्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड
50.	095306	मैसर्स पीपीएस एनवाइरो पावर प्राईवेट लिमिटेड
51.	095426	मैसर्स मालान्दा कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
52.	043093	मैसर्स एटलस हाऊसिंग एण्ड प्रोपर्टीज प्राईवेट लिमिटेड
53.	043167	मैसर्स टी एल आर कंस्ट्रक्शन ईस्टर्न प्राईवेट लिमिटेड
54.	048311	मैसर्स स्टाईल डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड
55.	048731	मैसर्स आनन्द बियरिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
56.	095316	मैसर्स इन्टरलिक राकविल्ड प्राईवेट लिमिटेड
57.	048662	मैसर्स सिगमा सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
58.	095289	मैसर्स वेदान्त डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राईवेट लिमिटेड
59.	043102	मैसर्स नेटवर्क मार्केटिंग एजेन्सी प्राईवेट लिमिटेड
60.	093600	मैसर्स बुलकान मार्केटिंग एण्ड सर्विसिस लिमिटेड

1	2	3	1	2	3
61.	043069	मैसर्स निशा एपकॉन्स प्राईवेट लिमिटेड	76.	043117	मैसर्स स्ट्रिंगार्म इक्विपमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड
62.	095481	मैसर्स एनविशन एन्टरटेनमेंट प्राईवेट लिमिटेड	77.	025946	मैसर्स कुट्टीको इंजीनियरिंग एण्ड एक्सपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड
63.	048753	मैसर्स हिमाली होटल प्राईवेट लिमिटेड	78.	043074	मैसर्स पोलर चेम कोट्स लिमिटेड
64.	095303	मैसर्स जालंगी होटल्स एण्ड रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	79.	095424	मैसर्स हाई-टेक कॉल सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड
65.	043156	मैसर्स पेन्थर ट्रेवल्स प्राईवेट लिमिटेड	80.	043111	मैसर्स फोररन साईन एन्टरप्राइज प्राईवेट लिमिटेड
66.	043184	मैसर्स गजराज एशोसिएटेड केरियर्स प्राईवेट लिमिटेड	81.	094687	मैसर्स एलियेन्स टी कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
67.	048721	मैसर्स ब्राइट ट्रान्सपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	82.	043448	मैसर्स भादनी टोबेको उद्योग प्राईवेट लिमिटेड
68.	043078	मैसर्स खातेर होल्डिंग्स प्राईवेट लिमिटेड	83.	043637	मैसर्स स्टारलाईन कॉमर्शियल प्राईवेट लिमिटेड
69.	043083	मैसर्स इजी इन्वेस्टमेंट्स एण्ड कन्सलटेंट प्राईवेट लिमिटेड	84.	043474	मैसर्स जगन्नाथ पॉलीथीन इण्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड
70.	043275	मैसर्स पूर्वांचल बियरिंग्स लिमिटेड	85.	043341	मैसर्स रेपिड प्रिंटिंग कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड
71.	043290	मैसर्स टूयलिप अपार्टमेंट्स प्राईवेट लिमिटेड	86.	043523	मैसर्स इशान आयुर्वेदिक ड्रग्स प्राईवेट लिमिटेड
72.	043151	मैसर्स एस जे इलेक्ट्रो सिस्टम्स प्राईवेट लिमिटेड	87.	043312	मैसर्स सन्त कबीर रोलिंग मिल्स प्राईवेट लिमिटेड
73.	095495	मैसर्स प्रोसीरॉन नेटवर्क्स एण्ड सोल्युशन्स (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	88.	043547	मैसर्स मास इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड
74.	095362	मैसर्स इन्ड्रोमेडा इन्फोरमेशन मैनेजमेंट सोल्युशन्स प्राईवेट लिमिटेड			
75.	043302	मैसर्स जय कन्सलटेंट्स प्राईवेट लिमिटेड			

हरिहर साहू
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
पश्चिम बंगाल

कम्पनी अधिनियम, 1956 और निम्नलिखित कंपनियों को विषय में

हैदराबाद, दिनांक 15 दिसम्बर 2011

सं. आर.ओ.सी./560(5)/ईईएस-2011/वी.एस.ज/1-167-कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित 1 से 167 कंपनियों के नाम रजिस्टर से काट दिये गये हैं उक्त कंपनियाँ विघटित हो गई हैं : —

क्रम सं०	सिन	कम्पनी का नाम
01	U74140AP2005PTC045121	टी एन एस मोड प्रइवेट लिमिटेड
02	U01119AP2007PTC053254	सिप्रोजेन बयोटेक प्रइवेट लिमिटेड
03	U65910AP1993PLC016482	प्रिविलेज बिल्डर्स लिमिटेड
04	U40105AP2007PTC056829	बी एस सी पी एल — एस सी एल — सिक्किम पॉवर प्रइवेट लिमिटेड
05	U70102AP2006PTC048652	कइजेन एवेन्यूस प्रइवेट लिमिटेड
06	U45200AP1987PTC008025	पी के कन्सल्टन्स प्रइवेट लिमिटेड
07	U45200AP1987PTC008031	पूर्णमा कन्सल्टन्स प्रइवेट लिमिटेड
08	U72200AP2000PTC035416	साफरॉन सॉफ्टवेअर्स प्रइवेट लिमिटेड
09	U28113AP2008PTC057718	ई-मैन अइर्रेन ऐण्ड स्टील प्रइवेट लिमिटेड
10	U72200AP1993PTC015636	सोनिया कम्प्यूटर सिस्टम्स प्रइवेट लिमिटेड
11	U72200AP1990PTC011350	स्टेल्लार सॉफ्टवेटर प्रइवेट लिमिटेड
12	U72200AP2007PTC054920	रियलविशॉन इन्फो सोल्यूशन्स प्रइवेट लिमिटेड
13	U29299AP2003PTC040876	अंतरिक्ष इन्वर्टर्स प्रइवेट लिमिटेड
14	U74900AP2007PTC055081	साई पूर्णसुधा कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
15	U17119AP2005PTC047067	एस.जे.एस. सोलार ऐण्ड बयो एनर्जी प्रइवेट लिमिटेड
16	U45201AP1999PTC032849	गिरि सिखारा प्रोजेक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
17	U72200AP1997PTC026700	बीपीआर सोल्यूशन्स प्रइवेट लिमिटेड
18	U74300AP1994PTC017301	बइनॉक्स कम्प्यूनिकेशन्स प्रइवेट लिमिटेड
19	U74140AP2005PTC046173	सागिट टारिअस मैनेजमेंट कन्सलटेंट्स प्रइवेट लिमिटेड
20	U74999AP2001PTC038021	वेलसेट सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
21	U92490AP2007PTC053129	यूबिक इंटरटेइन्मेन्ट प्रइवेट लिमिटेड
22	U51909AP2004PTC043031	साइदत्ता एजेन्सीस प्रइवेट लिमिटेड
23	U01222AP1993PTC015977	सोवर्जिन अक्वा फीड्स प्रइवेट लिमिटेड
24	U51909AP2006PTC050590	मारम इम्पेक्स प्रइवेट लिमिटेड

25	U72900AP2002PTC038488	सानफस टेक्नोलोजीस प्रइवेट लिमिटेड
26	U72200AP2007PTC053077	नेटजगेट टेक्नोलोजीस प्रइवेट लिमिटेड
27	U93000AP2007PTC053945	प्रासा प्रोसेसिंग सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
28	U45200AP1987PTC007413	एवरेस्ट कन्सट्रक्शन्स प्रइवेट लिमिटेड
29	U45200AP2007PTC052990	जेस्टर इन्फ्राकॉन ऐण्ड डेवलपर्स प्रइवेट लिमिटेड
30	U24239AP1995PTC019462	जनहिता मिडिकेर प्रइवेट लिमिटेड
31	U70102AP2008PTC058043	श्री राधा अमृत डेवलपर्स प्रइवेट लिमिटेड
32	U15142AP1987PTC007219	बाबू आग्री ऑइल्स प्रइवेट लिमिटेड
33	U70102AP1987PTC008027	बय व्यू एस्टेट्स प्रइवेट लिमिटेड
34	U72200AP2006PTC048929	स्कबेल टेक्नोलोजीस प्रइवेट लिमिटेड
35	U05005AP2000PTC034985	पुरवी मैरैन प्रइवेट लिमिटेड
36	U45200AP1996PTC025231	अटिलीर बिल्डींग सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
37	U15541AP1993PLC015229	रामकृष्णा डिस्ट्रीलीरीस लिमिटेड
38	U65992AP2005PTC046078	हैप्पी होम चिट्स प्रइवेट लिमिटेड
39	U01120AP1996PLC023759	एन्नारइ एस्टेट्स ऐण्ड फार्मस लिमिटेड
40	U25199AP2000PTC035600	इंडो — कंट प्लास्टिक्स प्रइवेट लिमिटेड
41	U40102AP2007PTC054480	सउथ — कोस्ट पॉवर डेवलपमेन्ट कम्पनी आफ ऑंध्रा प्रदेश प्रइवेट लिमिटेड
42	U70102AP1995PTC021162	कृष्णजा एस्टेट्स प्रइवेट लिमिटेड
43	U45201AP1998PTC030104	श्रीकर इंटरटेन्मेन्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
44	U45200AP1995PTC021891	श्रीखर एस्टेट्स प्रइवेट लिमिटेड
45	U15421AP1995PLC020829	येल्लमंचिलि सुगर्स लिमिटेड
46	U01119AP1995PLC020843	येल्लमंचिलि अग्री टेक लिमिटेड
47	U45200AP2007PTC053704	चल्ला इन्फ्रास्ट्रक्चर ऐण्ड हउसिंग प्रइवेट लिमिटेड
48	U40109AP2006PTC050790	मर्तावाडा पॉवर प्रइवेट लिमिटेड
49	U70100AP1988PTC008955	प्रेम प्रकाश कन्सट्रक्शन्स प्रइवेट लिमिटेड
50	U72900AP2002PTC038298	अॅक्टाड सोल्यूशन्स प्रइवेट लिमिटेड
51	U72200AP2007PTC055037	एड्समार्ट मीडिया सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
52	U51909AP1993PLC015243	सिस्टला इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
53	U72200AP2004PTC043631	तम्मास टेक्नोलोजीस प्रइवेट लिमिटेड
54	U15314AP1924PTC000046	दी कंचिकाचेर्ला श्री कन्याकापरमेश्वरि (न0.2) जिन फैक्टरी प्रइवेट लिमिटेड

55	U66020AP2003PTC040730	पाक्ट इन्सुरेन्स ब्रोकर्स प्रइवेट लिमिटेड
56	U72200AP2005PTC047283	स्पीकोन रइल टेक्नोलोजीस प्रइवेट लिमिटेड
57	U72200AP2000PTC035439	सॉफ्टचिप टेक्नोलोजीस प्रइवेट लिमिटेड
58	U72200AP2004PTC042835	नोवापॉइन्ट सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स प्रइवेट लिमिटेड
59	U72200AP2000PTC034098	ट्रस्टेक.कॉम प्रइवेट लिमिटेड
60	U74999AP2008PTC057102	नावेजिरे ट्रेडिंग प्रइवेट लिमिटेड
61	U67120AP1992PTC014248	डी.सी.शेयर कन्सलटेंट्स प्रइवेट लिमिटेड
62	U27109AP1998PTC028887	संग्राम कास्टिंग्स प्रइवेट लिमिटेड
63	U45209AP2004PTC043502	यार्रम इंजीनीर्स प्रइवेट लिमिटेड
64	U01132AP1996PTC023974	राजराजेश्वरि ग्रीन फार्मस प्रइवेट लिमिटेड
65	U64203AP2001PTC037038	चिप मॉजिक टेक्नोलोजीस प्रइवेट लिमिटेड
66	U72200AP2000PTC035487	बीनेट ऑनलइन प्रइवेट लिमिटेड
67	U40101AP2006PTC051635	पलचुराम हइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट प्रइवेट लिमिटेड
68	U72200AP1997PTC026737	जी एम बी सिस्टैम्स प्रइवेट लिमिटेड
69	U85195AP1996PTC024960	स्वर्णा डेयग्नोस्टीक सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
70	U72200AP2004PTC042555	जे एम के सॉफ्टवेअर प्रइवेट लिमिटेड
71	U72200AP2008PTC057046	फइन सॉफ्टवेअर सोल्यूशन्स (इण्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
72	U72200AP2006PTC049063	रागो मीडिया सॉफ्ट इण्डिया प्रइवेट लिमिटेड
73	U01119AP2003PTC041255	श्रीला आग्री फार्मस प्रइवेट लिमिटेड
74	U18100AP1990PTC011162	भवानि शंकारा टेक्सटाइल्स मिल्स प्रइवेट लिमिटेड
75	U40109AP2004PTC044844	विकांत पॉवर प्रइवेट लिमिटेड
76	U72200AP1998PTC029245	छाडा इन्फोटेक प्रइवेट लिमिटेड
77	U24231AP1999PTC032198	किमरेतेरपटिओक ड्रग्स प्रइवेट लिमिटेड
78	U27109AP1990PTC011792	सिम्हापुरि स्टील्स प्रइवेट लिमिटेड
79	U70102AP2002PTC038874	श्री यासस्विनी कन्सल्टेशन्स प्रइवेट लिमिटेड
80	U72200AP1998PTC029187	अइ एफक्ट कन्सल्टिंग (इण्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
81	U32204AP2000PLC033354	हियुरिस्टीक सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजीस लिमिटेड

82	U72200AP2004PTC044692	ट्रीलोजिक्स सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्रइवेट लिमिटेड
83	U72200AP2007PTC055879	प्राग्या टेक्नोलोजीस प्रइवेट लिमिटेड
84	U74140AP2006PTC049640	बोब्वीस पी एन जी के ओवरसीस एड्युकेशन ऐण्ड स्टॉफिंग सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
85	U64203AP2002PTC039225	खम्मम एयरनेट सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
86	U72200AP1999PTC031902	साई अनजना इन्फोटेक प्रइवेट लिमिटेड
87	U72200AP2006PTC051273	फेडरल सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्रइवेट लिमिटेड
88	U51109AP1996PTC025272	वेदव्यास एजेन्सीस प्रइवेट लिमिटेड
89	U01119AP1993PTC015272	शेशाचला आग्री फार्म प्रइवेट लिमिटेड
90	U67120AP1993PTC015360	मेहर डॉटा सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
91	U15143AP1989PTC009900	राविला आग्री प्रइवेट लिमिटेड
92	U74140AP2004PTC044686	व्याहान इम्पेक्स प्रइवेट लिमिटेड
93	U24110AP1985PTC005475	येरामिल्ली कैमिकल्स प्रइवेट लिमिटेड
94	U01119AP2007PTC055118	बंजारा आग्री प्रइवेट लिमिटेड
95	U92141AP2007PTC056267	एल्लो लीफ मीडिया वर्क्स प्रइवेट लिमिटेड
96	U72200AP1995PTC021653	कोरियन टेक्नोलोजीस एण्ड ट्रेडिंग कम्पनी प्रइवेट लिमिटेड
97	U01119AP1995PTC023123	डाट्ला आग्री – टेक एण्ड एस्टेट्स प्रइवेट लिमिटेड
98	U92111AP1989PTC009873	विनोद विडियोट्रॉनिक्स प्रइवेट लिमिटेड
99	U74140AP2004PTC042833	एस डि आई रिसोर्स मैनेजमेन्ट प्रइवेट लिमिटेड
100	U05005AP1994PLC016858	हईटेक अक्वा एस्टेट्स लिमिटेड
101	U72200AP1993PLC016178	एस डी ई डिजिमोग्रफिक्स लिमिटेड
102	U72200AP1998PTC029898	स्ट्राटेजिक सइबरलैक्स प्रइवेट लिमिटेड
103	U24232AP1984PTC004622	एवरेस्ट रिमिडीस प्रइवेट लिमिटेड
104	U65993AP1997PLC027086	राहुल तेजा फइनान्स लिमिटेड
105	U65910AP1985PTC005879	अभिजीत फइनान्स प्रइवेट लिमिटेड
106	U72200AP1989PTC010540	ट्रेन्ड एड्युकेशनल अकादमि प्रइवेट लिमिटेड
107	U33111AP2007PTC053283	बी पी एम लॉक्स प्रइवेट लिमिटेड
108	U24230AP1994PTC016938	अय्याप्पा ड्रग्स एण्ड कैमिकल्स प्रइवेट लिमिटेड
109	U65992AP1993PTC016594	श्रीवासा चिट फण्ड प्रइवेट लिमिटेड

110	U67190AP2002PTC038402	वी ऐण्ड एम क्रेडिट कार्ड सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
111	U45200AP2006PTC049994	ए.वी.प्रोजेक्ट्स (इण्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
112	U55101AP2004PTC043350	नीलाम्बरि होटल्स प्रइवेट लिमिटेड
113	U29219AP1998PTC030672	जोसेफ कम्पोजन्स एक्विजम (इण्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
114	U72200AP2005PTC047228	एस4-टेक्नोलोजीस प्रइवेट लिमिटेड
115	U01222AP2004PTC042923	सा हाट्चरीस प्रइवेट लिमिटेड
116	U05004AP1997PTC027761	श्रीनिधि मॅरैन प्रोडक्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
117	U16000AP1997PTC027095	पॉवन टोबाकोस प्रइवेट लिमिटेड
118	U19202AP1999PTC032484	हइ-टेक विनियल्स ऐण्ड पोलिमर्स प्रइवेट लिमिटेड
119	U45200AP2007PTC056355	मइफेर हॅन्सन प्रोपर्टीस प्रइवेट लिमिटेड
120	U52110AP1991PTC013306	प्रभवा एक्सपोर्ट्स प्रइवेट लिमिटेड
121	U15549AP2002PTC039335	वि एस के फूड्स प्रइवेट लिमिटेड
122	U15147AP2001PTC037825	सेन्सेशन कॅमोडिटी एक्विजम प्रइवेट लिमिटेड
123	U52520AP1989PTC009677	फुटुरा मानुफाक्चरर्स ऐण्ड मार्केटर्स प्रइवेट लिमिटेड
124	U93000AP2007PTC053816	इंटीग्रेटेड इन्सपेक्शन सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
125	U33112AP1997PTC028505	जुबिली हॉस्पिटल्स प्रइवेट लिमिटेड
126	U67120AP1998PTC029885	सनडियल होल्डिंग्स प्रइवेट लिमिटेड
127	U74900AP2007PLC054485	चल्ला मीडिया लिमिटेड
128	U72200AP2006PTC049633	डेक्कन मल्टी सोरसिंग प्रइवेट लिमिटेड
129	U65992AP1986PTC006735	सूर्या रियल एस्टेट्स ऐण्ड चिट्स प्रइवेट लिमिटेड
130	U45200AP1993PTC015761	बोंगू कन्सट्रक्शन्स प्रइवेट लिमिटेड
131	U45200AP2005PTC046697	अभिरामा होम्स (इण्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
132	U25199AP1988PTC008400	दीपिका रैब्वर इण्डस्ट्रीस प्रइवेट लिमिटेड
133	U72200AP2008PTC057002	ही जी मोन सॉफ्टवेयर सोल्यूशन्स प्रइवेट लिमिटेड
134	U13209AP1992PLC014395	प्रॅनेक्स सीफूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड
135	U72200AP1999PTC032555	प्रोलोजिक्स टेक्नोलोजीस (इण्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
136	U24239AP2003PTC042054	कुरोल फार्मासियुटिकल्स प्रइवेट लिमिटेड

137	U72900AP1998PTC029375	गेटवे इन्टरनेट सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
138	U74999AP1994PTC018010	श्री बन्साल टेक्स प्रिंट्स प्रइवेट लिमिटेड
139	U11100AP2007PTC055231	बी. शेशगिरि राव पिट्रोलियम प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीबुटर्स प्रइवेट लिमिटेड (भाग IX)
140	U23209AP2007PTC055281	जायाश्री पिट्रोलियम डिस्ट्रीबुटर्स प्रइवेट लिमिटेड (भाग IX)
141	U18101AP2006PTC051364	ओसियन रेडिमेड्स प्रइवेट लिमिटेड
142	U72200AP1998PTC030472	मेगासॉफ्ट इंटरनैशनल (इण्डिया) प्रइवेट लिमिटेड
143	U24230AP2006PTC049374	गारलापाटि साम्बासिवा राव प्लान्टेशन प्रइवेट लिमिटेड
144	U24110AP1994PLC018298	रामबिक कैमिकल्स लिमिटेड
145	U72900AP2002PTC038775	अवागामा सोल्युशन्स प्रइवेट लिमिटेड
146	U74140AP2005PTC046894	मानटली कन्सलटिंग सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
147	U01110AP1995PLC021527	आर एल आर हालिडेस रिसॉर्ट्स लिमिटेड
148	U74999AP2005PTC045303	इन्नोस्प्रींग इम्पेक्स प्रइवेट लिमिटेड
149	U72200AP2006PTC049122	समुडिता टेक्नोलोजीस प्रइवेट लिमिटेड
150	U27107AP1986PTC006546	ताप्सी इस्पाट उद्योग प्रइवेट लिमिटेड
151	U92111AP2006PTC049117	सेवेन्त सेन्स मूवीस प्रइवेट लिमिटेड
152	U65993AP1992PTC013800	स्वानिवास लीसिंग ऐण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी प्रइवेट लिमिटेड
153	U65990AP1995PTC020666	भास्कर नारायण फैनान्स कम्पनी प्रइवेट लिमिटेड
154	U65910AP1988PTC009255	एल.बजरंग परशद लीसिंग ऐण्ड इन्वेस्टमेंट प्रइवेट लिमिटेड
155	U65993AP1998PLC030423	जी एस एल कैपिटल्स लिमिटेड
156	U65921AP1997PTC026172	अदोक्षाजा फिन्वेस्ट प्रइवेट लिमिटेड
157	U67120AP1995PLC019334	श्री सिरि सेक्युरिटीस लिमिटेड
158	U65920AP1995PTC020527	ट्रस्ट वर्त फैनान्सीयल सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
159	U65993AP1995PLC021038	ए.वी.आर.फैनान्स लिमिटेड

160	U65993AP1991PLC013000	मारिची फैनान्स ऐण्ड लीसिंग लिमिटेड
161	U65910AP1996PTC025711	गिडोडिया फैनान्स ऐण्ड लीसिंग प्रइवेट लिमिटेड
162	U65992AP2003PTC042095	शुभांगम चिट फण्ड्स प्रइवेट लिमिटेड
163	U65910AP1996PTC025037	ममता फैनान्स प्रइवेट लिमिटेड
164	U65921AP1982PLC003389	श्री ईस्ट कोस्ट हयर पर्वेस लिमिटेड
165	U65191AP2005PTC046476	इन्टेलजेंन्टीया फैनान्सीयल मेनेजर्स प्रइवेट लिमिटेड
166	U65910AP2003PTC041507	शराइन फैनान्सीयल सर्विसेस प्रइवेट लिमिटेड
167	U65993AP1986PTC006943	वाकतीया इन्वेस्टमेंट्स प्रइवेट लिमिटेड

वी. संतोषी जागिरदार
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार
आन्ध्र प्रदेश

कम्पनी अधिनियम, 1956 और
निम्नलिखित कम्पनियों के विषय में

चैन्ने, दिनांक 7 दिसम्बर 2011

सं. 12 से 74963 तक/560(5)/स्यो मोठे-2011--कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कम्पनियों के नाम आज रजिस्टर से काट दिए गए हैं और उक्त कम्पनियां विघटित हो गई हैं :--

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
1	12	असोसियेटेड फार्माचुटिकल इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
2	103	दि मद्रास मेडिकल & जेनरेल सप्लायर्स लिमिटेड
3	160	अहिम्सा प्रोविडेंट असुरेन्स लिमिटेड
4	216	भगत इण्डस्ट्रीस & कॉमर्स लिमिटेड
5	370	कॉडियल इन्जीनियरिंग कम्पनी (कोयम्पतूर) लिमिटेड
6	704	ईस्ट इण्डिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7	807	ग्राम उर्पत्तीयालर वर्दग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	914	इण्डियन सरकार इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड
9	946	इण्डो-जर्मण एजेन्सीस लिमिटेड
10	1236	कृष्णा आईल मिल्स & इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
11	1441	मद्रास कर्मशियल कॉर्पोरेशन प्रैवेट लिमिटेड
12	1479	मॉडर्न हौसिंग कणस्ट्रक्शन & प्रोपरटीस लिमिटेड
13	1574	मद्रास लैफ़ असुरेन्स को लिमिटेड
14	1688	मधुरा मणुफेक्चोरिस लिमिटेड
15	1718	मुत्तु मणि लिमिटेड
16	1979	पी नटेसन & को लिमिटेड
17	1983	प्रिमियर इण्डियन सैन्टीफिक कम्पनी लिमिटेड
18	2074	पान्डियन इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड
19	2124	पुदुकोट्टै इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
20	2225	राजहन्स आईल & सोप्स इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
21	2409	एस ए टी यू पब्लिकेशन्स लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
22	2419	सन्रैस कॉरपोरेशन लिमिटेड
23	2433	सउत इण्डिया आठोसोठीव कॉरपोरेशन लिमिटेड
24	2584	सुन्दरम् & कम्पनी लिमिटेड
25	2747	श्री सुन्दरम् डैयिंग एर्ण्ड वीविंग कम्पनी लिमिटेड
26	3001	तमिलनाडु पोरुल निलयम् लिमिटेड
27	3183	वॉन्गार्ड प्रोविडेन अस्सुरेन्स को लिमिटेड
28	3498	बलरामा वर्मा टेक्सटैल लिमिटेड
29	3542	कलैमगल कॉरपोरेशन लिमिटेड
30	3890	श्री अय्यप्पस्वामी बस ट्रान्सपोर्ट लिमिटेड
31	4278	इन्द्राक फार्माचुटिकल्स लिमिटेड
32	4673	मद्रास टियूब को लिमिटेड
33	4813	नागनादर मोटार सरवीस लिमिटेड
34	4912	रसायन कम्पनी लिमिटेड
35	5065	आर्काट् पाडी & रैस कलन्धियम् प्रैवेट लिमिटेड
36	5219	इण्डियन फिल्म वीवर्स लिमिटेड
37	5261	होटल रीटा लिमिटेड
38	5326	वेल्लूर लारी होनर्स असोसियेटेड बुक्कींग सरवीस लिमिटेड
39	5359	बेस्ट फार्माचुटिकल्स लिमिटेड
40	5376	मउंट रोड प्रोपरटीस लिमिटेड
41	5380	मधूरा रोड प्रोपरटीस लिमिटेड
42	5383	गंगप्पा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
43	5393	श्री बालाजी लिसिंग सरवीसेस लिमिटेड
44	5458	चल्लप्पल्ली सिमेन्ट्स लिमिटेड
45	5511	पद्मालया आठो काम्पेक्स लिमिटेड
46	5601	श्री मुत्तु दियेटर्स लिमिटेड
47	5663	गुड़विल् बल्क केरियर्स लिमिटेड
48	5731	आल् बुक्स चॉम्बर लिमिटेड
49	5765	केप कोमोरिन फिश इण्डस्ट्रीस लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
50	6041	स्टार अग्रो इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
51	6079	सउत इण्डिया ब्रिविरीज़ लिमिटेड
52	6119	मद्रास प्रासेस केमिकल्स लिमिटेड
53	6217	तमिलनाडु सिन्दीटिक फ़ैबेर्स लिमिटेड
54	6445	इन्टरनेशनल जेनरेल एजेन्सीस लिमिटेड
55	6487	तमिलनाडु सिरामिक्स लिमिटेड
56	6537	मेरक्युरी मशीन टूल्स लिमिटेड
57	6551	असोका बैटरी लिमिटेड
58	6716	भारत टैयर्स लिमिटेड
59	6724	शोलिंगर ग्रानैट्स प्रैवेट लिमिटेड
60	6903	अजन्ता टुरिसम डेवलेप्मेन्ट लिमिटेड
61	8051	मतुरै डिस्ट्रीक कुली रैस-फ़्लोर मिल होनर्स असोसियेशन स्टोर्स लिमिटेड
62	8480	सिम्ब्योटीक लबोरटोरिस प्रैवेट लिमिटेड
63	8578	गोल्ड स्टोन लाब्स लिमिटेड
64	8636	श्री सक्ती केरियर्स लिमिटेड
65	8792	एस & एस पेपर इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
66	8951	सिन्धुरी साफ़्टवेयर सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
67	8963	आर.जी. ओवरसीज़ लिमिटेड
68	9009	डिडवानिया मेरकन्टैल को लिमिटेड
69	9710	ज्हाना ग्लास वर्क्स लिमिटेड
70	9801	के सी आर शिपिंग कम्पनी लिमिटेड
71	10030	गोमुकी काट्टन मिल्स लिमिटेड
72	10055	फोर्ट एजेन्सीस प्रैवेट लिमिटेड
73	10364	पान्डिचेरी प्लास्टिक्स लिमिटेड
74	10475	इण्डो-टान लिमिटेड
75	10654	रोव्सिंग वॉलास इण्डरनेशनल लिमिटेड
76	10792	असोसियेटेड जेर्नल्स (मद्रास) लिमिटेड
77	11005	धनलक्ष्मी फाँडेशन इण्डिया लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
78	11263	कोरमण्डेल शूस लिमिटेड
79	11299	टेस्कोनिक्स लिमिटेड
80	11448	विलप्पेर फिशरिस लिमिटेड
81	11508	आन्डाल इन्जीनियर्स एण्ड कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
82	11549	येस बिसिनेस फैनान्स कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
83	11909	टवर्स एण्ड स्ट्रक्चुरेल्स प्रैवेट लिमिटेड
84	11917	नॉर्टन पालिमर्स लिमिटेड
85	12285	सहायी फिशरिस प्रैवेट लिमिटेड
86	12700	काड़ मशीन्स लिमिटेड
87	12783	जेयप्रिया होल्डिंग्स लिमिटेड
88	13013	बि.एम. इलक्द्रानिक्स प्रैवेट लिमिटेड
89	13034	जियो दर्मल्स (इण्डिया) लिमिटेड
90	13047	वेल्कम अलाईस प्रैवेट लिमिटेड
91	13050	एल-विन टेक्नोकाफ्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
92	13058	ब्रेन मशीन पेपर्स प्रैवेट लिमिटेड
93	13064	जियो रियल एस्टेट प्रैवेट लिमिटेड
94	13077	डेल्टा सीफुड प्रैवेट लिमिटेड
95	13078	जोसाचित मरैन प्रैवेट लिमिटेड
96	13086	असोका पालि पेक प्रैवेट लिमिटेड
97	13100	तमिलनाडु टुरिसम इण्टरनेशनल रिसार्ट्स लिमिटेड
98	13103	हालीवुड द्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड
99	13107	हैद्रा मरैन वेंचुर्स प्रैवेट लिमिटेड
100	13109	राना होटल्स प्रैवेट लिमिटेड
101	13111	वीनस मेटल इण्डस्ट्रीस प्रैवेट लिमिटेड
102	13113	मस्लीन वैयर प्रोडेक्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
103	13117	मदरलान्ड पिक्चेर्स प्रैवेट लिमिटेड
104	13262	समुद्रीका द्रावलर लिमिटेड
105	13266	नहर & नहर फैनान्स लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
106	13367	तमिलनाडु एक्सपोर्ट प्रासेस्सर्स लिमिटेड
107	13478	पिल्को ग्लास कम्पनी लिमिटेड
108	13521	पेलस सी फुड्स प्राैवेट लिमिटेड
109	13527	सुहैल एक्सपोर्ट्स प्राैवेट लिमिटेड
110	13528	स्टान्फोर्ड फार्मा प्राैवेट लिमिटेड
111	13534	सौफलो प्राडेक्ट्स प्राैवेट लिमिटेड
112	13566	कोमला एक्सपोर्ट्स प्राैवेट लिमिटेड
113	13567	बैनरी बिसिनेस मशीन्स प्राैवेट लिमिटेड
114	13568	स्वर्णा चिट्स (मद्रास) प्राैवेट लिमिटेड
115	13596	तमिलनाडु बिल्डर्स फैनान्स लिमिटेड
116	13682	कयुन क्लोशर्स प्राैवेट लिमिटेड
117	13794	शिव कुमार स्टील प्राैवेट लिमिटेड
118	14117	इण्डियन रायल सिमेन्ट्स लिमिटेड
119	14125	भारत होशन एयिट्स लिमिटेड
120	14192	नेल्लै सिवगिरि केमिकल्स प्राैवेट लिमिटेड
121	14298	अग्रो हान्डी पेक्स प्राैवेट लिमिटेड
122	14681	बुल्मेन लेदर्स प्राैवेट लिमिटेड
123	14925	वॉटन शूस प्राैवेट लिमिटेड
124	14951	एस पी इन्जीनियर्स प्राैवेट लिमिटेड
125	14965	श्री पॉवरमेन इलेक्ट्रीकल्स प्राैवेट लिमिटेड
126	14967	केएनएस सिवम इणवेस्टमेन्ट & फैनान्स प्राैवेट लिमिटेड
127	14971	सिटीवेयर अप्पेरल्स प्राैवेट लिमिटेड
128	14977	जिशान इम्पोर्ट एण्ड एक्सपोर्ट कम्पनी प्राैवेट लिमिटेड
129	14979	मिकॉय इलेक्ट्रानिक्स प्राैवेट लिमिटेड
130	14986	सिबी एक्सपोर्ट्स प्राैवेट लिमिटेड
131	15044	सिवप्रकासम शू अप्पर्स प्राैवेट लिमिटेड
132	15164	मालेक शूस लिमिटेड
133	15168	सन्द्स्ट फैनान्स प्राैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
134	15208	हिट्टा विशन प्रैवेट लिमिटेड
135	15363	आईएमईएल इणवेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
136	15389	आईएमई हैयर परचेस लिमिटेड
137	15537	श्रीसन इणवेस्टमेन्ट एण्ड मनेजमेन्ट सर्वीसेस लिमिटेड
138	15681	अरुणा मारुतै होटल्स लिमिटेड
139	15777	तमिलनाडु मेडिकल इक्युपमेन्ट्स लिमिटेड
140	15874	अल्फा इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
141	15976	किल्फर्न स्टार्टस लिमिटेड
142	16313	राम मारुती फैनान्स प्रैवेट लिमिटेड
143	16921	अरुणा फुड्स लिमिटेड
144	18168	पॉम्ग्रोव एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
145	18434	मालिन ब्रिक्स प्रैवेट लिमिटेड
146	18571	आरसी होल्डिंग्स लिमिटेड
147	18613	एयर एशियाटिक लिमिटेड
148	18623	आस्मा प्रोपर्टीस प्रैवेट लिमिटेड
149	18715	गोल्डन नेट्स लिमिटेड
150	18953	सोनिया अग्रो प्रैवेट लिमिटेड
151	18994	सिकॉन इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड
152	19275	स्टरलिंग निद्रो केमिकल लिमिटेड
153	19295	अट्लान्टा फुड्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड
154	19299	माग्रो होटल्स लिमिटेड
155	19599	प्रिया मिडिया क्रियेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
156	19905	कण्मणी हैप्पचेर्स फैनान्स लिमिटेड
157	19919	स्वॉन ट्रान्सपोर्ट्स लिमिटेड
158	19981	तेलुंगपट्टी श्री पगवतीयम्न टेक्सटाइल्स लिमिटेड
159	20150	अराफत गारमेन्ट्स लिमिटेड
160	20421	श्रीराम प्लाट्स प्रैवेट लिमिटेड
161	20624	मनार होल्डिंग्स लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
162	20701	सन-अलुमिनियम् एक्ट्रुशन लिमिटेड
163	20785	तमिलनाडु अग्रो पॉवर लिमिटेड
164	20797	नियो लेदर्स लिमिटेड
165	20883	जे.एल.नारायणा असोसियेट्स लिमिटेड
166	21227	हार्बिट् क्रेडिट्स लिमिटेड
167	21254	वीन्नर टेक्सटैल्स लिमिटेड
168	21319	तियागु कणस्टरक्शन्स एण्ड रियल एस्टेट्स लिमिटेड
169	21403	होम डेवलेप्मेन्ट आफ इण्डिया लिमिटेड
170	21410	चन्द्रा स्पोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
171	21457	श्री साय स्पिन्निंग मिल्स लिमिटेड
172	21538	माक्स-इण्डिया कम्प्युटर्स लिमिटेड
173	21681	श्री लक्ष्मी सुन्दरम् स्पिन्नेर्स प्रैवेट लिमिटेड
174	21761	पेन्गुयिन मार्केटिंग लिमिटेड
175	21775	लक्ष्मी स्वीज फुरुट पल्प प्रोसेसिंग कम्पनी लिमिटेड
176	21839	एक्सपोमरैन इन्टीग्रेटेड सीफूड्स लिमिटेड
177	21925	कुरिंची रिसार्ट्स लिमिटेड
178	21926	आरवीएस हौसिंग डेवलेप्मेन्ट लिमिटेड
179	22071	शिवराज् पब्लिकेशन लिमिटेड
180	22092	चेन्नई अग्रो-टेक एण्ड स्टोन्स लिमिटेड
181	22169	नाडा पब्लिकेशन लिमिटेड
182	22258	सेन्तूर मेटास्ट्रीप्स लिमिटेड
183	22314	आर.के. आरुम् (इण्डिया) लिमिटेड
184	22614	अग्नी कम्प्युनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
185	22629	अकुबा केमिकल प्राजेक्ट्स लिमिटेड
186	22650	स्टरलिंग डैरक्टोरिस लिमिटेड
187	22756	पेरफेक्ट काट्टन लिमिटेड
188	22757	पेरफेक्ट मरैन प्रोडेक्ट्स लिमिटेड
189	22792	सदर्ण मुशरुम्स लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
190	22934	अरुणा मुनोत एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
191	22951	रामनाथ द्वि गुरुप लिमिटेड
192	22990	दया सोप्स लिमिटेड
193	23192	औसिंध एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
194	23274	फिन्नोर पप्लीशर्स लिमिटेड
195	23327	रियल ग्रोत फैनान्शियल सर्वीसेस लिमिटेड
196	23345	येस्पी सी फुड इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
197	23516	रियल गॉर्डनसिटी एस्टेट्स लिमिटेड
198	23698	पार्थसरती टेक्सटाइल्स लिमिटेड
199	23833	रंगा & रंगा फैनान्शियल कणसल्टेन्ट्स लिमिटेड
200	23944	केएमएस आईल्स & एक्सट्राक्शन्स इण्डिया लिमिटेड
201	24013	नेल्लै कट्टबोम्मन सिमेन्ट्स लिमिटेड
202	24094	फ्रेंच एयर केरियर्स इण्डरनेशनल लिमिटेड
203	24159	ट्रेन्ड पेपर मिल्स लिमिटेड
204	24205	दिनिटी कणस्ट्रक्शन्स (मद्रास) लिमिटेड
205	24235	आरसी फैनान्शियल एण्ड मेनेजमेन्ट सर्वीसेस प्रैवेट लिमिटेड
206	24503	टवर इणवेस्टमेन्ट्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
207	24789	बि.एस.सुपर अलाईस प्रैवेट लिमिटेड
208	24890	युतयम् फैनान्शियल सर्वीसेस (इण्डिया) लिमिटेड
209	25028	मनोशांती फिल्मस लिमिटेड
210	25328	सउत ईस्ट टेक्नोलाजी लिमिटेड
211	25330	राधा मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड
212	25483	शिवास हारगानिक्स एण्ड अलैड केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
213	25695	धनलक्ष्मी फेरो अलाईस लिमिटेड
214	25835	मेगास्टार युटिलिटीस लिमिटेड
215	26013	चिन्न-गुरु एयर्तमुवर्स प्रैवेट लिमिटेड
216	26067	केस्टरिंग हारचिट्स इण्डिया लिमिटेड
217	26084	स्वर्णा चिट्स (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
218	26125	मगम् हौसिंग इण्डिया लिमिटेड
219	26161	पियर्लसिटी कम्प्युटर एण्ड ग्राफिक प्रैवेट लिमिटेड
220	26264	इन्नोवेशन लेदर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
221	26349	राम-रोम साफ्टवेयर लिमिटेड
222	26424	भारत क्रेडिट रेटिंग एजेन्सी लिमिटेड
223	26525	ईश्वर ग्रो टेक लिमिटेड
224	26564	फेन्टास्टीक प्लान्टेन्स प्रैवेट लिमिटेड
225	26668	अच्युता फिन्लीस (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड
226	26794	डेल्टा अक्वाकल्चर लिमिटेड
227	26795	एक्सएल ग्रानैट्स (इण्डिया) लिमिटेड
228	26963	ज्योति सेक्युरिटीस लिमिटेड
229	27028	नीरजास लेक्सपोर्ट्स लिमिटेड
230	27097	प्रोप्स फैनान्शियल & अडवैसरी सर्वीसेस (मद्रास) प्रैवेट लिमिटेड
231	27184	जे.जे.आई. एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
232	27188	एन.एस.ए. एक्सपोर्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड
233	27269	एमकेएन सिलिंडर लैन्स प्रैवेट लिमिटेड
234	27284	पुगलान्दी फैनान्स एण्ड इणवेस्टमेन्ट्स (इण्डिया) लिमिटेड
235	27325	मेसु अक्वा फाम्स एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
236	27358	टाप सीड अग्रो लिमिटेड
237	27436	अद्विया काटस्पिन इण्डिया लिमिटेड
238	27513	एन.ए.नवनीदम प्रोजेक्ट कणसल्टेन्ट्स लिमिटेड
239	27590	शांप्लास्ट इन्नोवेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
240	27633	मिस्ट फाम्स & एस्टेट्स लिमिटेड
241	27786	इन्नोवेशन टेलीफिल्म्स लिमिटेड
242	27787	इन्नोवेशन अग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
243	28056	राज बालाजी फिल्म्स प्रैवेट लिमिटेड
244	28133	सुप्रभात फाम्स एण्ड रिसार्ट्स लिमिटेड
245	28299	सफ्फेयर अक्वा (इण्डिया) लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
246	28314	पिच्चीईस ईक्युप्मेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
247	28338	ग्लोबल रेनिवबिल एनर्जी टेक्नोलाजीस लिमिटेड
248	28354	केटिपी सिलिंडर लैनर्स प्रैवेट लिमिटेड
249	28453	कषीरा इम्पेक्स लिमिटेड
250	28525	सेल टेक कम्युनिकेशन्स इण्डिया लिमिटेड
251	28554	सउतईस्ट हट्चेरिस प्रैवेट लिमिटेड
252	28623	स्वॉन सेक्युरिटीस एण्ड इणवेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
253	28641	धर्मा लेदर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
254	28771	शा टेड केटिड्स लिमिटेड
255	28879	रवी रोप्स लिमिटेड
256	29192	मचिनकास्ट फौंड्रीस प्रैवेट लिमिटेड
257	29231	सिवसुधा फैनान्शियल सरवीसेस लिमिटेड
258	29359	ग्लोब सिरामिक्स लिमिटेड
259	29479	मदरलान्ड प्लान्टेशन्स & काट्टल रिसार्ट्स इण्डिया लिमिटेड
260	29516	मणिकाफ्ट स्टाक & शेयर्स लिमिटेड
261	29560	नीमेक्स इण्डिया लिमिटेड
262	29580	स्नेहाम् अग्रो इण्डस्ट्री एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
263	29650	पेनिन्सुला अक्वाफाम्स लिमिटेड
264	29691	भन्डारी फोटो फिल्म्स (इण्डिया) लिमिटेड
265	29702	मेक्सिमा फाम्स & रिसार्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
266	29703	मेक्सिमा कणस्ट्रक्शन कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
267	29718	ईबिएफ स्टाक्स & सेक्युरिटीस लिमिटेड
268	29803	जेयराम फुलोरिकल्चेर इण्डो-हाल्लान्ड लिमिटेड
269	30097	टाप टवर्स इण्डिया लिमिटेड
270	30126	श्रीसन्स फैनान्शियल सरवीसेस लिमिटेड
271	30157	रुबी जेम्टेक्स इण्डिया लिमिटेड
272	30165	मीटेक इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
273	30214	कवीणी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
274	30405	बी डी बिल्डर्स लिमिटेड
275	30455	मेगनम हेवी इंक्युपेन्ट्स लिमिटेड
276	30537	ग्लोबल ई-सिस्टेम्स लिमिटेड
277	30598	गलेक्सी एयरवेस लिमिटेड
278	30643	ईस्ट इण्डिया लेदर्स लिमिटेड
279	30746	श्री लक्ष्मी मिनरल्स & एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
280	30818	ट्रिशुल अग्रो-लैवस्टाक रॉच लिमिटेड
281	30848	रॉयल लेदर हौस प्रैवेट लिमिटेड
282	31189	जीवन हौसिंग लिमिटेड
283	31246	सणभाव फार्म्स फाउण्ड रिसार्च लिमिटेड
284	31311	श्री चक्रा हौसिंग फैनान्स एण्ड डेवलेपमेन्ट लिमिटेड
285	31315	अस्ट्रो ड्रक एण्ड फार्मा लिमिटेड
286	31342	एएलपी हैटेक इन्फरमेशन लिमिटेड
287	31347	अल्मेटल रिसैक्लेर्स प्रैवेट लिमिटेड
288	31348	चिट्टा इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
289	31358	कोतारी ओरियन्ट इणवेस्टमेन्ट्स लिमिटेड
290	31436	संचना कणस्ट्रक्शन्स लिमिटेड
291	31470	हैटेक सिलिन्डर्स इण्डिया लिमिटेड
292	31500	कान्टेक सरवीसेस & एजेन्सीस प्रैवेट लिमिटेड
293	31565	फिशिछर इणस्ट्रुमेन्ट्स लिमिटेड
294	31572	कोरमण्डेल अब्रेसिव & डेमण्ड टूल्स लिमिटेड
295	31573	एएलपी अग्रो प्राडेक्ट्स लिमिटेड
296	31680	आरएसएल गोल्डन शेल्टर्स लिमिटेड
297	31699	माप्ले केमिकल्स एण्ड फार्माचुटिकल्स लिमिटेड
298	31704	लॉम्ब्रे हट्चेरी लिमिटेड
299	31728	बर्गर टेक्सटाइल्स लिमिटेड
300	31742	जेन्वेल कण्ट्रोल्स लिमिटेड
301	31751	अबिलाशा फुलोरिकल्चेर एण्ड अग्रोटेक लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
302	31761	विजय स्पॉन प्राडेक्ट्स लिमिटेड
303	31765	क्लासिक कम्प्युटर सरवीसेस लिमिटेड
304	31816	ईडिएस कणसल्टेन्सी लिमिटेड
305	31822	मुख्ता सिलिकान इमेजस लिमिटेड
306	31907	चेट्टीनाड फैनान्शियल सरवीसेस लिमिटेड
307	31943	श्री माणिकक्वल्ली चिट् फण्ड्स प्रैवेट लिमिटेड
308	31958	श्रीस्टा लबोरटोरिस लिमिटेड
309	31964	मामेक्स इटालिया शू काम्प लिमिटेड
310	32062	मोयिन्माज कणस्ट्रक्शन्स लिमिटेड
311	32177	ओएफएस इन्जीनियरिंग प्रैवेट लिमिटेड
312	32213	अन्बु बिसिनेस होल्डिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
313	32230	पुस्टा होल्डिंग्स लिमिटेड
314	32312	येन्डीलेक्स वेजीआईल लिमिटेड
315	32425	जेय श्रीलक्ष्मी अग्रो फॉम्स & इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
316	32462	पूका गार्मेन्ट्स एण्ड फेलेवर्स लिमिटेड
317	32471	जीरॉन फैनान्शियल सरवीसेस लिमिटेड
318	32478	जेबी ग्रानैट्स एण्ड मिनरेल्स लिमिटेड
319	32499	मैनाक्स गैसेस लिमिटेड
320	32654	अल्बिना बिल्डर्स लिमिटेड
321	32709	फेडिलिटी पॉवर एण्ड लैट् लिमिटेड
322	32724	होम्टेक इन्टीग्रेटेड फाम्स (इण्डिया) लिमिटेड
323	32734	एपीटी टीवी लिमिटेड
324	32806	हवेन इणवेस्टमेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
325	32825	गुरुचरण इम्पेक्स लिमिटेड
326	32841	स्टेटस फैनान्शियल सरवीसेस लिमिटेड
327	32853	गोल्डन हारवेस्ट फाम् & एक्सपोर्ट लिमिटेड
328	32869	डे एण्ड नैट् मरैन प्राडेक्ट्स लिमिटेड
329	32896	होम टेक हौसिंग फैनान्स लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
330	32925	डी डी फाम्स लिमिटेड
331	32936	केन्फाम् इण्डिया एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
332	33434	सारदी स्पिनिंग मिल्स लिमिटेड
333	33450	मुरुगन सिमेन्ट्स लिमिटेड
334	33462	गामा कम्प्युटर्स सर्विसेस ऐ लिमिटेड
335	33525	वेंसकी होटल्स इण्डिया लिमिटेड
336	33686	मुत्तु अग्रो फाम्स लिमिटेड
337	33695	श्रीस्टी असेट्स एण्ड होल्डिंग्स लिमिटेड
338	33747	अन्शु मल्टीमिडिया साफ्टवेयर लिमिटेड
339	33778	अस्मिता सेक्युरिटीस लिमिटेड
340	33823	स्नेहाम कणस्ट्रक्शन्स लिमिटेड
341	33851	एम आर के क्लब्स & होटल्स लिमिटेड
342	33977	एसके रियल एस्टेट्स लिमिटेड
343	33988	सुप्रीम अवियेशन लिमिटेड
344	33998	धर्मा रॉच लिमिटेड
345	34024	नहर हारचेड्स लिमिटेड
346	34035	माक्सवोर्ट एस्टेट्स लिमिटेड
347	34055	ऐश्वर्यम् एयरलैन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
348	34174	मॉडर्न हेल्थ केयर लिमिटेड
349	34197	सन्नीधी प्रापरटीस लिमिटेड
350	34248	क्लीफ इन्फो टेक्नोलाजीस लिमिटेड
351	34279	इन्दुमाल फैनान्शियल सर्विसेस लिमिटेड
352	34303	रिचीस & क्लीफ कणस्ट्रक्शन लिमिटेड
353	34318	चेन्नई हौसिंग लिमिटेड
354	34331	बोस इण्डियन हौसिंग लिमिटेड
355	34353	रिचीस & क्लीफ होटल्स & रिसार्ट्स लिमिटेड
356	34365	स्टार इण्डिया सटिलैट सिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड
357	34454	जेराम अग्री टेक लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
358	34478	ऐजीजीए साफ्टवेयर्स लिमिटेड
359	34483	ग्रामेक प्रोपरटीस लिमिटेड
360	34530	सम्युक्ता कणसल्टेन्सी & मारकेटिंग लिमिटेड
361	34617	अस्तीटीक क्रियेटर्स एण्ड बिल्डर्स प्रैवेट लिमिटेड
362	34628	इमेज स्टील्स लिमिटेड
363	34634	श्री राजेन्द्रा मल्टीप्लेयर एण्ड जेनरल क्रेडिट लिमिटेड
364	34780	वल्लवण प्रोपरटीस लिमिटेड
365	34783	डिजिटल आडियो इण्डिया लिमिटेड
366	34799	हाप्पी, इन् लिमिटेड
367	34807	पान प्लान्टेशन्स एण्ड एस्टेट्स लिमिटेड
368	34827	एक्सक्यूसैट शू लिमिटेड
369	34937	श्री सिद्धी गनपती कणस्ट्रक्शन्स लिमिटेड
370	34951	सुरभी फार्म्स एण्ड रिसार्ट्स लिमिटेड
371	35017	एच बी एम फाउंडेशन्स लिमिटेड
372	35132	मर्लेचा फैनान्स लिमिटेड
373	35186	यका मापॉवर कणसल्टेन्ट्स एण्ड ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड
374	35203	कौन्डिण्या इन्जीनियरिंग प्रैवेट लिमिटेड
375	36431	प्रेवेश इन्जीनियर्स प्रैवेट लिमिटेड
376	36607	श्री स्कन्दन स्टाक्स एण्ड सरवीसेस लिमिटेड
377	36864	एशिया टेक्नोलाजीस लिमिटेड
378	36876	हाप्पी इन् कणस्ट्रक्शन प्रैवेट लिमिटेड
379	37100	ईस्ट कोस्ट केबिल इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
380	37155	प्रिस्टैन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड
381	37226	अय्वा इण्डस्ट्रीस लिमिटेड
382	37235	इन्दसाट टेक्नोलाजीस लिमिटेड
383	37411	डिवैन हैलान्ड लिमिटेड
384	37465	कास्टल्कोट इण्डिया लिमिटेड
385	37485	कोडैक्कानल हार्चिड्स लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
386	37760	कल्ब्रास पॉवर लिमिटेड
387	37973	होयेसिस आठोमेशन सिस्टेम्स एण्ड इन्फरमेशन साफ्टवेयर लिमिटेड
388	38220	भानुमदी अप्पेलन्सेस लिमिटेड
389	38368	वृच्चू अडवरडैसिंग लिमिटेड
390	39012	स्वरम् एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
391	39602	चेन्नई ब्योस्कोप लिमिटेड
392	40071	रिसोर्स इन्फोटेक (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
393	40090	अलगर ब्योटेक प्रैवेट लिमिटेड
394	40109	बोरा मोटोर्स प्रैवेट लिमिटेड
395	40147	मेलिन फारिन एक्सचेयिज कम्पनी लिमिटेड
396	40243	काड काम टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
397	40261	गुडकेयर ब्योमेडिकल प्रैवेट लिमिटेड
398	40295	टेलीबैट इलेक्ट्रानिक्स प्रैवेट लिमिटेड
399	40308	यूद फैनान्शियल सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
400	40532	नम फिशरी एण्ड सी केमिकल्स लिमिटेड
401	40583	टेरा प्रिन्टेक प्रैवेट लिमिटेड
402	40714	विक्टी टूर्स एण्ड ट्रावल्स प्रैवेट लिमिटेड
403	40786	टैटानिक होम अप्लायन्स लिमिटेड
404	40840	निद्धियसन्दोश सिमेन्ट्स लिमिटेड
405	40879	मेरटान एन्टरप्राइसेस (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
406	40899	हिमयम् कम्प्युटर प्रैवेट लिमिटेड
407	40984	इन्टर ग्लोबल ट्रावल & कार्गो प्रैवेट लिमिटेड
408	41274	टिफीन'स गज्जलकोन्डा मिनरल्स लिमिटेड
409	41343	सुकदेव अडवरडैसिंग सर्विसेस लिमिटेड
410	41457	इन्टेल्नेट मल्टी मिडिया सर्विसेस प्रैवेट लिमिटेड
411	41605	मोरवेल रेमिडीस लिमिटेड
412	41836	युनिकू सोल्युशन्स लिमिटेड
413	41837	सुकदेव प्रोपरटी डेवलेपर्स एण्ड कणस्ट्रक्शन्स लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
414	41973	पवीद्रा पेईन्ट्स लिमिटेड
415	41993	अरुणा बिबेरिजीस प्रैवेट लिमिटेड
416	42088	एडनेट ग्लोबल कणसल्टिंग (इण्डिया) लिमिटेड
417	42091	लाकराम एक्सपोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
418	42099	वैगै इन्टरनेट प्रैवेट लिमिटेड
419	42101	अग्नी सेक्युरिटी एण्ड डिटेक्टीव ब्यूरो प्रैवेट लिमिटेड
420	42114	टीएसआरएम वोल्डवैड ट्रेडिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
421	42134	मेल्वी इन्फोसाफ्ट प्रैवेट लिमिटेड
422	42138	येस्सेस डिटेक्टीव ब्यूरो प्रैवेट लिमिटेड
423	42161	श्री लक्ष्मी इन्जट्रेडिंग प्रैवेट लिमिटेड
424	42201	सेन्टरपॉइंट कम्युनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
425	42203	शाधि फुड्स प्रैवेट लिमिटेड
426	42213	एडजटेक इन्जीनियर्स प्रैवेट लिमिटेड
427	42215	रस्जेल एक्सपोर्ट्स & इम्पोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
428	42251	बब्बेल टाप ट्रेडर्स प्रैवेट लिमिटेड
429	42270	पोल्कार प्रोटेक प्रैवेट लिमिटेड
430	42337	मनसरोवर भूमी अग्रो फियुल्स प्रैवेट लिमिटेड
431	42341	गोल्डन एक्सपोर्ट्स & इम्पोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
432	42458	रासी ब्योटेक प्रैवेट लिमिटेड
433	42490	अलकिय मण्डबम् मेर्वीन फैनान्स लिमिटेड
434	42671	अश्वीन बियरिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
435	42968	के.ए.एम.इब्राहिम फुड प्राडेक्ट्स लिमिटेड
436	44211	नेटलाजिक टेक्नोलाजीस लिमिटेड
437	44227	विल्सन ओवरसीज ट्रेडिंग प्रैवेट लिमिटेड
438	44628	के.एफ.कणस्युमर मारकेटिंग एजेन्सी प्रैवेट लिमिटेड
439	44764	एवरट्रान्त शिपिंग सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
440	44833	इम्हार ईटीएल सोल्युशन्स लिमिटेड
441	45039	एनरग्रीन पॉवर लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
442	45061	डी-सैन साफ्टवेयर सोल्युशन लिमिटेड
443	45594	ऐजीस डिजिटल लबोरट्रीस प्रैवेट लिमिटेड
444	45908	होन्चो टेक्नोलाजीस लिमिटेड
445	45972	प्रिमियरस्कम्मर मोट्टार कम्पनी लिमिटेड
446	46099	सन्शोन कास्टिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
447	46868	पेट्टीट् डिजैनर डिकाल्स लिमिटेड
448	46925	युनि-केयर एस्टेट्स & मारकेटिंग लिमिटेड
449	47215	ट्रैठान एग प्राडेक्ट्स लिमिटेड
450	47253	किंग्सले ट्रेडिंग एण्ड प्राजेक्ट्स लिमिटेड
451	47443	अद्विया इन्फोमिडिया सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
452	47474	मास्मिडिया ईकाम सरवीसेस लिमिटेड
453	47829	बिबिसी कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड
454	48023	लनास वॉहना लिमिटेड
455	48329	एसजे कम्प्युटेक नेटवोर्क्स प्रैवेट लिमिटेड
456	48592	अक्सेस नेटवोर्क्स (इ) प्रैवेट लिमिटेड
457	48855	जीट् टेक्नोलाजीस लिमिटेड
458	48942	अद्रेया होल्डिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
459	49187	एक्सीकेम फार्माचुटिकल्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
460	49204	एसडीवी टेक्नोलाजीस लिमिटेड
461	49242	एल् शाट्टै कम्युनिकेशन्स सरवीसेस लिमिटेड
462	49409	झागन 3 ननोटेक लिमिटेड
463	49515	अनुपा सेल्स & मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड
464	49567	सेवण हिल्स दीम पार्क्स लिमिटेड
465	49671	स्मार्ट इन्टीग्रेटेड सोल्युशन प्रैवेट लिमिटेड
466	50529	प्रोटेक यूपिएस (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
467	50927	वोल्ड क्लास कास्मेटिक्स लिमिटेड
468	50984	विवा बियुटी & हेल्थ केयर लिमिटेड
469	51239	मेरील आफिसटैगर इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
470	54002	जायस बिसिनेस सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
471	54003	इन्कोर टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
472	54004	ओएमएल शिपिंग एजेन्सी प्रैवेट लिमिटेड
473	54007	कणसल्टबेर्ग सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
474	54012	ग्रो एन रिच इणवेस्टमेन्ट कणसल्टेन्सी सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
475	54027	पल्पप् टेक्नोलाजीस लिमिटेड
476	54029	विजयलक्ष्मी फुड्स प्रैवेट लिमिटेड
477	54037	रंची इलेक्ट्रानिक्स प्रैवेट लिमिटेड
478	54039	वेलवण इन्जीनियरिंग प्रैवेट लिमिटेड
479	54045	श्रीला प्रभुपदा फाम्स प्रैवेट लिमिटेड
480	54046	नागराजा फौंडेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
481	54400	रापिड ब्रेन अबाकस अकादमी प्रैवेट लिमिटेड
482	54401	रॉय मेम्मेन्स एण्ड एस्सेल एचआरडी ट्रेनिंग (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
483	54402	रडियन्स टेक्नोलाजी सोल्युशन्स & रिसर्च प्रैवेट लिमिटेड
484	54406	गोल्डन रिच मारकेटिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
485	54411	सबी फुड्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
486	54415	बालिका एयर सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
487	54416	त्रीसिक्सटी टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
488	54418	एएसटीआर प्रासेसिंग सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
489	54419	सन वाणिला प्लान्टेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
490	54420	कालू बाजार इन्फो मिडिया प्रैवेट लिमिटेड
491	54423	ऐडेंटिटी इमेज & मिडिया कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
492	54425	एएनएस कार्गो सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
493	54431	युरोलैफ वोल्डवैड लिमिटेड
494	54433	एपीटी मान्पॉवर रिसोर्स प्रैवेट लिमिटेड
495	54438	एआरसी एन्जल शिपिंग प्रैवेट लिमिटेड
496	54439	कौशा अग्रो केमिकल्स प्रैवेट लिमिटेड
497	54443	एचएमएस टापस्टार इन्जीनियरिंग प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
498	54453	क्रिया सकती एन्टरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
499	54454	श्री उदय नारायणा द्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
500	54456	वी एम एस टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
501	54464	डिस्कावर श्रीलंका & तायलॉन्ड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड
502	54467	एस3 सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
503	54468	प्रिमियर इन्फो सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
504	54469	एन-टेक ईक्युप्मेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
505	54479	हिलिक्स फरनिचर प्राइवेट लिमिटेड
506	54495	केएलआर एक्सीम (चेन्नई) प्राइवेट लिमिटेड
507	54496	इन्फोजोन टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
508	54497	सिद्धार्धा रूरल विद्यालय लिमिटेड
509	54500	निकॉय ग्रयुन्ड हन्डलिंग सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड
510	54503	विजयम् एयर द्रावल प्राइवेट लिमिटेड
511	54508	जीमाक्स हयुटसोर्सिंग प्राइवेट लिमिटेड
512	54512	मुत्तु मीना हेल्थ केयर सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड
513	54514	एस आर एस कण्टेनर प्राइवेट लिमिटेड
514	54516	जेनिफा विशन प्राइवेट लिमिटेड
515	54518	श्री वेंकी प्रोविशन्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
516	54530	वीएम डेकोपेनल मलेशिया प्राइवेट लिमिटेड
517	54535	श्री श्रीणिवासा सेक्युरिटी सरवीसेस प्राइवेट लिमिटेड
518	54545	इण्डियन सिक्रेट डिटेक्टीव कौंसिल प्राइवेट लिमिटेड
519	54546	अक्षया सिस्टेम्स एण्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
520	54549	प्रोक्युर रेमिडीस प्राइवेट लिमिटेड
521	54550	स्कैलैन शिपिंग लैन्स प्राइवेट लिमिटेड
522	54555	रुद्रा फाँडेशन प्राइवेट लिमिटेड
523	54561	टफ़ गार्ड साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
524	54565	क्रियेटिव प्लानेट प्राइवेट लिमिटेड
525	54570	जेनिसिस मोबाईल एक्सेल प्राइवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
526	54573	दीर्क्कार्युश इन्सुरेंस एण्ड मारकेटिंग सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
527	54576	अस्सेंट साफ्टवेक कणसल्टेन्सी प्रैवेट लिमिटेड
528	54577	डेन्द्रो पॉवर कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
529	54580	शरोन अकादमी प्रैवेट लिमिटेड
530	54582	वणक्कम् मिडिया प्रैवेट लिमिटेड
531	54583	आरणी ट्रेडर्स प्रैवेट लिमिटेड
532	54592	श्री साय सेक्युरिटी सिस्टेम्स एण्ड अप्लेयन्सेस प्रैवेट लिमिटेड
533	54593	झीमी मोबईल साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
534	54594	पिनेटग्राफ मेनेजमेन्ट सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
535	54598	एक्सोडस इम्पेक्स सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
536	54600	अरुणचलास सउत गेट होटल प्रैवेट लिमिटेड
537	54601	सल्मास फारमुलेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
538	54603	लीडर्स लिजेन्डरी मारकेटिंग & सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
539	54608	एमराल्ड टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
540	54609	जास कनेक्ट सिस्टेम्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
541	54620	मारुती इण्डिया रियल्टी प्रैवेट लिमिटेड
542	54623	सेवणईगल्स साफ्टवेयर इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
543	54624	चुमाश साफ्टवेयर इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
544	54633	हुन्डॉय इण्डिया टेलिकॉम लिमिटेड
545	54636	एस.वी.टूर्स & ट्रावल्स (चेन्नई) प्रैवेट लिमिटेड
546	54638	पियर-1 शिपिंग एजेन्सीस प्रैवेट लिमिटेड
547	54639	प्रज्ञा मेनेजमेन्ट असोसियेट्स प्रैवेट लिमिटेड
548	54640	तमिलन टूर्स एण्ड ट्रावल्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
549	54642	जीयान्टीक वोल्ड मारकेटिंग प्रैवेट लिमिटेड
550	54645	जना एण्ड जेया इम्पेक्स प्रैवेट लिमिटेड
551	54652	वीनस बिसिनेस मेनेजमेन्ट कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
552	54654	वोल्ड ग्रट शिपिंग इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
553	54659	इन्डस फाम्स प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
554	54660	जीएस नेटवर्क्स (इण्डिया) प्रैवेट लिमिटेड
555	54665	अरुणमारी कणस्ट्रक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड
556	54669	लीडेर जैन मिनरल्स प्रैवेट लिमिटेड
557	54679	इन्डस ऐयन्स प्रैवेट लिमिटेड
558	54681	एम&एम अग्रोनोमिक्स प्रैवेट लिमिटेड
559	54685	बेसिटी टेक्नोलाजीस प्रैवेट लिमिटेड
560	54686	लेवन्ट ब्यो फार्मा प्रैवेट लिमिटेड
561	54700	सदर्ण इण्डिया सेक्युरिटी सर्वीसेस प्रैवेट लिमिटेड
562	54705	शुभकृती पेक्केजिंग प्रैवेट लिमिटेड
563	54707	अक्वा माक्यु मनुफेक्चुरिंग प्रैवेट लिमिटेड
564	54710	जास्को इण्डो ब्योटेक प्रैवेट लिमिटेड
565	54717	कीभाज एक्सपार्ट्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
566	54725	इन्नोवटीव विशुवल्स प्रैवेट लिमिटेड
567	54726	पन्चअग्नी एक्सपोर्ट्स एण्ड इम्पोर्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
568	54731	रेडसन एक्सीम प्रैवेट लिमिटेड
569	54734	फिक्सयूप इन्टरनेशनल प्रैवेट लिमिटेड
570	54737	श्री अरुणाचला बिल्डर्स प्रैवेट लिमिटेड
571	54745	एसकेके इन्जीनियरिंग प्रैवेट लिमिटेड
572	54753	ट्रान्स केयर ट्रान्सकण्शन्स प्रैवेट लिमिटेड
573	54761	अक्रोपोलिस एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
574	54764	पद्मराजम एजुकेशनल अकादमी प्रैवेट लिमिटेड
575	54769	सी.डिनार रिसोर्सेस प्रैवेट लिमिटेड
576	54779	शांतोशी प्रापरटी डेवलेपर्स प्रैवेट लिमिटेड
577	54780	ज्ञान बाक्कीयम् अग्रो फार्म्स प्रैवेट लिमिटेड
578	54787	इण्डस ग्रीन अडवैसर्स प्रैवेट लिमिटेड
579	54789	एम.एस.आर. फोर्म्स प्रैवेट लिमिटेड
580	54793	श्रीमॉन रेमिडीस प्रैवेट लिमिटेड
581	54794	एक्सपर्ट्स आम्सफेर साफ्टवेयर प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
582	54798	सिलिकॉन हायिस्टर टेक्नोलाजीस प्राैवेट लिमिडेड
583	54799	हाक्फोर्ड सन्नैस इम्पेक्स प्राैवेट लिमिडेड
584	54800	डिसेंट एजुकेशनल सरवीसेस लिमिडेड
585	54804	ओएसटी फिल्मस प्राैवेट लिमिडेड
586	54807	के.एस.मणियम् स्पैसेस प्राैवेट लिमिडेड
587	54808	सुपर गिगा कम्प्युटर सिस्टेम्स प्राैवेट लिमिडेड
588	54815	हिसेंसार इण्डिया प्राैवेट लिमिडेड
589	54816	ट्रान्स सैबर सोल्युशन प्राैवेट लिमिडेड
590	54820	निर्मला फुड प्राडेक्ट्स प्राैवेट लिमिडेड
591	54821	जेडिआर एन्टरप्राैसेस प्राैवेट लिमिडेड
592	54822	सलाकोर्न (इण्डिया) प्राैवेट लिमिडेड
593	54825	छिल्पा एक्सपोर्ट्स & सरवीसेस प्राैवेट लिमिडेड
594	54826	सत्या सी फुड एक्सपोर्ट्स प्राैवेट लिमिडेड
595	54828	आईक्यूए टेस्टर सरवीसेस प्राैवेट लिमिडेड
596	54829	नन्दा असोसियेट्स प्राैवेट लिमिडेड
597	54830	हल्दा पियूर केमिकल्स प्राैवेट लिमिडेड
598	54832	सिनेर्जी फुड रिसोर्सेस एक्सपोर्ट्स प्राैवेट लिमिडेड
599	54836	अरिस एडु एण्ड ट्रेड अस्सेस्मेन्ट सरवीसेस प्राैवेट लिमिडेड
600	54838	एनएच 23 वील लाजिस्टीक्स प्राैवेट लिमिडेड
601	54843	श्री अय्यनार केमिकल्स प्राैवेट लिमिडेड
602	54845	टूलैफ मारकेटिंग प्राैवेट लिमिडेड
603	54846	दौरुस सीशेल्स & हान्डीकाफ्ट्स प्राैवेट लिमिडेड
604	54852	जे आर एम होटल्स प्राैवेट लिमिडेड
605	54853	चानक्या लाजिस्टीक्स प्राैवेट लिमिडेड
606	54858	एवरग्रीन मूवी इण्डिया प्राैवेट लिमिडेड
607	54861	प्रिम्सोर्स इन्जीनियर्स प्राैवेट लिमिडेड
608	54869	ग्लोटेक्स साफ्टवेयर डेवलपमेन्ट प्राैवेट लिमिडेड
609	54871	रिक मारकेटिंग प्राैवेट लिमिडेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
610	54873	एरियल नेटवर्क सोल्युशन प्रैवेट लिमिटेड
611	54882	रॉभी टेक्नोलाजी प्रैवेट लिमिटेड
612	54886	स्वर्गा चित्रा फिल्म्स प्रैवेट लिमिटेड
613	54891	इन्टीग्रेटेड वाट्टर टेक्नोलाजीस (चेन्नई) प्रैवेट लिमिटेड
614	54894	श्री कृष्णा लाजिस्टीक्स & सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
615	54896	इन्फो क्वेस्ट कम्युनिकेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
616	54899	एक्सेल्सीयर साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
617	54904	पारिस डकनेर ब्योटेक प्रैवेट लिमिटेड
618	54905	एज़ पॉवर सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
619	54912	श्री साय सुधरशिनी अकादमी प्रैवेट लिमिटेड
620	54919	एम्पेस ओवरसीज़ ट्रेडिंग प्रैवेट लिमिटेड
621	54920	सदर्ण मेडिकेम प्रैवेट लिमिटेड
622	54925	रूद फ़ैड्ट सिस्टेम्स प्रैवेट लिमिटेड
623	54927	न्युटन इन्फ्रास्टेक्चुर कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
624	54929	फ़ाडनेट कणवेरजेन्स प्रैवेट लिमिटेड
625	54932	मैलस्टोन मेनेजमेन्ट कणसल्टेन्ट्स प्रैवेट लिमिटेड
626	54940	है-जी लाब्स प्रैवेट लिमिटेड
627	54941	श्री सक्ती प्रोडेक्शन्स प्रैवेट लिमिटेड
628	54950	प्रोफ़इल ट्राक कणसल्टेन्सी प्रैवेट लिमिटेड
629	54952	एक्ससीएमजी इन्जीनियरिंग प्रैवेट लिमिटेड
630	54955	हयग्रीवा लाजीस्टीक्स & मान्पॉवर प्रैवेट लिमिटेड
631	54956	अन्मोल इस्टन्ट फुड्स प्रैवेट लिमिटेड
632	54960	चेन्नई मेमरी फेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
633	54962	नूक 'एन' कॉर्नेर सरवीसेस प्रैवेट लिमिटेड
634	54968	केएमपिटी टेक्नोलाजी प्रैवेट लिमिटेड
635	54969	इयर्द & स्कै कणसल्टेन्सी प्रैवेट लिमिटेड
636	54980	डाल्फिन स्पेशालिटी कोटिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
637	54981	एसजे2 साफ्ट प्रैवेट लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
638	54984	फैन्सी4डी टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड
639	54991	आईटेक ट्रेडिंग इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
640	54993	गुडशैन एयर ट्रावल्स प्राइवेट लिमिटेड
641	54994	मॉरण कबिटल मैनेजमेन्ट & सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
642	54995	अल्टीयस नेटवर्क्स लिमिटेड
643	54996	आठोवे टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
644	54999	चित्रा अनन्दन फाउंडेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
645	55000	जेकेबी आरगानिक्स प्राइवेट लिमिटेड
646	55111	के.पी.एम. प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
647	55305	है-ब्रेट मेडिकेयर इक्विपमेन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
648	55892	पोलार आर्कीटेक्चरल फाउंडेशन लिमिटेड
649	58323	गावत्री कॉपोरेट सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
650	58327	कॉप्पर-एडज टेक्नोलाजी सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
651	59182	ए.आर.साफ्टवेयर सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
652	59284	आइस्मार्ट मार्केटिंग सर्वीसेस प्राइवेट लिमिटेड
653	60426	कान्वास बिसिनेस कणसल्टिंग (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड
654	60551	मिडास टूच एन्टरटेनर्स प्राइवेट लिमिटेड
655	62847	इन्फिनेट प्रिंटिंग सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
656	66353	एबीएच रिसर्च एण्ड सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
657	66577	आय्लान्ड ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
658	67435	बीच्ना नेट सोल्युशन्स प्राइवेट लिमिटेड
659	67447	टैम स्कोयर डिस्ट्रीपाक्स प्राइवेट लिमिटेड
660	67492	एनई हौसिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
661	67657	आइ मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
662	67770	ई.सी.बुक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
663	68305	3डी एजेन्सीस प्राइवेट लिमिटेड
664	68392	रेडमान्ड हास्पिटैलिटीस प्राइवेट लिमिटेड
665	68599	सउतसैड अवीयेशन लिमिटेड

क्रम संख्या	कम्पनी नम्बर	कम्पनी का नाम
666	68647	ग्रीन सी हौसिंग प्रैवेट लिमिटेड
667	68754	भुवण एस्टेट्स प्रैवेट लिमिटेड
668	68781	ओरिंगामी पेक्केजिंग्स प्रैवेट लिमिटेड
669	69270	एनई रूरल सप्पेलै चैयिन प्रैवेट लिमिटेड
670	69305	प्रोक्वाल् गरेज इक्युप्मेन्ट मणुफेक्चुरिंग कम्पनी प्रैवेट लिमिटेड
671	69327	कईलो मारकेटिंग एण्ड कणसल्टिंग सरवीस प्रैवेट लिमिटेड
672	70843	हरिशवर फौंडेशन्स प्रैवेट लिमिटेड
673	70974	एफएमवी प्रमोटर्स प्रैवेट लिमिटेड
674	70981	बैङ्गप्रिन्ट्स टेक्नालाजीस इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
675	71573	सरवीसबे एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
676	73187	वेल्यु सेवर्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
677	73293	सारा मैनिंग प्रैवेट लिमिटेड
678	73343	ऐडियाप्रो इलेक्ट्रानिक सोल्युशन्स प्रैवेट लिमिटेड
679	73636	अर्मान फौंडेशन्स इण्डिया प्रैवेट लिमिटेड
680	73832	प्रिमियर हेल्थ केयर डैक्नास्टिक प्रैवेट लिमिटेड
681	74137	निकोस एन्टरप्राइसेस प्रैवेट लिमिटेड
682	74252	क्रियडोर रिटैल प्रैवेट लिमिटेड
683	74308	पार्ककौर्स सेक्युरिटीस प्रैवेट लिमिटेड
684	74505	आर वी के इन्जीनियरिंग प्रैवेट लिमिटेड
685	74963	वीज ई सोल्युशन प्रैवेट लिमिटेड

वी. सी. दवे
कम्पनी रजिस्ट्रार
तमिलनाडु

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 31st December 2011

Examination Notice No. : 03/2012.NDA.I

(Last Date for Receipt of Applications : 30.01.2012)

NATIONAL DEFENCE ACADEMY &
NAVAL ACADEMY EXAMINATION (I), 2012(Commission's Website <http://www.upsc.gov.in>)

F. No. 7/2/2011 E.I (B)—An Examination will be conducted by the Union Public Service Commission on 15th April, 2012, for admission to the Army, Navy and Air Force wings of the NDA for the 129th Course and for the 91st Indian Naval Academy Course (INAC) commencing from December, 2012. The candidates Joining Indian Naval Academy would undergo 4 years B. Tech. Course and would be given an opportunity to join Executive and Technical Branches of the Navy subject to availability of vacancies.

The approximate number of vacancies to be filled on the results of this examination will be 335 [195 for the Army, 39 for Navy, 66 for the Air Force and 35 for the Indian Naval Academy (10+2 Cadet Entry Scheme)].

Vacancies are provisional and may be changed depending on the availability of training capacity of National Defence Academy.

N.B. (i) A candidate is required to specify clearly in the Online Application Form the Services for which he wishes to be considered in the order of his preference [1 to 4]. He is also advised to indicate as many preferences as he wishes to opt so that having regard to his rank in the order of merit due consideration can be given to his preferences when making appointments.

(ii) Candidates should note that they will be considered for appointment to those services only for which they express their preferences and for no other service(s). No request for addition/alteration in the preferences already indicated by a candidate in his application will be entertained by the Commission.

(iii) Admission to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by the Services Selection Board of candidates who qualify in the written examination.

2. CENTRES OF EXAMINATION :

The Examination will be held at the following Centres :

Agartala, Ahmedabad, Aizawl, Allahabad, Bangalore, Bareilly, Bhopal, Chandigarh, Chennai, Cuttack, Dehradun, Delhi, Dharwad, Dispur, Gangtok, Hyderabad, Imphal, Itanagar, Jaipur, Jammu, Jorhat, Kochi, Kohima, Kolkata, Lucknow, Madurai, Mumbai, Nagpur, Panaji (Goa), Patna, Port Blair, Raipur, Ranchi, Sambalpur, Shillong, Shimla, Srinagar, Thiruvananthapuram, Tirupati, Udaipur and Vishakhapatnam.

The centres and the date of holding the examination as mentioned above are liable to be changed at the discretion

of the Commission. While every effort will be made to allot the candidates to the centre of their choice for examination, the Commission may, at their discretion, allot a different centre to a candidate, when circumstances so warrant. Candidates admitted to the examination will be informed of the time table and place or places of examination.

Candidates should note that no request for change of centre will normally be granted. When a candidate, however, desires a change in centre from the one he had indicated in his Application Form for the Examination, he must send a letter addressed to the Controller of Examinations, Union Public Service Commission, giving full justification as to why he desires a change in centre. Such requests will be considered on merits but requests received after 29th February, 2012 will not be entertained under any circumstances.

3. CONDITIONS OF ELIGIBILITY :

(a) Nationality : A candidate must either be :

(i) a citizen of India, or

(ii) a subject of Bhutan, or

(iii) a subject of Nepal, or

(iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African Countries of Kenya, Uganda, the United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia or Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (ii), (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

(b) Age Limits, Sex and Marital Status :

Only unmarried male candidates born not earlier than 2nd January, 1994 and not later than 1st July, 1996 are eligible.

The date of birth accepted by the Commission is that entered in the Matriculation or Secondary School Leaving Certificate or in a certificate recognised by an Indian University as equivalent to Matriculation or in an extract from a Register of Matriculates maintained by a University which must be certified by the proper authority of the University or in the Higher Secondary or an equivalent examination certificates. These certificates are required to be submitted only after the declaration of the result of the written part of the examination. No other document relating to age like horoscopes, affidavits, birth extracts from Municipal Corporation, service records and the like will be accepted. The expression Matriculation/Higher Secondary

Examination Certificate in this part of the instruction includes the alternative certificates mentioned above.

NOTE 1 : Candidates should note that only the date of birth as recorded in the Matriculation/Higher Secondary Examination Certificate available or an equivalent certificate on the date of submission of applications will be accepted by the Commission and no subsequent request for its change will be considered or granted.

NOTE 2 : Candidates should also note that once a date of birth has been claimed by them and entered in the records of the Commission for the purpose of admission to an Examination, no change will be allowed subsequently or at any subsequent examination on any ground whatsoever.

NOTE 3 : The candidates should exercise due care while entering their date of birth in the respective column of the Online Application Form for the Examination. If on verification at any subsequent stage any variation is found in their date of birth from the one entered in their Matriculation or equivalent Examination certificate, disciplinary action will be taken against them by the Commission under the Rules.

NOTE 4 : Candidates must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application though successful at this or any subsequent Examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government.

(c) Educational Qualifications :

(i) For Army Wing of National Defence Academy :—12th Class pass of the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination conducted by a State Education Board or a University.

(ii) For Air Force and Naval Wings of National Defence Academy and for the 10+2 Cadet Entry Scheme at the Indian Naval Academy :—12th Class pass of the 10+2 pattern of School Education or equivalent with Physics and Mathematics conducted by a State Education Board or a University.

Candidates who are appearing in the 12th Class under the 10+2 pattern of School Education or equivalent examination can also apply for this examination.

Such candidates who qualify the SSB interview but could not produce Matriculation/10+2 or equivalent certificate in original at the time of SSB interview should forward the certificates alongwith photocopies thereof to 'Addl. Directorate General of recruiting, Army HQ, West Block.III, R.K. Puram, New Delhi.110 066' and for Naval Academy candidates to 'Naval Headquarters, DMPR, OI&R Section, Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi.110011' by 5th December, 2012 failing which their candidature will be cancelled. All other candidates who have produced their Matriculation and 10+2 pass or equivalent certificates in original at the time of attending the SSB interview and have got the same verified by the SSB authorities are not required

to submit the same to Army HQ or Naval HQ as the case may be. Certificates in original issued by the Principals of the Institutions are also acceptable in cases where Boards/ Universities have not yet issued certificates. Certified true copies/photostat copies of such certificates will not be accepted.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE 1 : Candidates appearing in the 11th class exam are not eligible for this examination.

NOTE 2 : Those candidates who have yet to qualify in the 12th class or equivalent examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the 12th class or equivalent examination by the prescribed date (i.e. 5th December, 2012) and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of Board/University Examination, delay in declaration of results or any other ground whatsoever.

NOTE 3 : Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

NOTE 4 : Those candidates who have failed INSB/PABT earlier are not eligible for Air Force.

(d) Physical Standards :

Candidates must be physically fit according to physical standards for admission to National Defence Academy and Naval Academy Examination (I), 2012 as per guidelines given in Appendix.II.

(e) A candidate who has resigned or withdrawn on disciplinary Grounds from any of the training academies of Armed Forces is not eligible to apply.

4. FEE :

Candidates (excepting SC/ST candidates/sons of JCOs/NCOs/ORs specified in Note 2 below, who are exempted from payment of fee) are required to pay a fee of Rs. 50/ (Rupees Fifty only) either by remitting the money in any Branch of SBI by cash or by using net banking facility of State Bank of India, State Bank of Bikaner & Jaipur/State Bank of Hyderabad/State Bank of Mysore/State Bank of Patiala/State Bank of Travancore or by using Visa/Master Credit/Debit Card.

For the applicants in whose case payments details have not been received from the bank they will be treated as fictitious payment cases and a list of all such applicants shall be made available on the Commission website within

two weeks after the last day of submission of online application. These applicants shall also be intimated through e.mail to submit copy of proof of their payment to the Commission at the address mentioned in the e.mail. The applicant shall be required to submit the proof within 10 days from the date of such communication either by hand or by speed post to the Commission. In case, no response is received from the applicant their application shall be summarily rejected and no further correspondence shall be entertained in this regard.

Note.1 : Candidates belonging to Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and those specified in Note 2 below are not required to pay any fee. No fee exemption is, however, available to OBC candidates and they are required to pay the full prescribed fee.

Note.2 : The sons of serving/ex Junior Commissioned Officers/Non.Commissioned Officers/Other Ranks of Army and equivalent ranks in the Indian Navy/India Air Force are also not required to pay the prescribed fee if they are studying in Military School (formerly known as King George's School)/Sainik School run by Sainik Schools Society. [Note : A certificate of eligibility for fee exemption is required to be obtained by all such candidates from the Principals concerned individually and produced for verification at the time of SSB Test/interview by the candidates who are declared qualified for the SSB Test/interview].

Note.3 : No claim for a refund of fee once paid to the Commission will be entertained nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection.

5. HOW TO APPLY :

Candidates are required to apply Online by using the website <http://www.upsconline.nic.in> Detailed instructions for filling up online applications are available on the above mentioned website.

Note.1 : The applicants are advised to submit only single application; however if due to any unavoidable situation, if he submits another/multiple applications, then he must ensure that application with the higher RID is complete in all respects like applicants' details, examination centre, photograph, signature, fee etc. The applicants who are submitting multiple applications should note that only the applications with higher RID (Registration ID) shall be entertained by the Commission and fee paid against one RID shall not be adjusted against any other RID.

Note.2 : All candidates whether already in Government Service including candidates serving in the Armed Forces, Sailors (including boys and artificers apprentices) of the Indian Navy, Cadets of Rashtriya Indian Military College (previously known as Sainik School, Dehra Dun), Students of Military Schools formerly known as King George's Schools) and Sainik Schools run by Sainik Schools Society, Government owned industrial undertakings or other similar organizations or in private employment should apply direct to the Commission.

N.B. : (a) Persons already in Government Service, whether in permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees or those serving under the Public Enterprises; (b) Candidates serving in the Armed Forces, Sailors (including boys and artificers apprentices) of the Indian Navy; and (c) Cadets of Rashtriya Indian Military College (previously known as Sainik School, Dehra Dun), Students of Military Schools formerly known as King George's Schools) and Sainik Schools run by Sainik Schools Society are required to inform their Head of Office/Department, Commanding Officer, Principals of College/School concerned, as the case may be, in writing that they have applied for this examination.

Candidates should note that in case a communication is received by the Commission from their employer/authority concerned withholding permission to the candidates applying for/appearing at the examination, their applications will be liable to be rejected/candidatures will be liable to be cancelled.

NOTE 3 : WHILE FILLING IN THE APPLICATION FORM, THE CANDIDATE SHOULD CAREFULLY DECIDE ABOUT HIS CHOICE FOR THE CENTRE FOR THE EXAMINATION.

IF ANY CANDIDATE APPEARS AT A CENTRE OTHER THAN THE ONE INDICATED BY THE COMMISSION IN HIS ADMISSION CERTIFICATE, THE PAPERS OF SUCH A CANDIDATE WILL NOT BE VALUED AND HIS CANDIDATURE WILL BE LIABLE TO CANCELLATION.

NOTE 4 : APPLICATIONS WITHOUT THE PRESCRIBED FEE (UNLESS REMISSION OF FEE IS CLAIMED AS IN PARA 4 ABOVE) OR INCOMPLETE APPLICATIONS SHALL BE SUMMARILY REJECTED. NO REPRESENTATION OR CORRESPONDENCE REGARDING SUCH REJECTION SHALL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES. CANDIDATES ARE NOT REQUIRED TO SUBMIT ALONG WITH THEIR APPLICATIONS ANY CERTIFICATE IN SUPPORT OF THEIR CLAIMS REGARDING AGE, EDUCATIONAL QUALIFICATIONS, SCHEDULED CASTES/ SCHEDULED TRIBES/OTHER BACKWARD CLASSES AND FEE REMISSION ETC. THEY SHOULD THEREFORE, ENSURE THAT THEY FULFILL ALL THE ELIGIBILITY CONDITIONS FOR ADMISSION TO THE EXAMINATION. THEIR ADMISSION TO THE EXAMINATION WILL ALSO THEREFORE BE PURELY PROVISIONAL. IF ON VERIFICATION AT ANY LATER DATE IT IS FOUND THAT THEY DO NOT FULFILL ALL ELIGIBILITY CONDITIONS, THEIR CANDIDATURE WILL BE CANCELLED. THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION IS LIKELY TO BE DECLARED IN THE MONTH OF JULY, 2012.

ALL CANDIDATES CALLED FOR INTERVIEW MUST CARRY THEIR ORIGINAL MATRICULATION CERTIFICATE OR EQUIVALENT EXAMINATION CERTIFICATE TO THE SERVICES SELECTION BOARD (SSB). ORIGINALS WILL HAVE TO BE PRODUCED BY THE CANDIDATES WHO QUALIFY AT THE SSB

INTERVIEW SOON AFTER THE INTERVIEW. THE ORIGINALS WILL BE RETURNED AFTER VERIFICATION. THOSE CANDIDATES WHO HAVE ALREADY PASSED 10+2 EXAMINATION MUST CARRY THEIR ORIGINAL 10+2 PASS CERTIFICATE OR MARKS SHEET FOR THE SSB INTERVIEW. IF ANY OF THEIR CLAIMS IS FOUND TO BE INCORRECT THEY MAY RENDER THEMSELVES LIABLE TO DISCIPLINARY ACTION BY THE COMMISSION IN TERMS OF THE FOLLOWING PROVISIONS :

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of :

- (i) obtaining support for his candidature by any means, or
- (ii) impersonating, or
- (iii) procuring impersonation by any person, or
- (iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (v) making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or
- (vii) using unfair means during the examination, or
- (viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s), or
- (ix) misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (x) harassing or doing bodily harm to the Staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or
- (xi) being in possession of or using mobile phone, pager or any electronic equipment or device or any other equipment capable of being used as a communication device during the examination, or
- (xii) violating any of the instructions issued to candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination, or
- (xiii) attempting to commit or as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable :
 - (a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate and/or
 - (b) to be debarred either permanently or for a specified period :

- (i) by the Commission from any examination or selection held by them;
- (ii) by the Central Government from any employment under them; and
- (c) if he is already in service under Government to disciplinary action under the appropriate rules.

Provided that no penalty under this rule shall be imposed except after :—

- (i) giving the candidate an opportunity of making such representation, in writing as he may wish to make in that behalf; and
- (ii) taking the representation, if any, submitted by the candidate within the period allowed to him into consideration.

6. LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS :

The Online Applications can be filled upto 30th January, 2012 till 11.59 PM after which the link will be disabled.

7. CORRESPONDENCE WITH THE COMMISSION/ ARMY/NAVAL/AIR HEAD QUARTERS :

The Commission will not enter into any correspondence with the candidates about their candidature except in the following cases :

- (i) The eligible candidates shall be issued either a paper admission certificate or an e.admit card about three weeks before the commencement of the exam. The mode of e.admit card can be either through, e.mail (as provided by the applicant at the time of submission of application) or they may download from UPSC website.
- (ii) If a candidate does not receive his Admission Certificate e.admit card or any other communication regarding his candidature for the examination one week before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission. On receipt of such a communication, Admission Certificate e.admit card or a duplicate copy thereto will be issued to the admitted candidate. Information in this regard can also be obtained from the Facilitation Counter located in the Commission's Office either in person or over Phone Nos. 011-23385271/011-23381125/011-23098543. In case no communication is received in the Commission's Office from the candidate regarding non-receipt of his Admission Certificate e.admit card at least one week before the examination, he himself will be solely responsible for non-receipt of his Admission Certificate e.admit card. It may be noted that the Admission Certificate e.admit card will be issued at the address filled by him in his Online Application Form. The candidate should, therefore, ensure that the address given by him in the Application Form is correct and complete with pin code.

No candidate will ordinarily be allowed to take the examination unless he holds a certificate of admission for the examination. On receipt of Admission Certificate/e.admit card, check it carefully and bring discrepancies/errors, if any, to the notice of the UPSC immediately. The courses to which the candidates are admitted will be according to their eligibility as per educational qualifications for different courses and the preferences given by the candidates.

The candidates should note that their admission to the examination will be purely provisional based on the information given by them in the Application Form. This will be subject to verification of all the eligibility conditions.

- (iii) In the event of a candidate receiving more than one Admission Certificate/e.admit card from the Commission, he should use only one of these Admission Certificates/e.admit card for appearing in the examination and return the other(s) to the Commission's Office.
- (iv) If a candidate receives an Admission Certificate/e.admit card in respect of some other candidate on account of processing error, the same should be immediately returned to the Commission with a request to issue the correct Admission Certificate/e.admit card. Candidates may note that they will not be allowed to take the examination on the strength of an Admission Certificate/e.admit card issued in respect of another candidate.
- (v) The decision of the Commission as to the acceptance of the application of a candidate and his eligibility or otherwise for admission to the Examination shall be final.
- (vi) Candidates should note that the name in the Admission Certificate/e.admit card in some cases, may be abbreviated due to technical reasons.
- (vii) Candidates must ensure that their e.mail IDs given in their applications are valid and active.
- (viii) A candidate must see that communications sent to him at the address stated in his application are redirected, if necessary. Change in address should be communicated to the Commission at the earliest opportunity. Although the Commission make every effort to take account of such changes, they cannot accept any responsibility in the matter.

IMPORTANT : ALL COMMUNICATIONS TO THE COMMISSION SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS.

1. NAME AND YEAR OF THE EXAMINATION.
2. REGISTRATION ID (RID).
3. ROLL NUMBER (IF RECEIVED).
4. NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK LETTERS).

5. POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN THE APPLICATION.

N.B. (i) : COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

N.B. (ii) : IF A LETTER/COMMUNICATION IS RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN EXAMINATION HAS BEEN HELD AND IT DOES NOT GIVE HIS FULL NAME AND ROLL NUMBER, IT WILL BE IGNORED AND NO ACTION WILL BE TAKEN THEREON. CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMISSION FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLICATIONS FOR THE EXAMINATION SHOULD IMMEDIATELY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO :—

For candidates with Army as First choice—Army Headquarters, A.G's Branch, RTG (NDA Entry), West Block.III, Wing.1, R. K. Puram, New Delhi.110066, Phone No. 26175473.
For candidates with Navy/Naval Academy as first choice—Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment, OI&R Section, R. No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi.110011, Phone No. 23010097/23011282.

For candidates with Air Force as first choice—Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), Room No. 17, 'J' Block, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi.110011, Phone No. 23010231 Extn. No. 7081.

FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTER FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD.

Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board should address enquiries or requests, if any, relating to their interview or visit website of respective service headquarters after 20 days from the announcement of written results as follows :—

For candidates with Army as first choice—Army Headquarters, AG's Branch, RTG (NDA Entry), West Block III, Wing.1, R.K. Puram, New Delhi.110066, Phone No. 26175473 or www.joinindianarmy.nic.in

For candidates with Navy/Naval Academy as first choice—Naval Headquarters, Directorate of Manpower & Recruitment, R & R Section, Room No. 204, 'C' Wing, Sena Bhawan, New Delhi.110011, Phone No. 23010097/23011282 or www.nausenabharti.nic.in

For candidates with Air Force as first choice—Air Headquarters, Directorate of Personnel (Officers), PO 3 (A), Room No. 17, 'J' Block, Opp. Vayu Bhawan, Motilal Nehru Marg, New Delhi.110011, Phone No. 23010231 Extn. No. 7081/7082 or www.careerairforce.nic.in

Candidates are required to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up letter for interview. Requests for postponing interview will only be considered in exceptional circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army Headquarters will be the sole deciding authority. Such requests should be addressed to the Administrative Officer of the Selection Centre from where the call letter for interview has been received. No action will be taken on letters received by Army/Navy/Air HQs. SSB interview for the candidates qualified in the written examination will be held during the months of September/October, 2012 or as suitable to Recruiting Directorate.

8. ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSES OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES :

The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission at their discretion. Such candidates shall appear before a Services Selection Board for intelligence and Personality Test where candidates for the Army/Navy wings of the NDA and 10+2 Cadet Entry Scheme of Indian Naval Academy will be assessed on officers potentiality and those for the Air Force in Pilot Aptitude Test and for officers potentiality. PABT applicable to candidates with Air Force as First choice would also be conducted for all SSB qualified candidates with one of the choice as Air Force subject to their eligibility and if they are so willing.

TWO STAGE SELECTION PROCEDURE

Two Stage selection procedure based on Psychological Aptitude Test and Intelligence Test has been introduced at Selection Centres/Air Force Selection Boards. All the candidates will be put to stage one test on first day of reporting at Selection Centres/Air Force Selection Boards. Only those candidates who qualify at stage one will be admitted to the second stage/remaining tests. Those candidates who qualify stage II will be required to submit the Original Certificates along with one photocopy each of : (i) Original Matriculation pass certificate or equivalent in support of date of birth, (ii) Original 10+2 pass certificate or equivalent in support of educational qualification.

Candidates who appear before the Services Selection Board and undergo the test there, will do so at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Parents or guardians of the candidates will be required to sign a certificate to this effect.

To be acceptable, candidates for the Army/Navy/Naval Academy and Air Force should secure the minimum

qualifying marks separately in (i) Written examination as fixed by the Commission at their discretion and (ii) Officer Potentiality Test as fixed by the Services Selection Board at their discretion. Over and above candidates for the Air Force, and all the SSB qualified candidates as per their willingness, eligibility and preference for Air Force, should separately qualify the PABT.

Subject to these conditions the qualified candidates will then be placed in a single combined list on the basis of total marks secured by them in the Written Examination and the Services Selection Board Tests. The final allocation/selection for admission to the Army, Navy, Air Force of the National Defence Academy and 10+2 Cadet Entry Scheme of Indian Naval Academy will be made upto the number of vacancies available subject to eligibility, medical fitness and merit cum preference of the candidates. The candidates who are eligible to be admitted to multiple Services/Courses will be considered for allocation/selection with reference to their order or preferences and in the event of their final allocation/selection to one Service/Course, they will not be considered for admission to other remaining Services/Courses.

N. B. : EVERY CANDIDATE FOR THE AIR FORCE IS GIVEN PILOT APTITUDE TEST ONLY ONCE. THE GRADE SECURED BY HIM AT THE FIRST TEST WILL THEREFORE HOLD GOOD FOR EVERY SUBSEQUENT INTERVIEW HE HAS WITH THE AIR FORCE SELECTION BOARD. A CANDIDATE WHO FAILS IN THE FIRST PILOT APTITUDE TEST CANNOT APPLY FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY EXAMINATION FOR THE AIR FORCE WING OR GENERAL DUTIES (PILOT) BRANCH OR NAVAL AIR ARM.

Candidates who have been given the Pilot Aptitude Test for any previous N.D.A. course should submit their application for this examination for the Air Force Wing only if they have been notified as having qualified in the Pilot Aptitude Test.

The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success in the examination confers no right of admission to the Academy. A candidate must satisfy the appointing authority that he is suitable in all respects for admission to the Academy.

9. DISQUALIFICATION FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE :

Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, or to the 10 + 2 Cadet Entry Scheme of Indian Naval Academy but were removed therefrom for lack of officer-like qualities or on disciplinary grounds will not be admitted to the Academy.

Candidates who were previously withdrawn from the National Defence Academy or Indian Naval Academy on medical

grounds or left the above Academy voluntarily are however, eligible for admission to the Academy provided they satisfy the medical and other prescribed conditions.

10. NO REQUEST FOR WITHDRAWAL OF CANDIDATURE RECEIVED FROM A CANDIDATE AFTER HE HAS SUBMITTED HIS APPLICATION WILL BE ENTERTAINED UNDER ANY CIRCUMSTANCES.

11. The details regarding (a) the scheme and syllabus of the examination, (b) Physical standards for admission to the National Defence Academy and Naval Academy and (c) Brief particulars of the service etc., for candidates joining the National Defence Academy and Naval Academy are given in Appendices I, II and III respectively.

KULDEEP KUMAR SAHARAWAT
Deputy Secy.

APPENDIX I

(THE SCHEME AND SYLLABUS OF EXAMINATION)

A. SCHEME OF EXAMINATION

1. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :—

Subject	Code	Duration	Maximum Marks
Mathematics	01	2½ Hours	300
General	02	2½ Hours	600
Ability Test			
Total			900
SSB Test/Interview :			900

2. THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. THE QUESTION PAPERS (TEST BOOKLETS) OF MATHEMATICS AND PART "B" OF GENERAL ABILITY TEST WILL BE SET BILINGUALLY IN HINDI AS WELL AS ENGLISH.

3. In the question papers, wherever necessary, questions involving the metric system of Weights and Measures only will be set.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

6. The candidates are not permitted to use calculator or Mathematical or logarithmic table for answering objective type papers (Test Booklets). They should not therefore, bring the same inside the Examination Hall.

B. SYLLABUS OF THE EXAMINATION

PAPER-I

MATHEMATICS

(Code No. 01)

(Maximum Marks.300)

1. ALGEBRA

Concept of a set, operations on sets, Venn diagrams. De Morgan laws, Cartesian product, relation, equivalence relation.

Representation of real numbers on a line. Complex numbers—basic properties, modulus, argument, cube roots of unity. Binary system of numbers. Conversion of a number in decimal system to binary system and vice-versa. Arithmetic, Geometric and Harmonic progressions. Quadratic equations with real coefficients. Solution of linear inequations of two variables by graphs. Permutation and Combination. Binomial theorem and its applications. Logarithms and their applications.

2. MATRICES AND DETERMINANTS :

Types of matrices, operations on matrices. Determinant of a matrix, basic properties of determinants. Adjoint and inverse of a square matrix, Applications . Solution of a system of linear equations in two or three unknowns by Cramer's rule and by Matrix Method.

3. TRIGONOMETRY :

Angles and their measures in degrees and in radians. Trigonometrical ratios. Trigonometric identities Sum and difference formulae. Multiple and Sub-multiple angles. Inverse trigonometric functions. Applications . Height and distance, properties of triangles.

4. ANALYTICAL GEOMETRY OF TWO AND THREE DIMENSIONS :

Rectangular Cartesian Coordinate system. Distance formula. Equation of a line in various forms. Angle between two lines. Distance of a point from a line. Equation of a circle in standard and in general form. Standard forms of parabola, ellipse and hyperbola. Eccentricity and axis of a conic. Point in a three dimensional space, distance between two points. Direction Cosines and direction ratios. Equation of a plane and a line in various forms. Angle between two lines and angle between two planes. Equation of a sphere.

5. DIFFERENTIAL CALCULUS :

Concept of a real valued function—domain, range and graph of a function. Composite functions, one to one, onto and inverse functions. Notion of limit, Standard limits—examples. Continuity of functions—examples, algebraic operations on continuous functions. Derivative of function at a point, geometrical and physical interpretation of a derivative—applications. Derivatives of sum, product and quotient of functions, derivative of a function with respect

to another function, derivative of a composite function. Second order derivatives. Increasing and decreasing functions. Application of derivatives in problems of maxima and minima.

6. INTEGRAL CALCULUS AND DIFFERENTIAL EQUATIONS :

Integration as inverse of differentiation, integration by substitution and by parts, standard integrals involving algebraic expressions, trigonometric, exponential and hyperbolic functions. Evaluation of definite integrals—determination of areas of plane regions bounded by curves—applications.

Definition of order and degree of a differential equation, formation of a differential equation by examples. General and particular solution of a differential equations, solution of first order and first degree differential equations of various types—examples. Application in problems of growth and decay.

7. VECTOR ALGEBRA :

Vectors in two and three dimensions, magnitude and direction of a vector. Unit and null vectors, addition of vectors, scalar multiplication of a vector, scalar product or dot product of two vectors. Vector product or cross product of two vectors. Applications—work done by a force and moment of a force and in geometrical problems.

8. STATISTICS AND PROBABILITY :

Statistics : Classification of data, Frequency distribution, cumulative frequency distribution—examples. Graphical representation—Histogram, Pie Chart, frequency polygon—examples. Measures of Central tendency—Mean, median and mode. Variance and standard deviation—determination and comparison. Correlation and regression.

Probability : Random experiment, outcomes and associated sample space, events, mutually exclusive and exhaustive events, impossible and certain events. Union and Intersection of events. Complementary, elementary and composite events. Definition of probability—classical and statistical—examples. Elementary theorems on probability—simple problems. Conditional probability, Bayes' theorem—simple problems. Random variable as function on a sample space. Binomial distribution, examples of random experiments giving rise to Binominal distribution.

PAPER.II

GENERAL ABILITY TEST

(Code No. 02)

(Maximum Marks.600)

Part 'A'—ENGLISH

(Maximum Marks.200)

The question paper in English will be designed to test the candidate's understanding of English and workman like use of words. The syllabus covers various aspects like : Grammar and usage, vocabulary, comprehension and

cohesion in extended text to test the candidate's proficiency in English.

Part 'B'—GENERAL KNOWLEDGE

(Maximum Marks.400)

The question paper on General Knowledge will broadly cover the subjects : Physics, Chemistry, General Science, Social Studies, Geography and Current Events.

The syllabus given below is designed to indicate the scope of these subjects included in this paper. The topics mentioned are not to be regarded as exhaustive and questions on topics of similar nature not specifically mentioned in the syllabus may also be asked. Candidate's answers are expected to show their knowledge and intelligent understanding of the subject.

Section 'A' (Physics)

Physical Properties and States of Matter, Mass, Weight, Volume, Density and Specific Gravity, Principle of Archimedes, Pressure Barometer.

Motion of objects, Velocity and Acceleration, Newton's Laws of Motion, Force and Momentum, Parallelogram of Forces, Stability and Equilibrium of bodies, Gravitation, elementary ideas of work, Power and Energy.

Effects of Heat, Measurement of Temperature and Heat, change of State and Latent Heat, Modes of transference of Heat.

Sound waves and their properties, Simple musical instruments.

Rectilinear propagation of Light, Reflection and refraction. Spherical mirrors and Lenses, Human Eye.

Natural and Artificial Magnets, Properties of a Magnet, Earth as a Magnet.

Static and Current Electricity, conductors and Non.conductors, Ohm's Law, Simple Electrical Circuits, Heating, Lighting and Magnetic effects of Current, Measurement of Electrical Power, Primary and Secondary Cells, Use of X.Rays.

General Principles in the working of the following :

Simple Pendulum, Simple Pulleys, Siphon, Levers, Balloon, Pumps, Hydrometer, Pressure Cooker, Thermos Flask, Gramophone, Telegraphs, Telephone, Periscope, Telescope, Microscope, Mariner's Compass; Lightning Conductors, Safety Fuses.

Section 'B' (Chemistry)

Physical and Chemical changes. Elements, Mixtures and Compounds, Symbols, Formulae and simple Chemical Equations, Law of Chemical Combination (excluding problems). Properties of Air and Water.

Preparation and Properties of Hydrogen, Oxygen, Nitrogen and Carbondioxide, Oxidation and Reduction.

Acids, bases and salts.

Carbon—different forms.

Fertilizers—Natural and Artificial.

Material used in the preparation of substances like Soap, Glass, Ink, Paper, Cement, Paints, Safety Matches and Gun.Powder.

Elementary ideas about the structure of Atom, Atomic Equivalent and Molecular Weights, Valency.

Section 'C' (General Science)

Difference between the living and non.living.

Basis of Life—Cells, Protoplasm and Tissues.

Growth and Reproduction in Plants and Animals.

Elementary knowledge of Human Body and its important organs.

Common Epidemics, their causes and prevention.

Food—Source of Energy for man. Constituents of food, Balanced Diet.

The Solar System—Meteors and Comets, Eclipses.

Achievements of Eminent Scientists.

Section 'D' (History, Freedom Movement etc.)

A broad survey of Indian History, with emphasis on Culture and Civilisation.

Freedom Movement in India.

Elementary study of Indian Constitution and Administration.

Elementary knowledge of Five Year Plans of India.

Panchayati Raj, Co.operatives and Community Development.

Bhoodan, Sarvodaya, National Integration and Welfare State, Basic Teachings of Mahatma Gandhi.

Forces shaping the modern world; Renaissance, Exploration and Discovery; War of American Independence. French Revolution, Industrial Revolution and Russian Revolution. Impact of Science and Technology on Society. Concept of one World, United Nations, Panchsheel, Democracy, Socialism and Communism. Role of India in the present world.

Section 'E' (Geography)

The Earth, its shape and size. Latitudes and Longitudes, Concept of time. International Date Line. Movements of Earth and their effects.

Origin of Earth. Rocks and their classification; Weathering—Mechanical and Chemical, Earthquakes and Volcanoes.

Ocean Currents and Tides.

Atmosphere and its composition; Temperature and Atmospheric Pressure, Planetary Winds, Cyclones and Anti.cyclones; Humidity; Condensation and Precipitation;

Types of Climate, Major Natural regions of the World.

Regional Geography of India—Climate, Natural vegetation. Mineral and Power resources; location and distribution of agricultural and Industrial activities.

Important Sea ports and main sea, land and air routes of India. Main items of Imports and Exports of India.

Section 'F' (Current Events)

Knowledge of Important events that have happened in India in the recent years.

Current important world events.

Prominent personalities—both Indian and International including those connected with cultural activities and sports.

NOTE :

Out of maximum marks assigned to part 'B' of this paper, questions on Sections 'A', 'B', 'C', 'D', 'E' and 'F' will carry approximately 25%, 15%, 10%, 20%, 20% and 10% weightages respectively.

Intelligence and Personality Test

In addition to the interview the candidates will be put to Intelligence Tests both verbal and non.verbal, designed to assess their basic intelligence. They will also be put to Group Tests such as group discussions, group planning, outdoor group tasks, and asked to give brief lectures on specified subjects. All these tests are intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also his social traits and interests in current affairs.

APPENDIX-II

GUIDELINES FOR PHYSICAL STANDARDS FOR ADMISSION TO THE NATIONAL DEFENCE ACADEMY.

NOTE : CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY AND MENTALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STANDARDS. THE GUIDELINES FOR THE SAME ARE GIVEN BELOW.

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. CANDIDATES ARE THEREFORE ADVISED IN THEIR OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

Candidates are also advised to rectify minor defects/ailments in order to speed up finalisation of medical examination conducted at the Military Hospital after being recommended at the SSB.

Few of such commonly found defects/ailments are listed below :

(a) Wax (Ears)

(b) Deviated Nasal Septum

- (c) Hydrocele/Phimosis
- (d) Overweight/Underweight
- (e) Under Sized Chest
- (f) Piles
- (g) Gynaecomastia
- (h) Tonsillitis
- (i) Varicocele

Civilian candidates appearing for all types of commission in the Armed Forces will be entitled to outpatients treatment from service sources at public expense for injuries sustained or diseases contracted during the course of their examination by the Selection Board. They will also be entitled to inpatient treatment at public expense in the Officer's ward of a hospital provided—

- (a) the injury is sustained during the tests or,
- (b) the disease is contracted during the course of the examination by selection board and there is no suitable accommodation in local civil hospital or it is impracticable to remove the patient to the civil hospital; or,
- (c) the medical board requires the candidate's admission for observation.

NOTE : They are not entitled to special nursing.

A candidate recommended by the Services Selection Board will undergo a medical examination by a Board of Service Medical Officers. Only those candidates will be admitted to the academy who are declared fit by the Medical Board. The proceedings of the Medical Board are confidential and will not be divulged to anyone. However, the candidates declared unfit will be intimated by the President of the Medical Board and the procedure for request for an Appeal Medical Board will also be intimated to the candidate.

Candidates declared unfit during Appeal Medical Board will be intimated about the provision of Review Medical Board.

- (a) The candidate must be in good physical and mental health and free from any disease/disability which is likely to interfere with the efficient performance of Military duties.

- (b) There should be no evidence of weak constitution, bodily defects or under weight. The Candidate should not be over weight or obese.

- (c) The minimum acceptable height is 157.5 cms. (162.5 cms. for Air Force). For Gorkhas and individuals belonging to hills of North.Eastern regions of India, Garhwal and Kumaon, the minimum acceptable heights will be 5 cms. less. In case of candidates from Lakshadweep the minimum

acceptable height can be reduced by 2 cms. Height and weight standards are given below :

HEIGHT/WEIGHT STANDARDS FOR ARMY/AIR FORCE

TABLE.I

Height in Centimetres (Without shoes)	Weight in Kgs.		
	16.17 years	17.18 years	18.19 years
152	42.5	44.0	45.0
155	43.5	45.3	47.0
157	45.0	47.0	48.0
160	46.5	48.0	49.0
162	48.0	50.0	51.0
165	50.0	52.0	53.0
167	51.0	53.0	54.0
170	52.5	55.0	56.0
173	54.5	57.0	58.0
175	56.0	59.0	60.0
178	58.0	61.0	62.0
180	60.0	63.0	64.5
183	62.5	65.0	66.5

HEIGHT/WEIGHT STANDARDS FOR NAVY

TABLE.II

Height in Centimetres (Without shoes)	Weight in Kgs.		
	16 years	18 years	20 years
152	44	45	46
155	45	46	47
157	46	47	49
160	47	48	50
162	48	50	52
165	50	52	53
168	52	53	55
170	53	55	57
173	55	57	59
175	57	59	61
178	59	61	62
180	61	63	64
183	63	65	67

A \pm 10% (A \pm 6 Kg for Navy) departure from the average weight given in the Table I above is to be considered within normal limit. However, in individuals with heavy bones and broad built as well as individuals with thin build but otherwise healthy this may be relaxed to some extent on merit.

NOTE 1 : Height relaxable upto 2.5 cm. (5 cm. for Navy) may be allowed where the Medical Board certifies that the candidate is likely to grow and come up to the required standard on completion of his training.

NOTE 2 : To meet special requirement as a pilot in the Air Force the acceptable measurements of leg length, thigh length and sitting height will be as under :—

	Minimum	Maximum
Leg Length	99.00 cms.	120.00 cms.
Thigh Length	—	64.00 cms.
Sitting Height	81.50 cms.	96.00 cms.

On account of lower age of NDA candidates, a margin of upto 5.0 cm. in height, 2.5 cm. in leg length (minimum) and 1.0 cm. sitting height (minimum) may be given provided it is certified by the Medical Board that the candidate is likely to grow and come upto the required standard on completion of his training in NDA.

- (d) Chest should be well developed. Fully expanded chest should not be less than 81 cms. The minimum range of expansion after full inspiration should be 5 cms. The measurement will be taken with a tape so adjusted that its lower edge should touch the nipple in front and the upper part of the tape should touch the lower angle of the shoulder blades behind. X-Ray of the chest is compulsory and will be taken to rule out any disease of the chest.

- (e) There should be no maldevelopment or impairment of function of the bones or joint.

Spinal Conditions

- (f) Past medical history of diseases or injury of the spine or sacro iliac joints, either with or without objective signs which have prevented the candidate from successfully following a physically active life, is a cause for rejection for commissioning in IAF. History of spinal fracture/prolapsed intervertebral disc and surgical treatment for these conditions will entail rejection. The following conditions detected radiologically during medical exam will disqualify a candidate for Air Force service :

- (i) Granulomatous disease of spine
- (ii) Arthritides/spondylosis
 - Rheumatoid arthritis and allied disorders
 - Ankylosing spondylitis
 - Osteoarthritis, spondylosis and degenerative joint disease

- Non articular rheumatism (e.g. lesions of the rotator cuff, tennis elbow, recurrent lumbago etc.)
- Miscellaneous disorders including SLE, dermatomyositis, polymyositis, vasculitis.

- (iii) Spondylolisthesis/spondylolysis.
 - (iv) Compression fracture of vertebrae.
 - (v) Scheuerman's disease (Adolescent kyphosis)
 - (vi) Loss of cervical lordosis when associated with clinically restricted movements of cervical spine.
 - (vii) Unilateral/Bilateral cervical ribs with demonstrable neurological or circulatory deficit.
 - (viii) Scoliosis more than 15 degree as measured by Cobb's method.
 - (ix) Herniated nucleus pulposus.
 - (x) Presence of schmorl's nodes at more than one level.
 - (xi) Atlanto-occipital and atlantoaxial anomalies.
 - (xii) Hemi vertebrae and/or incomplete block (fused) vertebrae at any level in cervical, dorsal or lumbar spine and complete block (fused) vertebrae at more than one level in cervical or dorsal spine.
 - (xiii) Unilateral Sacralisation or lumbarisation (Complete or incomplete) at all levels and bilateral incomplete sacralisation or lumbarisation.
 - (xiv) Any other abnormality if so considered by the specialist.
- (g) Mild Kyphosis or Lordosis where deformity is barely noticeable and there is no pain or restriction of movement will not preclude acceptance.
- (h) In case of noticeable Scoliosis or suspicion of any other abnormality or spinal deformity, more than mild, appropriate X-rays of the spine are to be taken and the Examinee referred for specialist's advice.
- (i) The following conditions detected on X-ray examination will be disqualifying for entry to Armed Forces :
- (i) Granulomatous disease of spine.
 - (ii) Arthritides/spondylosis
 - (iii) Scoliosis more than 15 degree as measured by Cobb's Method (10 degree for Army).
 - (iv) More than mild Kyphosis/Lordosis
 - (v) Spondylolisthesis/Spondylosis.
 - (vi) Herniated nucleus pulposes.
 - (vii) Compression fracture of Vertebra.

- (viii) Sacralisation Disease
- (ix) Cervical ribs with demonstrable neurological or Circulatory deficit.
- (x) Presence of Schmorl's node at more than one level.
- (xi) Atlanto.occipital and atlanto.axial anomalies.
- (xii) Incomplete Sacralisation Unilateral or Bilateral
- (xiii) Spinabifida other than SV 1 and LV 5
- (xiv) Any other abnormality, if so considered by specialist.
- (j) A candidate should have no past history of mental breakdown or fits.
- (k) The hearing should be normal. A candidate should be able to hear a forced whisper with each ear at a distance of 610 cms. in a quiet room. There should be no evidence of present or past disease of the ear, nose and throat. Audiometric test will be done for AF. Audiometric loss should not exceed + 20 db in frequencies between 250Hz and 4000 Hz. There is no impediment of speech.
- (l) There should be no signs of functional or organic disease of the heart and blood vessels. Blood pressure should be normal.
- (m) There should be no enlargement of liver or spleen. Any evidence of disease of internal organs of the abdomen will be a cause for rejection.
- (n) Un.operated hernias will make a candidate unfit. In case of Hernia which has been operated, a minimum of 6 months must have passed prior to final medical examination before commencement of the course.
- (o) There should be no hydrocele, varicocele or piles.
- (p) Urine examination will be done and any abnormality if detected will be a cause for rejection.
- (q) Any disease of skin which is likely to cause disability or disfigurement will also be a cause for rejection.
- (r) A candidate should be able to read in a distant vision chart 6/6 in better eye and 6/9 in worse eye with or without glasses. Myopia should not be more than 2.5 D and hypermetropia not more than 3.5 D including Astigmatism. Internal examination of the eye will be done by means of ophthalmoscope to rule out any disease of the eye. A candidate must have good binocular vision. The colour vision standard will be (CP.III) for Army. A candidate should be able to recognise red and green colours. Candidates will be required to give certificates that neither he nor any member of his family has suffered from congenital night blindness. Candidates who have undergone or have the evidence of having

undergone Radial Keratotomy, to improve the visual acuity will be permanently rejected for all the Services. Candidates who have undergone Laser Surgery for correction of refractive error are also not acceptable to defence services.

Vision standard for Naval candidates

Uncorrected without glass	6/9
Corrected with glass	6/6
Limits of Myopia	.0.75
Limits of Hypermetropia	+1.5
Binocular vision	III
Limits of colour preception	I

Visual Standards for Air Force

Candidates who habitually wear spectacles are not eligible for Air Force. Minimum distant vision 6/6 in one eye and 6/9 in other, correctable to 6/6 only for Hypermetropia. Colour vision C.P.I Hypermetropia : +2.0 D Sph Manifest Myopia : Nil Retinoscopic Myopia : 0.5 in any Meridian permitted Astigmatism : + 0.75 D Cyl (within + 2.0 D.Max) Maddox Rod Test

- (i) at 6 meters
 - Exo.6 prism D
 - Eso.6 prism D
 - Hyper.1 prism D
 - Hypro.1 prism D
- (ii) at 33 cms
 - Exo.16 prism D
 - Eso.6 prism D
 - Hyper.1 prism D
 - Hypro.1 prism D

Hand held Stereoscope—All of BSV grades Convergence—Upto 10 cm Cover test for distant and near—Lateral divergence/convergence recovery rapid and complete Radial Keratotomy, Photo Refractive Keratotomy/laser in Situ, Keratomileusis (PRK/LASIK) surgeries for correction of refractive errors are not permitted for any Air Force duties. Candidates having undergone cataract surgery with or without IOL implants will also be declared unfit.

Binocular vision must possess good binocular vision (fusion and stereopsis with good amplitude and depth.

Candidates who have undergone LASIK surgery are not considered fit for permanent commission in flying branch in IAF.

- (s) USG abdomen examination will be carried out and any congenital structural anomaly or disease of the abdominal organs will be a cause for rejection in Armed Forces.
- (t) The candidates should have sufficient number of natural and sound teeth. A minimum of 14 dental points will be acceptable. When 32 teeth are present, the total dental points are 22. A candidate should not be suffering from severe pyorrhoea.

- (u) Routine ECG and EEG for Air Force candidates must be within normal limits.
- (v) Physical conditioning : Prospective candidates are advised to keep themselves in good physical condition, by following the undermentioned routine :—
 - (a) Running 2.4 Km in 15 minutes
 - (b) Skipping
 - (c) Push ups and sit ups (minimum 20 each)
 - (d) Chin ups (minimum 08)
 - (e) Rope climbing 3.4 metres.

APPENDIX III

(BRIEF PARTICULARS OF THE SERVICE ETC.)

1. Before a candidate joins the Academy, the parent or guardian will be required to sign :—

(a) A certificate to the effect that he fully understands that he or his son or ward shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which his son or ward may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) A bond to the effect that if, on account of his dismissal or discharge or withdrawal from National Defence Academy for knowingly furnishing false particulars or suppressing material information in his application for admission to the said National Defence Academy or in the event of his being dismissed or discharged or withdrawn on disciplinary grounds from the said, National Defence Academy or for any reason not beyond the control of the cadet, he does not complete the prescribed period of training, or he, the cadet, does not accept a Commission if offered as conventated above, then the Guarantors and the cadet shall jointly and severally be liable to pay forthwith to Government in cash sums as the Government shall fix but not exceeding such expenses as shall have been incurred by the Government on account of the Cadet on his training and all the money received by the Cadets as pay and allowance from the Government together with interest on the said money calculated at the rate in force for Government loans.

2. The cost of training including accommodation, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets, will however, be required to meet their pocket and other private expenses. Normally, these expenses are not likely to exceed Rs. 400.00 p.m. If in any case a cadet's parents or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance upto Rs. 400.00 p.m. for the 1st and 2nd years. Rs. 400.00 p.m. for the 3rd year training at NDA and Rs. 400.00 p.m. for the further specialised training in Army/Navy/Air Force Training Establishments may be

granted by the Government. No cadet whose parent's or guardian's income exceeds Rs. 1500/. per month and Rs. 2000/. per month if more than one son/ward simultaneously undergoing training at NDA, IMA, OTA and corresponding training establishment in the Navy and Air Force would be eligible for the grant of financial assistance.

The parent/guardian of a candidate desirous of having financial assistance from the Government should immediately after his son/ward having been finally selected for training at the National Defence Academy submit an application through the District Magistrate of his District who will forward the application with his recommendation to the Commandant, National Defence Academy, Khadakwasla, Pune.411023.

3. Candidates finally selected for training at the Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant, National Defence Academy, on arrival there :

(a) Pocket allowance for five months	Rs. 2000.00
at Rs. 400.00 per month.	
(b) For items of clothing and equipment	Rs. 3200.00
(c) Incidental Expenditure during	Rs. 425.00
1st Semester	
Total	Rs. 5625.00

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the candidate in the event of financial aid being sanctioned to them.

(a) Pocket allowance for five months	Rs. 2000.00
at Rs. 400.00 per month	
(b) For items of clothing and equip.	Rs. 475.00
ment approximately.	

4. The following Scholarships/Financial Assistance are tenable at the National Defence Academy.

(1) **PARASHURAM BHAU PATWARDHAN SCHOLARSHIP**—This scholarship is granted to boys who belongs to MAHARASHTRA AND KARNATAKA and whose parents income is between Rs. 350.00 and 500.00 per month from all sources. The value of the scholarship is equal to the Government financial assistance. It is admissible for the duration of a Cadet's stay in the National Defence Academy and other Pre.commission training establishment subject to the Cadet's good conduct and satisfactory progress in the training and his parents income remaining below the prescribed limit. Cadets who are granted this scholarship, will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(2) **COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL SCHOLARSHIP**—This scholarship is of the value of Rs. 360.00 per annum and awarded to a MARATHA cadet who should be the son of an ex.serviceman. The scholarship is in addition to any financial assistance from the Government.

(3) **KAUR SINGH MEMORIAL SCHOLARSHIP**—Two scholarships are awarded to cadets who obtain the highest position amongst candidates from BIHAR. The value of each scholarship is Rs. 37.00 per mensem tenable for a maximum period of 4 years during the training at the National Defence Academy, Khadakwasla and thereafter at the Indian Military Academy, Dehra Dun and the Air Force Flying College; and Indian Naval Academy, Ezhimala where the cadets may be sent for training on completion of their training at the National Defence Academy. The scholarship will, however, be continued subject to maintaining good progress at the above institution.

(4) **ASSAM GOVERNMENT SCHOLARSHIP**—Two scholarships will be awarded to the cadets from ASSAM. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per mensem and is tenable for the duration of a cadet's stay at the National Defence Academy. The scholarships will be awarded to the two best cadets from ASSAM without any reference to the income of their parents. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(5) **UTTAR PRADESH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—Two scholarships each of the value of Rs. 30.00 per month and an outfit stipend of Rs. 400.00 are awarded to two cadets who belong to UTTAR PRADESH on merit.cum.means basis and are tenable for a period of three years subject to satisfactory performance by the cadets at National Defence Academy. Cadets who are granted these Scholarships are not entitled to any other financial assistance from Government.

(6) **KERALA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—One merit scholarship of the value of Rs. 480/. per annum for the entire period of training at NDA, will be awarded by the State Government of Kerala to a Cadet who is domiciled resident of the State of KERALA and who secures the first position in the All India UPSC Entrance Examination to NDA irrespective of the fact whether he has passed out from RIMC or from any of the Sainik Schools in India. The financial position of a Cadet's father/guardian is not taken into consideration.

(7) **BIHARI LAL MANDAKINI PRIZE**—This is cash prize of Rs. 500.00 available for the best BENGALI boy in each Course of the Academy. Application Forms are available with the Commandant, National Defence Academy.

(8) **ORISSA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—These scholarships, one for the Army, one for the Navy and the other for the Air Force of the value of Rs. 80.00 each per month will be awarded by the Government of Orissa to the cadets who are permanent residents of the State of ORISSA. Two of these scholarships will be awarded on the basis of merit.cum.means of the cadets whose parent's or guardian's income does not exceed Rs. 5,000/. per annum and the other one will be given to the best cadet irrespective of his parent's or guardian's income.

(9) **WEST BENGAL GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—Following categories of scholarships are

awarded by the West Bengal Government to those cadets who are permanent residents of WEST BENGAL :—

SCHEME.I

Number of Scholarships	Six per year.
Distribution of Scholarships	One each for Army, Navy and Air Force for each of two terms commencing every year.
Financial grant per Award	1st year : Lumpsum clothing grant of Rs. 2500/. and Pocket Allowance of Rs. 125/. per month. 2nd/3rd/4th year—Pocket Allowance of Rs. 125/. per month.

SCHEME.II

Number of Scholarships	Six per year.
Distribution of Scholarships	As in Scheme.I.
Financial grant per Award	1st/2nd/3rd/4th year . Lumpsum grant of Rs. 100/. each year.

(10) **PILOT OFFICER GURMEET SINGH BEDI MEMORIAL SCHOLARSHIP**—One scholarship of Rs. 420.00 per annum is granted to the cadet who stands highest in the overall order of merit amongst Air Force Cadets at the end of the 4th term. It is for the duration of one year (during 5th and 6th terms). This scholarship will be withdrawn if the recipient is relegated or withdrawn during the period of its receipts. The cadet who is already in receipt of any such merit scholarship or financial assistance is not entitled to this scholarship.

(11) **HIMACHAL PRADESH GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—Four scholarships will be awarded to cadets from HIMACHAL PRADESH. The value of each scholarship is Rs. 30.00 per month during the first two years of training and Rs. 48.00 per month during the third year of training. These scholarships will be available to those cadets whose parent's income is below Rs. 500.00 per month. No cadet in receipt of financial assistance from the Government will be eligible for this scholarship.

(12) **TAMIL NADU GOVERNMENT SCHOLARSHIP**—The Government of Tamil Nadu has instituted at NDA one scholarship per course of the value of Rs. 30/. per month plus an outfit allowance of Rs. 400/. (one only during the entire period of cadet's training) to be awarded to a cadet belonging to the State of TAMIL NADU whose parent's/guardian's monthly income does not exceed Rs. 500/.. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.

(13) **KARNATAKA GOVERNMENT SCHOLARSHIPS**—The Government of Karnataka has awarded 18 Scholarships (Eighteen Scholarships) 9 in respect of course commencing

from January and 9 in respect of course commencing from July every year for award to cadets from Karnataka State who join the National Defence Academy after completion of their education at the Sainik School, Bijapur or at the Rashtriya Indian Military College, Dehra Dun. The value of the scholarship shall be Rs. 480/. (Rupees Four Hundred and Eighty) each per annum. Four more scholarships (two per term) at the rate of Rs. 480/. per annum for the cadets of Karnataka State who join NDA after completion of education other than at Sainik School, Bijapur/RIM College, Dehra Dun have been awarded.

(14) **ALBERT EKKA SCHOLARSHIP**—The Government of Bihar has instituted at NDA 25 Merit Scholarships at Rs. 50/. per month for entire period of six terms at the NDA and Rs. 650/. one time towards clothing and equipment. The cadet awarded the above merit scholarship would not be eligible for any other scholarship or financial assistance from the Government. The application by an eligible cadet can be made to the Commandant, National Defence Academy on their arrival.

(15) **FG OFFICER DV PINTOO MEMORIAL SCHOLARSHIP**—Gp Capt M Vashishta has instituted 3 scholarships of Rs. 125/. each per month at NDA for one term to be awarded to the first three cadets in the order of merit on completion of their first semester till end of second term. The cadets in receipt of Govt. Financial Assistance will not be eligible for the above scholarships. The application for eligible cadets can be made to the Commandant, NDA on arrival.

(16) **FINANCIAL ASSISTANCE TO WARDS OF EX.SERVICEMEN—MAHARASHTRA STATE**

The wards of Maharashtrian ex.service officers/men who are undergoing training as Cadets at NDA/IMA/Air Force Academy and Naval Academy will be given pocket expenses prescribed by the Training Establishment at the following rates :

Ex.Officers :	50% of total pocket expenses for entire duration of training.
Ex.JCOs :	75% .do.
Ex.ORs :	100% .do.

The parents/guardians of the wards should submit their applications to their respective Zila Sainik Welfare Office alongwith the certificates obtained from the academy, showing the rates of pocket money, based on which the amount will be remitted to the applicant's parents.

Terms and conditions governing these scholarships are obtainable from the Commandant, National Defence Academy, KHADAKWASLA, PUNE (411 023).

5. Immediately after the selected candidates join the Academy, a preliminary examination will be held in the following subjects :

- (a) English;
- (b) Mathematics;
- (c) Science;
- (d) Hindi.

The standard of the examination in the subjects, at (a), (b) and (c) will not be higher than that of the Higher Secondary Examination of an Indian University or Board of Higher Secondary Education. The paper in the subject at (d)

is intended to test the standard attained by the candidate in Hindi at the time of joining the Academy.

Candidates are, therefore, advised not to neglect their studies after the competitive examination.

Training

6. The selected candidates for the three services, viz., Army, Navy and Air Force are given preliminary training both academic and physical for a period of 3 years at the National Defence Academy which is an Inter.Service Institution. The training during the first two and half years is common to the cadets of three wings. The cadets on passing out will be awarded B.Sc./B. Sc. (Computer)/ B.A. degree from Jawaharlal Nehru University, Delhi.

The selected candidates of Naval Academy will be given preliminary training both academic and physical, for a period of 04 years at Indian Naval Academy, Ezhimala. The cadets of 10+2 Cadet Entry Scheme will be awarded a B. Tech Degree on successful completion of training.

7. On passing out from the National Defence Academy, Army Cadets go to the Indian Military Academy, Dehra Dun, Naval Cadets to Indian Naval Academy, Ezhimala and Air Force cadets to AFA, HYDERABAD.

8. At the I.M.A. Army Cadets are known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military training for a period of one year aimed at turning officer capable of leading infantry Sub.units. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of Lt. subject to being medically fit in "SHAPE" one.

9. The Naval cadets are selected for the Executive, Branch of the Navy, on passing out from the National Defence Academy and are given further training at Indian Naval Academy, Ezhimala for a period of one year on successful completion of which they are promoted to the rank of sub Lieutenants.

10. Air Force Cadets receive flying training for a period of 1½ years. However, at the end of 1 year of training they are given provisional Commission in the rank of Flying Officer. After successful completion of further training of six months they are absorbed as permanent commissioned officers on probation for a period of one year.

TERMS AND CONDITIONS OF SERVICES

11. Army Officers and equivalent ranks in Air Force and Navy

(i) **Fixed Stipend for Cadet Training**

Gentlemen cadets during the entire duration of training in Service academies i.e. during training period at IMA and OTA shall be entitled to stipend of Rs. 21,000/. p.m. (Rs. 15,600/. as pay in pay Band plus Grade Pay of Rs. 5,400/.).

(ii) **Pay**

(a) Rank	Pay Band (Rs.)
Lt to Maj	15,600—39,100/. (PB.3)
Lt Col to Maj Gen	37,400—67,000/. (PB.4)
Lt Gen HAG Scale	67,000/.(annual increment@3%)—79,000/.
HAG+ Scale*	75,500/.(annual increment@3%)—80,000/.

*(Admissible to 1/3rd of total strength of Lt Gens)
VCOAS/ARMY Cdr/Lt Gen (NFSG) 80,000/. (fixed)
COAS 90,000/. (fixed)

(b) In addition to pay, Grade pay will also be given as under :—

Lt.	Rs. 5,400/.
Capt.	Rs. 6,100/.
Major	Rs. 6,600/.
Lt Col	Rs. 8,000/.
Col	Rs. 8,700/.
Brig	Rs. 8,900/.
Maj Gen	Rs. 10,000/.

(c) A Fixed sum of Rs. 6,000/. p.m. is also payable as Military Service Pay (MSP) to the officers from the rank of Lt. to Brig.

(iii) QUALIFICATION PAY AND GRANT

Officers possessing certain prescribed Qualification are entitled to lumpsum Qualification Grant of Rs. 6000/., 9,000/., 15,000/. or 20,000/. based on the qualification held by them.

The Army Aviators (Pilots) serving in Army Aviation Corps are entitled to the Qualification Pay, based on the Qualification held by them, as under :—

- (i) Master Aviation Instructor—Rs. 500/. p.m.
- (ii) Senior Aviation Instructor Class I—Rs. 400/. p.m.
- (iii) Senior Aviation Instructor Class II—Rs. 280/. p.m.
- (iv) Aviators holding Master Green Card—Rs. 400/. p.m.
- (v) Aviators holding Green Card Rs. 280/. p.m.

The Army Aviators (Pilots) serving in the Army Aviation Corps are entitled to flying allowance as under :—

- (a) Brig & above Rs. 10,500/.
- (b) Maj to Col. Rs. 14,000/.
- (c) Capt. Rs. 11,000/.
- (d) Lt. Rs. 9,000/.

(iv) Allowances

In addition to pay, an officer at present receives the following allowances :

(a) Dearness Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted Officers from time to time.

(b) A kit maintenance allowance of Rs. 400/. p.m.

(c) Depending upon rank and area of posting, officer posted to Field Areas will be eligible for compensatory Highly Active Field Area Allowance at the rate of Rs. 6,780/. to Rs. 8,400/. p.m., Compensatory Field Area Allowance at the rate of Rs. 4,200/. to Rs. 5,200/. p.m. and Compensatory Modified Field Area Allowance at the rate of Rs. 16,00/. to Rs. 2,000/. p.m.

(d) In addition to the Compensatory Field Areas Allowance, officers posted to areas situated at a height of 9000 ft. and above are entitled for High Altitude Allowance in the range of Rs. 1,060/. p.m. to Rs. 11,200/. p.m. depending upon rank of the officer and place of posting.

(e) Uniform allowance : Initial allowance for one time kit @ Rs. 14,000/. and Rs. 3,000/. for every three years.

(f) Transport allowance : Transprot @ Rs. 3,200/. + DA thereon p.m. in A.1/A class Cities and Rs. 1600/. + DA thereon p.m. at other places shall be admissible to officers.

12. (a) Army Group Insurance Fund is a compulsory contributory group scheme, which provides insurance cover for Rs. 8 Lac on payment of one time premium of Rs. 4250/. for 3 years paid in advance in lump sum by the cadets including Naval and Air Force Cadets of NDA from the date of joining for Pre.commission training till completion of training at NDA. In case of relegation, an additional premium of Rs. 770/. per relegated term will be paid immediately on occurrence. For those who are medically boarded out of NDA on account of Disability, the cover provided is 50 per cent of the insured amount for 100 per cent disability i.e. Rs. 4 lac for 100 per cent disability which is proportionately reduced to Rs. 80,000 for 20 per cent disability. Cadets being boarded out with less than 20 per cent will be given an ex.gratia grant of Rs. 50,000/. and Rs. 1 lac for cadet invalided out with less than 20 per cent disability during last year of training. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the diseases of pre enrolment origin will not qualify for disability benefits and ex.gratia. In addition, a cadet withdrawn on disciplinary grounds or as undesirable or voluntarily leaves the Academy will also not be eligible for disability benefits and ex.gratia.

(b) At IMA when in receipt of stipend, the Gentlemen Cadets are provided insurance cover of Rs. 40 lac wef 01 Apr 2011 as per main AGI scheme as applicable to regular officers. Those who are medically boarded out of IMA on account of disability, the cover provided is 50 per cent of the insured amount for 100 per cent disability, i.e. Rs. 20 Lac for 100 per cent disability which is proportionately reduced to Rs. 4 lac for 20 per cent and an ex.gratia grant of Rs. 50,000/. for less than 20 per cent disability. Disability due to alcoholism, drug addiction and due to the diseases of pre enrolment origin will not qualify for disability benefits and ex.gratia. In addition, a cadet withdrawn on disciplinary grounds or as undesirable or voluntarily leaves the Academy will also not be eligible for disability benefits and ex.gratia.

13. RETIREMENT BENEFITS

Pension, gratuity and casualty pensionary award will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.

14. LEAVE

Leave will be admissible in accordance with the rules in force from time to time.

KULDEEP KUMAR SAHARAWAT
Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DIRECTORATE GENERAL, CRPF)

New Delhi-110003, the 13th December 2011

No. O. II.6851/2011-Pers (DA-5)—Consequent on acceptance of notice dated 06.07.2011 for Voluntary Retirement from service, Shri R. N. Sarkar, Assistant Commandant (IRLA-6851) of 64 Bn CRPF, relinquished the charge of his post on the forenoon of 1st December, 2011. Accordingly, his name stands deleted from the strength of the Force with effect from the same date i.e. 01.12.2011 (FN).

R. N. MISRA
DIG (Pers.)

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL
(A & E), KERALA

Thiruvananthapuram, the 19th December 2011

No. O.E./E&C/EIVP/124—The following officials of IA&AD retired from service :—

Sl. No.	Name	Designation	Date of Retirement
S/Shri/Ms.			
1.	K. Vatsala	Senior Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	30.11.2011 (AN) Superannuation
2.	B. Lalithambika	Asst. Accounts Officer, Main Office, Thiruvananthapuram	30.11.2011 (AN) Superannuation

Sd/- ILLEGIBLE
Dy. Accountant General (Admn.)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Kolkata-700016, the 14th December 2011

No. 22810/SP/A.19012/(4-RV)/ES.09/M.109/19B—The President is pleased to appoint Shri Rupesh Verma to the post of Drilling Engineer (Jr.)/redesignated as Assistant Executive Engineer, Geological Survey of India (Group 'A', Gazetted post) in the Pay Band/Scale-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in officiating capacity with effect from 18.07.2011 (FN) on provisional basis. Until further orders, he is posted in Geological Survey of India, Central Region, Nagpur.

K. A. EBRAHIM KUNJU
Sr. Administrative Officer
for Director General

No. 22811/SP/A-19012/(4.RV)/ES-09/M-109/19B—The President is pleased to appoint Shri Amar Singh Meena (ST)

to the post of Drilling Engineer (Jr.)/redesignated as Assistant Executive Engineer, Geological Survey of India (Group 'A', Gazetted post) in the Pay Band/Scale-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 5,400/- in officiating capacity with effect from 03.08.2011 (FN). Until further orders, he is posted in Geological Survey of India, Northern Region, Lucknow.

K. A. EBRAHIM KUNJU
Sr. Administrative Officer
for Director General

No. 22825/SP/A-32013/3-Dir.(Geochem.)/96/19B(Vol.V)—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee, the President is pleased to appoint the following Chemist (Senior), GSI as Director (Geochemistry), redesignated as Superintending Chemist on promotion in the Pay Band-3 of Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- on regular basis with effect from the date mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officers	Date of promotion to the post of Director (Geochemistry), re-designated as Superintending Chemist
1.	Shri S. T. Ingle	30.06.2011 (FN)
2.	Shri G. Narasimhan	27.06.2011 (FN)

K. A. EBRAHIM KUNJU
Sr. Administrative Officer
for Director General

Kolkata-700016, the 15th December 2011

No. 22902/SP/A.12025/1-Geol/Notifin/06/19A—The President is pleased to appoint the following candidates to the post of Geologist (Group 'A', Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Revised) in a temporary capacity with effect from the date and other details as mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of Appointment	Date of Birth	Place of Posting	Remarks
1.	Smt. Rashmi	01.04.2010 (FN)	06.02.1976	M.II B, ERO, Kolkata
2.	Shri Mayanglambam Shyamkumar Singh	23.10.2009 (AN)	01.02.1980	Opn : Assam & Megh, NER, Guwahati	*Provisional
3.	Shri V. Kumaravel	01.04.2010 (FN)	06.06.1979	Opn : Maharashtra, CRO, Nagpur	*Provisional

*The aforesaid appointment is provisional and subject to verification of Caste Certificate by competent authority.

D. PURUSHOTHAMAN
Supdtg. (Geol) & I/C Geology Stream
for Dy. Director General (P)

No. 22903/SP/A-12025/1-Geol/Notifin/06/19A—The President is pleased to appoint the following candidates to the post of Geologist (Group 'A', Gazetted) in Geological Survey of India in the minimum of the Pay Band-3 (Rs. 15,600—39,100/-) with Grade Pay of Rs. 5,400/- (Revised) in a temporary capacity with effect from the date and other details as mentioned against each until further orders :—

Sl. No.	Name	Date of Appointment	Date of Birth	Place of Posting	Remarks
1.	Smt. Lopamudra Bhol	22.03.2010 (FN)	16.02.1984	Op : MP & CG, CRO, Bhopal	**Provisional
2.	Shri Ranjith A.	01.04.2010 (FN)	10.02.1984	NER Shillong	*Provisional
3.	Shri Ramesh Laishram	01.04.2010 (FN)	25.03.1980	Opn : P.H & HP, NRO, Chandigarh	**Provisional
4.	Smt. Shraddha Nannaware	01.04.2010 (FN)	31.03.1983	AP, State Unite, SR, Hyd.	##Provisional
5.	Shri Pinaki Roy	01.04.2010 (FN)	22.01.1976	GSITI, Hyd.	#Provisional

*The aforesaid appointment is provisional and subject to verification of Caste Certificate by competent authority and
 **for non verify of M. Sc. Degree certificate, ##for affidavit of correct name in school certificate & verification of caste,
 #for pending of C&A verification certificate.

D. PURUSHOTHAMAN
 Supdtg. (Geol) & I/C Geology Stream
 for Dy. Director General (P)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND COOPERATION)

New Delhi, the 9th December 2011

No. 32013/6/2006-M.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. (Ms) Manvi to the post of Assistant Director (Oils & Fats) in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Directorate of Marketing and Inspection, in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/- with effect from the forenoon of 28.07.2011.

SUKUMAR
 Dy. Secy.

No. 12018/2/2009.M.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Brajesh Kumar Tiwari to the post of Deputy

Agricultural Marketing Adviser (Group.III) in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Directorate of Marketing and Inspection, in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from the forenoon of 17.10.2011.

SUKUMAR
 Dy. Secy.

No. 12018/3/2009-M.I(Part)—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Prasad Chakraborty to the post of Assistant Agricultural Marketing Adviser (Group-I) in the Ministry of Agriculture, Department of Agriculture and Cooperation, Directorate of Marketing and Inspection, in the Pay Band-3, Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 6,600/- with effect from the forenoon of 14.11.2011.

SUKUMAR
 Dy. Secy.

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Mumbai-400085, the 12th December 2011

Ref: PD/6(5)/2009-R-III/2011/8701—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. V. P. Usha, Sr. Clerk, PRP, Kalpakkam to officiate as Assistant Accounts Officer in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- in this Research Centre with effect from the forenoon of 24 November, 2011 on regular basis until further orders.

SHAILAJA PRAKASAM
 Dy. Establishment Officer

Ref: PD/11(2)/2009-R-III/2011/8705—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Jaya P. Prabhu, Assistant Accounts Officer as Accounts Officer in this Research Centre on ad hoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 5,400/- with effect from 02.08.2010 (FN) to 01.08.2011 (AN) and from 30.09.2011 (FN) to 18.11.2011(AN).

SHAILAJA PRAKASAM
 Dy. Establishment Officer

Ref: PD/11(2)/2010-R-III/2011/8706—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Laly Thomas, Assistant Accountant as Assistant Accounts Officer in this Research Centre on adhoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800 + Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 02.08.2010 (FN) to 01.08.2011 (AN).

SHAILAJA PRAKASAM
 Dy. Establishment Officer

Ref: PD/11(2)/2010-R-III/2011/8707—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Smt. Jyoti D. Narvekar, Assistant Accountant as Assistant Accounts Officer in this Research Centre on adhoc basis in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- with effect from 11.01.2011 (FN) to 23.11.2011 (AN).

SHAILAJA PRAKASAM
Dy. Establishment Officer

Mumbai-400085, the 14th December 2011

No. 93/Noti./Est.IA/8789—The Officers whose names are mentioned in column 2 of the table below, relinquished charge of the post held by them, as indicated in column 3 with effect from the dates mentioned in column 4 consequent on the event mentioned in column 5 thereof :—

Sr. No.	Name	Relinquished charge of the post of	Date of relinquish. ment	Event
1.	Dr. Vineet Kohli	SO/D	08.11.2011 (AN)	Resignation
2.	Shri A. M. Patankar	SO/H	30.11.2011 (AN)	Retirement After Extn. of Service
3.	Dr. M. Seshadri	Head, SO/H	30.11.2011 (AN)	Retirement After Extn. of Service
4.	Shri R. K. Jakati	SO/H	30.11.2011 (AN)	Retirement After Extn. of Service
5.	Shri A. K. Shukla	SO/E	30.11.2011 (AN)	Superannuation
6.	Shri P. M. Ouseph	SO/F	30.11.2011 (AN)	Superannuation
7.	Shri D. Venkatram	SO/G	30.11.2011 (AN)	Superannuation
8.	Shri Surender Kumar	SO/H	30.11.2011 (AN)	Superannuation
9.	Dr. V. Jagannathan	SO/H	30.11.2011 (AN)	Superannuation
10.	Shri R. S. Vohra	SO/F	30.11.2011 (AN)	Superannuation
11.	Dr. Chavali Prakash	SO/G	30.11.2011 (AN)	Superannuation
12.	Smt. Girija Venkatachalam	Sr. PS	30.11.2011 (AN)	Superannuation

N. D. SHARMA
Controller

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

Mumbai-400001, the 12th December 2011

No. 6(2587)/2011-Adm./13169—The President is pleased to appoint Smt. Swati Pandey, Indian Postal Service (1997), as Director in the Department of Atomic Energy, Mumbai in

the Pay Band (PB-4: Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 8,700/-) with effect from the forenoon of December 07, 2011 for a period of five years or until further orders, whichever is earlier.

V. GOVINDANKUTTY
Under Secy.

No. 6(2586)/2011-Adm./13172—The President is pleased to appoint Shri Rahul Kulshreshth, (IFS : 1985) as Joint Secretary in the Department of Atomic Energy Mumbai in the Pay Band (PB-4: Rs. 37,400—67,000/- with Grade Pay Rs. 10,000/-) with effect from the forenoon of December 07, 2011 for a period of three years or until further orders, whichever is earlier.

V. GOVINDANKUTTY
Under Secy.

ATOMIC MINERALS DIRECTORATE FOR EXPLORATION AND RESEARCH

Hyderabad-500016, the 1st November 2011

No. AMD-5T (39)/2005-Pen.—On attaining the age of superannuation, the following Officer has relinquished the charge of his post in the Atomic Minerals Directorate for Exploration and Research of Department of Atomic Energy on the date mentioned below :—

Sl. No.	Name & Designation	Date of Relinquishment	Event
1.	Shri Prem Ballabh Maithani, Scientific Officer.H+	31.10.2011 (AN)	Superannuation

P. MOHAN BABU
Chief Administrative & Accounts Officer

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

New Delhi, the 9th December 2011

No. RoC/Delhi/560(5)/2011/11679—Notice is hereby given pursuant to sub section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of undermentioned companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN	Company Name
1	2	3
1.	109325	M/s. Rising Tide Software and Systems Private Limited
2.	184897	M/s. ASD Infrastructure and Developers Private Limited

1	2	3
3.	180703	M/s. Led Ooh Media Private Limited
4.	125317	M/s. Maestro Fashions Private Limited
5.	156333	M/s. Taurus Traxim Private Limited
6.	156571	M/s. Welcome Info Solution Private Limited
7.	208948	M/s. Connect Workplace Solutions Private Limited
8.	167334	M/s. Indica PMC Manufacturing Private Limited
9.	139376	M/s. Carma Clothing Private Limited
10.	139690	M/s. Sheena Software Development Private Limited
11.	136077	M/s. Numerical Simulation Tech (India) Private Limited
12.	115814	M/s. Bliss Remedies Private Limited
13.	136499	M/s. Naramit Garments Private Limited
14.	106671	M/s. Nihal Exim Private Limited
15.	024348	M/s. Cosmos Poly Print Private Limited
16.	106156	M/s. Deebee Marketing Private Limited
17.	153319	M/s. Quality Packers & Movers Private Limited
18.	037063	M/s. Realvalue Expomark Private Limited
19.	044132	M/s. Amulet International Private Limited
20.	033324	M/s. Gangotri Properties Private Limited
21.	161976	M/s. Minda Auto Lighting Private Limited
22.	067393	M/s. Reflex Overseas Limited
23.	161544	M/s. Sirius Designs & Events Private Limited
24.	030279	M/s. Ritam Finance and Traders Private Limited
25.	072794	M/s. Mangla Marketing Private Limited
26.	177073	M/s. Cas Fumitech Private Limited
27.	136865	M/s. BMA India Consultant Private Limited
28.	205008	M/s. Genex Broadband Solutions Private Limited
29.	011142	M/s. Delhi Paper Marketing Private Limited
30.	143855	M/s. R S Biopharm Limited
31.	147055	M/s. Kausar Energies Private Limited

1	2	3
32.	157263	M/s. E B Overseas Private Limited
33.	041682	M/s. K & G Baby Care Private Limited
34.	177689	M/s. Hero Auto Components Private Limited
35.	118471	M/s. Nitin Agarwal Credit Care Private Limited
36.	165998	M/s. SRS Exim Private Limited
37.	059619	M/s. Aarti Capitals Private Limited
38.	131041	M/s. Bela Floriculture Private Limited
39.	033306	M/s. Mifco Holdings Limited
40.	059608	M/s. Smiriti Capitals Private Limited
41.	152917	M/s. Apex Gaming Online Private Limited
42.	206888	M/s. Sofia Raj Cafe Private Limited
43.	134148	M/s. Naramit Herbals Private Limited
44.	186090	M/s. Summit Link Aviation Services Private Limited
45.	180857	M/s. Thornycroft Marine Systems India Private Limited
46.	179366	M/s. New Times Retail Private Limited
47.	191335	M/s. Growrich Yellow Pages Private Limited
48.	163659	M/s. Harmone Health Care & Research Centre Private Limited
49.	124744	M/s. Culture & Nature Travel Private Limited
50.	054890	M/s. Gulmarg Overseas Private Limited
51.	128321	M/s. Triumph Interiors Private Limited
52.	134199	M/s. Triumph Metals Private Limited
53.	107505	M/s. I. F. Infotech Fusion (India) Private Limited
54.	133085	M/s. Transmed Biopharma Private Limited
55.	151739	M/s. GTM Blankets Private Limited
56.	149460	M/s. Maori Garment Private Limited
57.	181231	M/s. A B Wealth Advisor Private Limited
58.	120626	M/s. Ingeneous Biotech Private Limited
59.	201471	M/s. Wave Resources India Private Limited
60.	221350	M/s. Shanti Multimedia Private Limited
61.	184234	M/s. Mann India Security Private Limited

1	2	3	1	2	3
62.	036408	M/s. Krisherb Products Private Limited	90.	176885	M/s. Genie Animation Studio Private Limited
63.	166671	M/s. Silicon Garments Private Limited	91.	181310	M/s. Elena Maintenance Services Private Limited
64.	146092	M/s. Isoft Training Solutions Limited	92.	077995	M/s. CWG Water Technologies Private Limited
65.	054212	M/s. Mettest MDT Services India Private Limited	93.	092969	M/s. Indus Motorcycle Private Limited
66.	162539	M/s. Grafica Italiana Artwork Private Limited	94.	026468	M/s. Tanisha Exports Private Limited
67.	195906	M/s. Aries Tradecom Private Limited	95.	014240	M/s. Rahul Rice Mills Private Limited
68.	181659	M/s. Devaashish Natural Resources Private Limited	96.	156708	M/s. Ujala Television Distribution Private Limited
69.	115141	M/s. Perfect Promotions Private Limited	97.	033350	M/s. Aachrya Developers and Contractors Private Limited
70.	093662	M/s. Phool Singh Yadav & Co. Private Limited	98.	033339	M/s. Maha Maya Developers Private Limited
71.	105723	M/s. Akkap Infotech Private Limited	99.	033431	M/s. Alaknanda Towers Private Limited
72.	035547	M/s. Dentis Tree (Dental Finishing School) Private Limited	100.	186086	M/s. Byte Strikers Software Solutions Private Limited
73.	125448	M/s. Ram Lax Infotech Private Limited	101.	177899	M/s. Payment Transaction Services India Private Limited
74.	202273	M/s. Red Balloon Advertisers Private Limited	102.	123373	M/s. Banke Bihari Realtors Private Limited
75.	070169	M/s. M K Fragrances Private Limited	103.	166670	M/s. Ecology Garments Private Limited
76.	184942	M/s. Nandi Infrabuild Private Limited	104.	167864	M/s. Speed Infoways Private Limited
77.	183921	M/s. Nandi Power Generation Company Private Limited	105.	165250	M/s. Times Tradexim Private Limited
78.	176831	M/s. SRM Hospitals Private Limited	106.	050014	M/s. Molly Exports and Services Private Limited
79.	017585	M/s. Hrizon Glass Tubes Industries Private Limited	107.	173491	M/s. Rock Well Real Estate Private Limited
80.	047442	M/s. Vidha Leasing Finance Company Private Limited	108.	173884	M/s. Terrace Plains Real Estate Private Limited
81.	038463	M/s. Segno Impex Private Limited	109.	149033	M/s. Sphinx Lelogix Business Solutions Private Limited
82.	182915	M/s. Shyam Sistema Developers Private Limited	110.	120035	M/s. Perfect Logistics Private Limited
83.	167618	M/s. Bijapur Power Company Private Limited	111.	160699	M/s. Kosi Valley Hydrel Power Company Private Limited
84.	099770	M/s. Brikoplas (India) Private Limited	112.	164685	M/s. Dayara Bugyal Ski Project Company Private Limited
85.	151054	M/s. Yellojobs. Com India Private Limited	113.	204896	M/s. Comprehensive Tele Convergence Private Limited
86.	151217	M/s. Avinash Infracon Private Limited	114.	033325	M/s. Deep Sikha Estates Private Limited
87.	179124	M/s. Pasco Info Park Private Limited	115.	033347	M/s. KSG Estate Developers Private Limited
88.	181656	M/s. Robin Infosystems Private Limited			
89.	118507	M/s. Dream Weavers Design and Consultancy Private Limited			

1	2	3
116.	033349	M/s. Triess Properties Private Limited
117.	033348	M/s. Unique Housing Private Limited
118.	155296	M/s. Mountain Infracon Private Limited
119.	161783	M/s. Zeus Wheelers India Private Limited
120.	114377	M/s. Elmac Dies and Components Private Limited

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
NCT of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Riverside Hotels and Resorts Private Limited

New Delhi-110019, the 13th December 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00158/
11706—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Riverside Hotels and Resorts Private Limited
unless cause is shown to the contrary, will be struck off
the register and the said Company will be dissolved.

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Uniflow Consultants Private Limited

New Delhi-110019, the 13th December 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00168/
11719—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Uniflow Consultants Private Limited unless cause
is shown to the contrary, will be struck off the register
and the said Company will be dissolved.

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Vision Softech Private Limited

New Delhi-110019, the 14th December 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00416/
11755—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the

expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Vision Softech Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
the said Company will be dissolved.

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Saiyam Corporate Services Private Limited

New Delhi-110019, the 14th December 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00475/
11758—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Saiyam Corporate Services Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said Company will be dissolved.

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Nutech Precision Components Manufactures
Private Limited

New Delhi-110019, the 14th December 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00492/
11761—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Nutech Precision Components Manufactures Private
Limited unless cause is shown to the contrary, will be
struck off the register and the said Company will be
dissolved.

P. L. MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Horizon Infoways Private Limited

New Delhi-110019, the 14th December 2011

No. 560(3)MCA/RoC-Delhi/sec 560/2011/00469/
11764—Notice is hereby given pursuant to sub-section
(3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Horizon Infoways Private Limited unless cause is

shown to the contrary, will be struck off the register and the said Company will be dissolved.

P. B. MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Ecoind Voice and Views Private Limited

New Delhi-110019, the 14th December 2011

No. 560(3)MCA/RoC.Delhi/sec 560/2011/00454/11767—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Ecoind Voice and Views Private Limited unless
cause is shown to the contrary, will be struck off the
register and the said Company will be dissolved.

P. B. MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act 1956 and of
M/s. Bhaskar Leasing Private Limited

New Delhi-110019, the 14th December 2011

No. 560(3)MCA/RoC.Delhi/sec 560/2011/00450/11770—
Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of
Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the
expiration of three months from the date hereof the name
of M/s. Bhaskar Leasing Private Limited unless cause is
shown to the contrary, will be struck off the register and
the said Company will be dissolved.

P. B. MALIK
Dy. Registrar of Companies
National Capital Territory of Delhi and Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Jammu-180012, the 16th November 2011

No. RoC/JMU/560(5)/FTE/1067—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies
Act, 1956 that the names of undermentioned companies
have this day been struck off the register and the said
Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Company Name
1.	002940	M/s. Maccaboy Consultancy Private Limited
2.	002997	M/s. Topaz Hospitality Solutions Private Limited

M. K. BAGRI
Registrar of Companies
Jammu & Kashmir

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Ahmedabad-380013, the 14th December 2011

No. RoC/Gujarat/560(5)/EES-2010—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies
Act, 1956 that the names of undermentioned companies
have this day been struck off the register and the said
Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Company Name
1.	047657	M/s. Ahmedabad Industrial Enviro Infrastructure Limited
2.	044864	M/s. Shree Amarjyot Exim Private Limited

R. D. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra & Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the
following Companies

Ahmedabad.-380013, the 14th December 2011

No. RoC/Gujarat/560(5)/EES/2011—Notice is hereby given
pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies
Act, 1956 that the names of undermentioned companies
have this day been struck off the register and the said
Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Company Name
1	2	3
1.	052248	M/s. Adhar Recreations Private Limited
2.	025612	M/s. Charge-Lite Electronik Private Limited
3.	037853	M/s. Comet Creativity Private Limited
4.	025842	M/s. Coronation Transport Private Limited
5.	030825	M/s. Dharmanandan Developers Private Limited
6.	023867	M/s. Dutt Gases Private Limited
7.	035605	M/s. Everest Organisers Private Limited
8.	013883	M/s. Galaxy Township Private Limited
9.	004919	M/s. Gujarat Semi Precisions Stones Private Limited
10.	034823	M/s. Jain Jaiswal Iron and Steel Private Limited
11.	029979	M/s. Kalyan Portfolio Services Private Limited
12.	025628	M/s. Mrugee Business Services Private Limited

1	2	3
13.	041012	M/s. Murtuza Breeding and Hatchery Private Limited
14.	041731	M/s. Radiance Textiles Private Limited
15.	026211	M/s. Rai Construction Private Limited
16.	030282	M/s. Rakshak Cargo Movers Private Limited
17.	019420	M/s. Rohintan Rotomould Private Limited
18.	019689	M/s. Sardar Food Products Private Limited
19.	011942	M/s. Shri Rama Karha Construction Company Private Limited
20.	044213	M/s. Sunom Solutions (India) Limited
21.	047403	M/s. Swadeshi Vishwasta Agrotech Private Limited
22.	017151	M/s. Tolia Organisers Private Limited
23.	021273	M/s. Urviplex Private Limited
24.	019779	M/s. Urvitech Engineers Private Limited
25.	003451	M/s. Vijay Chemicals and Plastics Private Limited
26.	032280	M/s. Vishalraj Agrotech Private Limited
27.	035162	M/s. Western Fun World Private Limited
28.	032431	M/s. Yogiraj Realities Private Limited
29.	022122	M/s. Shizuka Multiproducts Private Limited

R. D. GUPTA
Dy. Registrar of Companies
Gujarat, Dadra & Nagar Haveli

In the matter of the Companies Act, 1956 and of
the following Companies

Patna, the 8th December 2011

No. RoC/Pat/560(3)/7483—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (3) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that at the expiration of three months from the date hereof the names of the following Companies unless cause is shown to the contrary, will be struck off the register and the said companies will be dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Company Name
1	2	3
1.	007830	M/s. Kiran Plantation & Housing Finance Limited
2.	007832	M/s. Social Forestry India Limited
3.	007825	M/s. Vaishali Commercial and Plantations Limited

1	2	3
4.	007817	M/s. Barouni Savings Center & Investment India Limited
5.	007818	M/s. Sairaj Investment Limited
6.	007819	M/s. Soul Finance & Investment Limited
7.	007796	M/s. Ekta Saving & Hire Purchase Limited
8.	007780	M/s. Royal India House Agro Products Limited
9.	007777	M/s. Falahari Plantations Limited
10.	007770	M/s. Rimjhim Finance & Investment Limited
11.	007766	M/s. Krishna Finlease Limited
12.	000007	M/s. Chhaturam Horilram Kodarma Limited
13.	007748	M/s. Kshipradhara Finance & Investment Limited
14.	007737	M/s. Sarvhit Plantation & Economy Company Limited
15.	007738	M/s. Sarvopary Agro Finance Limited
16.	007740	M/s. Jahanvi Savings and Finance India Limited
17.	007741	M/s. Jay Janvikas Finance Limited
18.	007727	M/s. Veer Kunwar Jee Finance India Limited
19.	007724	M/s. Neelanchal Finance Company Limited
20.	007709	M/s. Upkar Plantation & Economy India Limited
21.	007718	M/s. Sadabahar Plantations (India) Limited
22.	007697	M/s. Unique Van & Krishi Vikas Limited
23.	007696	M/s. Vridhishree Saving & Credit Limited
24.	007693	M/s. Bijayshree Agro Limited
25.	007694	M/s. Denova Overseas Job & Education Limited
26.	007684	M/s. Praunnat Savings & Investment Limited
27.	007674	M/s. Shahabad Plantations Limited
28.	007665	M/s. Amrapali Savings Limited
29.	007661	M/s. Hasanpur Finance and Investment India Limited
30.	007659	M/s. Associated Farming Company Limited

ARVIND SHUKLA
Registrar of Companies
Bihar-Cum-Official Liquidator, High Court, Patna

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata.700020, the 15th December 2011

No. RoC/WB/560/SM/2011/145—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of undermentioned companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	CIN No.	Company Name
1.	027004	M/s. Jatia Manufacturing & Investment Company Private Limited
2.	083678	M/s. Loknath Agencies Private Limited
3.	134247	M/s. Legend Vinimay Private Limited
4.	138509	M/s. Berlins Bakery Private Limited
5.	127962	M/s. Bandana Shoppers Private Limited
6.	132929	M/s. Atreyi Tradelink Private Limited
7.	134358	M/s. Mangalshree Vinimay Private Limited
8.	134162	M/s. Mateshwari Dealer Private Limited
9.	134042	M/s. Sanwaria Agency Private Limited
10.	134205	M/s. Dhanprayog Financial Advisory Private Limited
11.	134148	M/s. Brijwasi Merchandise Private Limited
12.	057745	M/s. Nav Pallav Estates Private Limited
13.	099846	M/s. Sutan Impex Private Limited
14.	134538	M/s. Universal East Coastal Port Private Limited
15.	073819	M/s. Glamour Trader Private Limited
16.	127239	M/s. Eastern Teline Private Limited
17.	145502	M/s. Janhit Sales Private Limited
18.	135956	M/s. Instyle Dealers Private Limited
19.	145821	M/s. Godavari Suppliers Private Limited
20.	104813	M/s. Prayaas Dairy & Agro Products Private Limited
21.	049049	M/s. Calcutta Ophthalmic Private Limited

HARIHARA SAHOO
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Kolkata.700020, the 15th December 2011

No. RoC/WB/560(5)/SM/2011/146—Notice is hereby given pursuant to Sub-section (5) of Section 560 of the

Companies Act, 1956 that the names of undermentioned companies have this day been struck off the register and the said Companies are dissolved :—

Sl. No.	Regn. No.	Company Name
1	2	3
1.	052202	M/s. Sutra Pharmaceuticals & Marketing Services Private Limited
2.	102931	M/s. Himgiri Consumer Care Private Limited
3.	091929	M/s. Infowill Network Limited
4.	080046	M/s. Howrah Saree House Private Limited
5.	043876	M/s. Vishnunarayan and Associates Private Limited
6.	079259	M/s. Raycon Aquatic Private Limited
7.	044769	M/s. Roto Palace Engineering Private Limited
8.	106823	M/s. Sripali Marketing & Trading Private Limited
9.	061663	M/s. Newton Writing Aids Private Limited
10.	100173	M/s. Creation Health Care Limited
11.	123024	M/s. Honesty Vinimay Private Limited
12.	005426	M/s. Adipe Projects Limited
13.	001762	M/s. Check Office Telegraph Mutual Relief Fund Limited
14.	104973	M/s. Utsav Tie up Private Limited
15.	104982	M/s. Anmol Consumer Goods Private Limited
16.	108312	M/s. Festono Vinimay Private Limited
17.	108387	M/s. Ganapati Consumer Goods Private Limited
18.	108388	M/s. Pioneer Consumer Goods Private Limited
19.	108655	M/s. Jolly Commercial Private Limited
20.	108703	M/s. Mistvalley Dealcom Private Limited
21.	090166	M/s. Jahuri Durga Tea Company Private Limited
22.	088125	M/s. Faston Commercial Co. Private Limited
23.	088080	M/s. Dossier Trading Private Limited
24.	090073	M/s. South Calcutta Guest House Private Limited
25.	080469	M/s. Primex Sales Agencies Private Limited
26.	080731	M/s. Virtuous Merchants Private Limited
27.	080736	M/s. Raghavan Trading Private Limited
28.	097805	M/s. Golden Shipping Limited
29.	097806	M/s. Noval Shipping Limited

1	2	3	1	2	3
30.	105831	M/s. Innworth Services Private Limited	63.	048753	M/s. Himali Hotel Private Limited
31.	046268	M/s. Simplex Traders & Investors Private Limited	64.	095303	M/s. Jalangi Hotels & Resorts Private Limited
32.	046821	M/s. S. Krishna & Company Private Limited	65.	043156	M/s. Panther Travels Private Limited
33.	046817	M/s. Manak Chem & Holding Company Private Limited	66.	043184	M/s. Gujraj Associated Carriers Private Limited
34.	046738	M/s. Eenita Marketing India Private Limited	67.	048721	M/s. Bright Transport Company Private Limited
35.	046545	M/s. Amarpali Mercantile Limited	68.	043078	M/s. Khater Holdings Private Limited
36.	046167	M/s. Chesterfield Finance Private Limited	69.	043083	M/s. Esay Investments & Consultant Private Limited
37.	048523	M/s. Golyan Polymers Private Limited	70.	043275	M/s. Purvanchal Bearings Limited
38.	048600	M/s. Sabina Enterprise Private Limited	71.	043290	M/s. Tulip Apartments Private Limited
39.	048701	M/s. Sathi Trade Private Limited	72.	043151	M/s. S. J. Electro Systems Private Limited
40.	095524	M/s. Surjyamadhab Trading Private Limited	73.	095495	M/s. Procyon Networks & Solutions (India) Private Limited
41.	095380	M/s. Virtual Image Solutions Private Limited	74.	095362	M/s. Andromeda Information Management Solutions Private Limited
42.	043089	M/s. Pushpa Marketing Private Limited	75.	043302	M/s. Jay Consultants Private Limited
43.	048745	M/s. Flagon Breweries Private Limited	76.	043117	M/s. Strongarm Equipments Private Limited
44.	043073	M/s. East India Veneers Private Limited	77.	025946	M/s. Kutttyco Engineetring & Export Private Limited
45.	048352	M/s. Naval Rosin Private Limited	78.	043074	M/s. Polar Chem Coats Limited
46.	043166	M/s. Foremost Fuels Private Limited	79.	095424	M/s. Hi-Tech Call Centre Private Limited
47.	043070	M/s. Special Rubber (India) Limited	80.	043111	M/s. Forerunner Cine Enterprise Private Limited
48.	043091	M/s. Ferro Rex India Private Limited	81.	094687	M/s. Alliance Tea Company Private Limited
49.	095465	M/s. Rejoin Plastics Private Limited	82.	043448	M/s. Bhadani Tobacco Undyog Private Limited
50.	095306	M/s. PPS Enviro Power Private Limited	83.	043637	M/s. Starline Commercial Private Limited
51.	095426	M/s. Malancha Construction Company Private Limited	84.	043474	M/s. Jagannath Polythene Industries Private Limited
52.	043093	M/s. Atlas Housing & Properties Private Limited	85.	043341	M/s. Rapid Printing Company Private Limited
53.	043167	M/s. T. L. R. Construction Eastern Private Limited	86.	043523	M/s. Ishan Ayurvedic Drugs Private Limited
54.	048311	M/s. Style Developers Private Limited	87.	043312	M/s. Sant Kabir Rolling Mills Private Limited
55.	048731	M/s. Anand Bearing Company Private Limited	88.	043547	M/s. Mass Engineering Private Limited
56.	095316	M/s. Interlink Rockkiln Private Limited			
57.	048662	M/s. Sigma Safety Equipments Private Limited			
58.	095289	M/s. Vedant Distributors Private Limited			
59.	043102	M/s. Network Marketing Agency Private Limited			
60.	093600	M/s. Vulcan Marketing & Services Limited			
61.	043069	M/s. Nisha Apcons Private Limited			
62.	095481	M/s. Envision Entertainment Private Limited			

HARI HARA SAHOO
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Hyderabad, the 15th December 2011

No. ROC/560(5)/EES-2011/VSJ/1- 167/2011 - Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the companies Act, 1956, that the names of under mentioned Companies from serial Number 1 to 167 have been struck off from the Register and the said the companies are dissolved:-

Sl. No	CIN	Name of the company
1.	U74140AP2005PTC045121	TNS MODE PRIVATE LIMITED
2.	U01119AP2007PTC053254	SIPROGEN BIOTECH PRIVATE LIMITED
3.	U65910AP1993PLC016482	PRIVILEGE BUILDERS LIMITED
4.	U40105AP2007PTC056829	BSCPL-SCL-SIKKIM POWER PRIVATE LIMITED
5.	U70102AP2006PTC048652	KAIZEN AVENUES PRIVATE LIMITED
6.	U45200AP1987PTC008025	P K CONSTRUCTIONS PVT LTD
7.	U45200AP1987PTC008031	POORNIMA CONSTRUCTIONS PVT LTD
8.	U72200AP2000PTC035416	SAFFRON SOFTWARES PRIVATE LIMITED
9.	U28113AP2008PTC057718	E-MAN IRON AND STEEL PRIVATE LIMITED
10.	U72200AP1993PTC015636	SONIA COMPUTER SYSTEMS PVT LTD
11.	U72200AP1990PTC011350	STELLAR SOFTWARE PRIVATE LIMITED
12.	U72200AP2007PTC054920	REAL VISION INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
13.	U29299AP2003PTC040876	ANTHARIKSH INVERTERS PRIVATE LIMITED
14.	U74900AP2007PTC055081	SAI PURNASUDHA COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
15.	U17119AP2005PTC047067	S.J.S. SOLAR AND BIO ENERGY PRIVATE LIMITED
16.	U45201AP1999PTC032849	GIRI SIKHARA PROJECTS PRIVATE LIMITED
17.	U72200AP1997PTC026700	BPR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
18.	U74300AP1994PTC017301	BYNOX COMMUNICATIONS PVT LTD
19.	U74140AP2005PTC046173	SAGITTARIUS MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
20.	U74999AP2001PTC038021	WELSET SERVICES PRIVATE LIMITED
21.	U92490AP2007PTC053129	UBIQUE ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
22.	U51909AP2004PTC043031	SAIDATTA AGENCIES PRIVATE LIMITED
23.	U01222AP1993PTC015977	SOVEREIGN AQUA FEEDS PVT. LTD.
24.	U51909AP2006PTC050590	MARAM IMPEX PRIVATE LIMITED
25.	U72900AP2002PTC038488	SANFUS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
26.	U72200AP2007PTC053077	NETZGATE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
27.	U93000AP2007PTC053945	PRASAA PROCESSING SERVICES PRIVATE LIMITED
28.	U45200AP1987PTC007413	EVEREST CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
29.	U45200AP2007PTC052990	JESTER INFRACON & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
30.	U24239AP1995PTC019462	JANAHITHA MEDICARE PRIVATE LIMITED
31.	U70102AP2008PTC058043	SRI RADHA AMRUT DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
32.	U15142AP1987PTC007219	BABU AGRO OILS PVT. LTD.
33.	U70102AP1987PTC008027	BAY VIEW ESTATES PVT LTD
34.	U72200AP2006PTC048929	SCUBEL TECHNOLOGIES PVT LTD
35.	U05005AP2000PTC034985	PURAVI MARINE PRIVATE LIMITED
36.	U45200AP1996PTC025231	ATELIER BUILDING SERVICES PRIVATE LIMITED

37.	U15541AP1993PLC015229	RAMAKRISHNA DISTILLERIES LTD
38.	U65992AP2005PTC046078	HAPPY HOME CHITS PRIVATE LIMITED
39.	U01120AP1996PLC023759	ENNARAI ESTATES AND FARMS LIMITED
40.	U25199AP2000PTC035600	INDO-KENT PLASTICS PRIVATE LIMITED
41.	U40102AP2007PTC054480	SOUTH COAST POWER DEVELOPMENT COMPANY OF ANDHRA PRADESH PRIVATE LIMITED
42.	U70102AP1995PTC021162	KRISHNAJA ESTATES PRIVATE LIMITED
43.	U45201AP1998PTC030104	SRIKAR ENTERTAINMENTS PRIVATE LIMITED
44.	U45200AP1995PTC021891	SRIKHAR ESTATES PRIVATE LIMITED
45.	U15421AP1995PLC020829	YELLAMANCHILI SUGARS LIMITED
46.	U01119AP1995PLC020843	YELLAMANCHILI AGRI TECH LIMITED
47.	U45200AP2007PTC053704	CHALLA INFRASTRUCTURE AND HOUSING PRIVATE LIMITED
48.	U40109AP2006PTC050790	MARATHWADA POWER PRIVATE LIMITED
49.	U70100AP1988PTC008955	PREM PRAKASH CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED.
50.	U72900AP2002PTC038298	OCTAD SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
51.	U72200AP2007PTC055037	ADSMART MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED
52.	U51909AP1993PLC015243	SISTLA INDUSTRIES LIMITED
53.	U72200AP2004PTC043631	THUMMAS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
54.	U15314AP1924PTC000046	THE KANCHIKACHERLA SRI KANYAKAPARAMESWARI (NO.2) GIN FACTORY PRIVATE LIMITED
55.	U66020AP2003PTC040730	PACT INSURANCE BROKERS PRIVATE LIMITED
56.	U72200AP2005PTC047283	SPEKON RAIL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
57.	U72200AP2000PTC035439	SOFTCHIP TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
58.	U72200AP2004PTC042835	NOVAPOINT SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
59.	U72200AP2000PTC034098	TRUSTEK.COM PRIVATE LIMITED
60.	U74999AP2008PTC057102	NAVEGIRAY TRADING PRIVATE LIMITED
61.	U67120AP1992PTC014248	D.C.SHARE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
62.	U27109AP1998PTC028887	SANGRAM CASTINGS PRIVATE LIMITED
63.	U45209AP2004PTC043502	YARRAM ENGINEERS PRIVATE LIMITED
64.	U01132AP1996PTC023974	RAJA RAJESHWARI GREEN FARMS PRIVATE LIMITED
65.	U64203AP2001PTC037038	CHIP MAGIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
66.	U72200AP2000PTC035487	BEENET ONLINE PRIVATE LIMITED
67.	U40101AP2006PTC051635	PALCHURAM HYDRO POWER PROJECT PRIVATE LIMITED
68.	U72200AP1997PTC026737	GMB SYSTEMS PRIVATE LIMITED
69.	U85195AP1996PTC024960	SWARNA DIAGNOSTIC SERVICES PRIVATE LIMITED
70.	U72200AP2004PTC042555	JMK SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
71.	U72200AP2008PTC057046	FINE SOFTWARE SOLUTIONS (INDIA) PRIVATE LIMITED
72.	U72200AP2006PTC049063	RAGO MEDIA SOFT INDIA PVT LTD
73.	U01119AP2003PTC041255	SRI LA AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
74.	U18100AP1990PTC011162	BHAVANI SHANKARA TEXTILES MILLS PRIVATE LIMITED
75.	U40109AP2004PTC044844	VIKRANT POWER PRIVATE LIMITED
76.	U72200AP1998PTC029245	CHADA INFOTECH PRIVATE LIMITED
77.	U24231AP1999PTC032198	KEMOTHERAPIOK DRUGS PRIVATE LIMITED

78.	U27109AP1990PTC011792	SIMHAPURI STEELS PRIVATE LIMITED
79.	U70102AP2002PTC038874	SRI YASASWINI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
80.	U72200AP1998PTC029187	EFFECT CONSULTING (INDIA) PRIVATE LIMITED
81.	U32204AP2000PLC033354	HEURISTIC SOFTWARE TECHNOLOGIES LIMITED
82.	U72200AP2004PTC044692	TRILOGIX SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
83.	U72200AP2007PTC055879	PRAGYAA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
84.	U74140AP2006PTC049640	BOBBYS PNGK OVERSEAS EDUCATION AND STAFFING SERVICES PRIVATE LIMITED
85.	U64203AP2002PTC039225	KHAMMAM AIRNET SERVICES PRIVATE LIMITED
86.	U72200AP1999PTC031902	SAI ANJANA INFOTECH PRIVATE LIMITED
87.	U72200AP2006PTC051273	FEDERAL SOFTWARE SOLUTION PRIVATE LIMITED
88.	U51109AP1996PTC025272	VEDAVYAS AGENCIES PRIVATE LIMITED
89.	U01119AP1993PTC015272	SESHACHALA AGRO FARM PVT LTD
90.	U67120AP1993PTC015360	MEHER DATA SERVICES PRIVATE LIMITED
91.	U15143AP1989PTC009900	RAAVELA AGRO PVT LTD.
92.	U74140AP2004PTC044686	VAYHAN IMPEX PRIVATE LIMITED
93.	U24110AP1985PTC005475	YERRAMILI CHEMICALS PVT LTD
94.	U01119AP2007PTC055118	BANJARA AGRO PRIVATE LIMITED
95.	U92141AP2007PTC056267	YELLOW LEAF MEDIA WORKS PRIVATE LIMITED
96.	U72200AP1995PTC021653	KOREAN TECHNOLOGIES AND TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
97.	U01119AP1995PTC023123	DATLA AGRO-TECH AND ESTATES PRIVATE LIMITED
98.	U92111AP1989PTC009873	VINODA VIDEOTRONICS PVT LTD.
99.	U74140AP2004PTC042833	SDI RESOURCE MANAGEMENT PRIVATE LIMITED
100.	U05005AP1994PLC016858	HITECH AQUA ESTATES LTD
101.	U72200AP1993PLC016178	SDE DIGIMORPHIX LIMITED
102.	U72200AP1998PTC029898	STRATEGIC CYBERLABS PRIVATE LIMITED
103.	U24232AP1984PTC004622	EVEREST REMEDIES PVT LTD
104.	U65993AP1997PLC027086	RAHUL TEJA FINANCE LIMITED
105.	U65910AP1985PTC005879	ABHIJEET FINANCE PVT LTD
106.	U72200AP1989PTC010540	TREND EDUCATIONAL ACADEMY PVT LTD
107.	U33111AP2007PTC053283	BPM LABS PRIVATE LIMITED
108.	U24230AP1994PTC016938	AYYAPPA DRUGS AND CHEMICALS PVT LTD
109.	U65992AP1993PTC016594	SREEVAASA CHIT FUND PVT LTD
110.	U67190AP2002PTC038402	V AND M CREDIT CARD SERVICES PRIVATE LIMITED
111.	U45200AP2006PTC049994	A.V. PROJECTS (INDIA) PRIVATE LIMITED
112.	U55101AP2004PTC043350	NEELAMBARI HOTELS PRIVATE LIMITED
113.	U29219AP1998PTC030672	JOSEPH CAMOENS EXIM (INDIA) PRIVATE LIMITED
114.	U72200AP2005PTC047228	S4 - TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
115.	U01222AP2004PTC042923	SA HATCHERIES PRIVATE LIMITED
116.	U05004AP1997PTC027761	SRINIDHI MARINE PRODUCTS PRIVATE LIMITED
117.	U16000AP1997PTC027095	PAWAN TOBACCOS PRIVATE LIMITED
118.	U19202AP1999PTC032484	HI-TECH VINYLs AND POLYMERS PRIVATE LIMITED
119.	U45200AP2007PTC056355	MAYFAIR HANSON PROPERTIES PRIVATE LIMITED

120.	U52110AP1991PTC013306	PRABHAVA EXPORTS PRIVATE LIMITED
121.	U15549AP2002PTC039335	VSK FOODS PRIVATE LIMITED
122.	U15147AP2001PTC037825	SENSATION COMMODITY EXIM PRIVATE LIMITED
123.	U52520AP1989PTC009677	FUTURA MANUFACTURERS AND MARKETES PVT LTD
124.	U93000AP2007PTC053816	INTEGRATED INSPECTION SERVICES PRIVATE LIMITED.
125.	U33112AP1997PTC028505	JUBILEE HOSPITALS PRIVATE LIMITED
126.	U67120AP1998PTC029885	SUNDIAL HOLDINGS PRIVATE LIMITED
127.	U74900AP2007PLC054485	CHALLA MEDIA LIMITED
128.	U72200AP2006PTC049633	DECCAN MULTI SOURCING PRIVATE LIMITED
129.	U65992AP1986PTC006735	SURYA REAL ESTATES AND CHITS PRIVATE LIMITED
130.	U45200AP1993PTC015761	BONGU CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
131.	U45200AP2005PTC046697	ABHIRAMA HOMES (INDIA) PRIVATE LIMITED
132.	U25199AP1988PTC008400	DEEPIKA RUBBER INDUSTRIES PVT LTD
133.	U72200AP2008PTC057002	HEGEMON SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
134.	U13209AP1992PLC014395	PRAWNEX SEAFOODS INTERNATIONAL LIMITED
135.	U72200AP1999PTC032555	PROLOGIX TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
136.	U24239AP2003PTC042054	CUROL PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
137.	U72900AP1998PTC029375	GATEWAY INTERNET SERVICES PRIVATE LIMITED
138.	U74999AP1994PTC018010	SRI BANSAL TEX PRINTS PRIVATE LIMITED
139.	U11100AP2007PTC055231	B. SESHAGIRI RAO PETROLEUM PRODUCTS DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED (PART IX)
140.	U23209AP2007PTC055281	JAYASREE PETROLEUM DISTRIBUTORS PRIVATE LIMITED (PART IX)
141.	U18101AP2006PTC051364	OCEAN READYMADES PRIVATE LIMITED
142.	U72200AP1998PTC030472	MEGASOFT INTERNATIONAL (INDIA) PRIVATE LIMITED
143.	U24230AP2006PTC049374	GARLAPATI SAMBASIVA RAO PLANTATION PRIVATE LIMITED
144.	U24110AP1994PLC018298	RAMBIK CHEMICALS LIMITED
145.	U72900AP2002PTC038775	AVAGAMA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
146.	U74140AP2005PTC046894	MANTLE CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
147.	U01110AP1995PLC021527	RLR HOLIDAY RESORTS LIMITED
148.	U74999AP2005PTC045303	INNOSPRING IMPEX PRIVATE LIMITED
149.	U72200AP2006PTC049122	SAMUDITA TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
150.	U27107AP1986PTC006546	TAPSI ISPAT UDYOG PRIVATE LIMITED
151.	U92111AP2006PTC049117	SEVENTH SENSE MOVIES PVT LTD
152.	U65993AP1992PTC013800	SWA NIWAS LEASING AND INVESTMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
153.	U65990AP1995PTC020666	BHASKAR NARAYAN FINANCE COMPANY PRIVATE LIMITED
154.	U65910AP1988PTC009255	L.BAJRANG PERSHAD LEASING AND

		INVESTMENT PVT LTD.
155.	U65993AP1998PLC030423	GSL CAPITALS LIMITED
156.	U65921AP1997PTC026172	ADOKSHAJA FINVEST PRIVATE LIMITED
157.	U67120AP1995PLC019334	SRI SRI SECURITIES LIMITED
158.	U65920AP1995PTC020527	TRUST WORTH FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
159.	U65993AP1995PLC021038	A.V.R. FINANCE LIMITED
160.	U65993AP1991PLC013000	MARICHI FINANCE AND LEASING LIMITED
161.	U65910AP1996PTC025711	GINDODIYA FINANCE AND LEASING PRIVATE LIMITED
162.	U65992AP2003PTC042095	SHUBHANGAM CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
163.	U65910AP1996PTC025037	MAMATHA FINANCE PRIVATE LIMITED
164.	U65921AP1982PLC003389	SRI EAST COAST HIRE PURCHASE LTD
165.	U65191AP2005PTC046476	INTELLIGENTIA FINANCIAL MANAGERS PRIVATE LIMITED
166.	U65910AP2003PTC041507	SHARNE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
167.	U65993AP1986PTC006943	KAKATIYA INVESTMENTS PVT. LTD.

(V.SANTOSHI JAGIRDAR)
ASSISTANT REGISTRAR OF COMPANIES,
ANDHRA PRADESH

In the matter of the Companies Act, 1956 and of the following Companies

Chennai, the 14th December 2011

No. 12 to 74963/560(5)/2011—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956 that the names of undermentioned companies from Serial Number 1 to 167 have this day been struck off the register and the said companies are dissolved :—

Sl.No.	Co.No.	NAME OF THE COMPANY
1	12	ASSOCIATED PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
2	103	THE MADRAS MEDICAL & GENERAL SUPPLIES LIMITED
3	160	AHIMSA PROVIDENT ASSURANCE LIMITED
4	216	BHAGAT INDUSTRIES & COMMERCE LTD
5	370	CORDIAL ENGINEERING COMPANY (COIMBATORE) LIMITED
6	704	EAST INDIA CORPORATION LIMITED
7	807	GRAMA URPATHIYALAR VARTHAGA CORPORATION LIMITED
8	914	INDIAN CIRCAR INSURANCE COMPANY LIMITED
9	946	INDO-GERMAN AGENCIES LTD.
10	1236	KRISHNA OIL MILLS & INDUSTRIES LIMITED
11	1441	MADRAS COMMERCIAL CORPORATION PRIVATE LIMITED
12	1479	MODERN HOUSING CONSTRUCTION & PROPERTIES LIMITED
13	1574	MADRAS LIFE ASSURANCE CO LIMITED
14	1688	MADURA MANUFACTORIES LIMITED
15	1718	MUTHU MANI LTD
16	1979	P NATESAN & CO LTD
17	1983	PREMIER INDIAN SCIENTIFIC COMPANY LIMITED
18	2074	PANDYAN INSURANCE COMPANY LIMITED
19	2124	PUDUKOTTAI INDUSTRIES LIMITED
20	2225	RAJHANS OIL & SOAPS INDUSTRIES LTD
21	2409	S I T U PUBLICATIONS LTD
22	2419	SUNRISE CORPORATION LTD
23	2433	SOUTH INDIA AUTOMOTIVE CORPN LIMITED
24	2584	SUNDARAM & COMPANY LIMITED
25	2747	SRI SUNDARAM DYEING AND WEAVING COMPANY LIMITED
26	3001	TAMILNADU PORUL NILAYAM LTD
27	3183	VANGUARD PROVIDEN ASSURANCE CO LTD
28	3478	PILCO GLASS COMPANY LTD.

29	3498	BALARAMA VARMA TEXTILE LTD
30	3542	KALAIMAGAL CORPORATION LIMITED
31	3890	SRI AYYAPPASWAMI BUS TRANSPORT LIMITED
32	4278	INTRAC PHARMACEUTICALS LTD
33	4673	MADRAS TUBE CO LTD
34	4813	NAGANATHAR MOTOR SERVICE LIMITED
35	4912	RASAYAN COMPANY LIMITED
36	5065	ARCOT PADDY & RICE KALANJAM LIMITED
37	5219	INDIAN FILM WEAVERS LIMITED
38	5261	HOTEL RITA LTD
39	5326	VELLORE LORRY OWNERS ASSOCIATED BOOKING SERVICE LTD
40	5359	BEST PHARMACEUTICALS LIMITED
41	5376	MOUNT ROAD PROPERTIES LIMITED
42	5380	MATHURA ROAD PROPERTIES LIMITED
43	5383	GANGAPPA EXPORTS LTD
44	5393	SRI BALAJEE LEASING SERVICES LIMITED
45	5458	CHALLAPALLI CEMENTS LIMITED
46	5511	PADMALAYA AUTO COMPLEX LIMITED
47	5601	SRI MUTHU THEATRES LIMITED
48	5663	GOODWILL BULK CARRIERS LTD
49	5731	ALL BOOKS CHAMBER LIMITED
50	5765	CAPE COMORIN FISH INDUSTRIES LIMITED
51	6041	STAR AGRO INDUSTRIES LIMITED
52	6079	SOUTH INDIA BREWERIES LIMITED
53	6119	MADRAS PROCESS CHEMICALS LIMITED
54	6217	TAMILNADU SYNTHETIC FIBRES LIMITED
55	6445	INTERNATIONAL GENERAL AGENCIES LIMITED
56	6487	TAMILNADU CERAMICS LIMITED
57	6537	MERCURY MACHINE TOOLS LIMITED
58	6551	ASOKA BATTERY LIMITED
59	6716	BHARAT TYRES LIMITED
60	6724	SHOLINGHUR GRANITES PRIVATE LIMITED
61	6903	AJANTA TOURISM DEVELOPMENT LIMITED
62	8051	MADURAI DISTRICT COOLY RICE-FLOUR MILL OWNERS ASSOCIATION STORES LTD
63	8480	SYMBIOTIC LABORATORIES PRIVATE LIMITED
64	8578	GOLD STONE LABS LTD
65	8636	SREE SAKTHI CARRIERS LIMITED

66	8792	S & S PAPER INDUSTRIES LIMITED
67	8951	SINDOORI SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
68	8963	R. G. OVERSEAS LIMITED
69	9009	DIDWANIA MERCANTILE CO LTD
70	9710	ZHANA GLASS WORKS LIMITED
71	9801	K C R SHIPPING COMPANY LIMITED
72	10030	GOMUKI COTTON MILLS LTD
73	10055	FORT AGENCIES PRIVATE LIMITED
74	10364	PONDICHERRY PLASTICS LIMITED
75	10475	INDO-TAN LTD
76	10654	ROVSING WALLACE INTERNATIONAL LIMITED
77	10792	ASSOCIATED JOURNALS (MADRAS) LIMITED
78	11005	DHANALAKHMI FOUNDATIONS INDIA LIMITED
79	11263	COROMANDEL SHOES LIMITED
80	11299	TESCONICS LIMITED
81	11448	CLIPPER FISHERIES LIMITED
82	11508	ANDAL ENGINEERS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
83	11549	ACE BUSINESS FINANCE COMPANY LIMITED
84	11909	TOWERS AND STRUCTURALS PRIVATE LIMITED
85	11917	NORTON POLYMERS LIMITED
86	12285	SAHAYEE FISHERIES PRIVATE LIMITED
87	12700	CAD MACHINES LIMITED
88	12783	JAIPRIYA HOLDINGS LIMITED
89	13013	B.M.ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
90	13034	GEO THERMALS (INDIA) PRIVATE LIMITED
91	13047	WELCOME ALLOYS PRIVATE LIMITED
92	13050	EL-WIN TECHNOCRATS PRIVATE LIMITED
93	13058	BRAIN MACHINE PAPERS PRIVATE LIMITED
94	13064	GEO REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
95	13077	DELTA SEAFOOD PRIVATE LIMITED
96	13078	JOSACHITH MARINE PRIVATE LIMITED
97	13086	ASOKA POLY PACK PRIVATE LIMITED
98	13100	TAMILNADU TOURISM INTERNATIONAL RESORTS LIMITED
99	13103	HOOLYWOOD TRAVELS PRIVATE LIMITED
100	13107	HYDRA MARINE VENTURES PRIVATE LIMITED
101	13109	RANA HOTELS PRIVATE LIMITED
102	13111	VENUS METAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED

103	13113	MASLIN WIRE PRODUCTS PRIVATE LIMITED.
104	13117	MOTHERLAND PICTURES PRIVATE LIMITED
105	13262	SAMUDHRIKA TRAWELER LTD
106	13266	NAHAR & NAHAR FINANCE LTD
107	13367	TAMILNADU EXPORT PROCESSORS LIMITED.
108	13521	PALACE SEA FOODS PRIVATE LIMITED
109	13527	SUHAIL EXPORTS PRIVATE LIMITED.
110	13528	STANFORD PHARMA PRIVATE LIMITED
111	13534	SOUFLOU PRODUCTS PRIVATE LIMITED
112	13566	KOMALA EXPORTS PRIVATE LIMITED
113	13567	BINARY BUSINESS MACHINES PRIVATE LIMITED
114	13568	SARVOTTAM POLY PACKS PRIVATE LIMITED
115	13596	TAMILNADU BUILDERS FINANCE LIMITED.
116	13682	CROWN CLOSURES PRIVATE LIMITED
117	13794	SHIV KUMAR STEEL PRIVATE LIMITED
118	14117	INDIAN ROYAL CEMENTS LIMITED
119	14125	BHARAT OCEAN AIDS LIMITED
120	14192	NELLAI SIVAGIRI CHEMICALS PRIVATE LIMITED
121	14298	AGRO HANDY PACKS PRIVATE LIMITED
122	14681	BULLMAN LEATHERS PRIVATE LIMITED
123	14925	WATAN SHOES PRIVATE LIMITED
124	14951	ESS PEE ENGINEERS PRIVATE LIMITED
125	14965	SRE POWERMEN ELECTRICALS PRIVATE LIMITED
126	14967	KNS SIVAMM INVESTMENT & FINANCE PRIVATE LIMITED
127	14971	CITYWEAR APPARELS PRIVATE LIMITED
128	14977	ZEESHANN IMPORT AND EXPORT COMPANY PRIVATE LIMITED
129	14979	MECOY ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
130	14986	SIBI EXPOTS PRIVATE LIMITED
131	15044	SIVAPRAKASAM SHOE UPPERS PVT LTD
132	15164	MALACK SHOES LIMITED
133	15168	SUNTRUST FINANCE PRIVATE LIMITED
134	15208	HITAH VISION PRIVATE LIMITED
135	15363	IMEL INVESTMENTS LIMITED
136	15389	IME HIRE PURCHASE LIMITED
137	15537	SRISAN INVESTMENT AND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
138	15681	ARUNA MARUTHAI HOTELS LIMITED
139	15777	TAMILNADU MEDICAL EQUIPMENTS LIMITED

140	15874	ALFA ELECTRONICS LIMITED
141	15976	KILBURN STARTERS LTD.
142	16313	RAMA MARUTHI FINANCE PRIVATE LIMITED
143	16921	ARUNA FOODS LIMITED
144	18168	PALMGROVE EXPORTS PRIVATE LIMITED
145	18434	MALIN BRICKS PRIVATE LIMITED
146	18571	RC HOLDINGS LIMITED
147	18613	AIR ASIATIC LIMITED
148	18623	ASMA PROPERTIES PRIVATE LIMITED
149	18715	GOLDEN NUTS LTD
150	18953	SONIA AGRO PRODUCTS LTD
151	18994	SICON ELECTRONICS LIMITED
152	19275	STERLING NITRO CHEMICAL LTD
153	19295	ATLANTA FOODS AND PHARMACEUTICALS LIMITED
154	19299	MAGROW HOTELS LTD.
155	19599	PRIYA MEDIA CREATIONS PRIVATE LIMITED
156	19905	KANMANI HYPEPURCHASE FINANCE LIMITED
157	19919	SWAN TRANSPORTS LIMITED
158	19981	TELUNGAPATTY SRI BAGHAVATHIAMMAN TEXTILES LIMITED
159	20150	ARAFATH GARMENTS LTD
160	20421	SRIRAM FLATS PRIVATE LIMITED
161	20624	MANAR HOLDINGS LIMITED
162	20701	SUN-ALUMINIUM EXTRUSION LTD
163	20785	TAMILNADU AGRO POWER LIMITED
164	20797	NEO LEATHERS LIMITED
165	20883	J.L.NARAYANA ASSOCIATES LIMITED
166	21227	ORBIT CREDITS LIMITED
167	21254	WINNER TEXTILES LIMITED
168	21319	THIAGU CONSTRUCTIONS AND REAL ESTATES LIMITED
169	21403	HOME DEVELOPMENT OF INDIA LTD
170	21410	CHANDRA SPORTS PRIVATE LIMITED
171	21457	SREE SAI SPINNING MILLS LIMITED
172	21538	MAX-INDIA COMPUTERS LIMITED
173	21681	SRI LAKSHMI SUNDARAM SPINNERS PRIVATE LIMITED
174	21761	PENGUIN MARKETING LIMITED
175	21775	LAKSHMI SWISS FRUIT PULP PROCESSING COMPANY LIMITED
176	21839	EXPOMARINE INTEGRATED SEAFOODS LIMITED

177	21925	KURINJI RESORTS LIMITED
178	21926	RVS HOUSING DEVELOPMENT LIMITED
179	22071	SHIVARAJ PUBLICATION LIMITED
180	22092	CHENNAI AGRO-TECH AND STONES LIMITED
181	22169	NADA PUBLICATION LIMITED
182	22258	SENTHUR METASTRIPS LIMITED
183	22314	R.K.AURUM(INDIA)LIMITED
184	22614	AGNI COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
185	22629	ACUBA CHEMICAL PROJECTS LIMITED
186	22650	STERLING DIRECTORIES LIMITED
187	22756	PERFECT COTTON LIMITED
188	22757	PERFECT MARINE PRODUCTS LIMITED
189	22792	SOUTHERN MUSHROOMS LIMITED
190	22934	ARUNA MUNOTH EXPORTS LIMITED
191	22951	RAMANATH TREE GROUP LTD
192	22990	DHAYA SOAPS LTD
193	23192	AUSIND EXPORTS LIMITED
194	23274	FINGER PUBLISHERS LIMITED
195	23327	REAL GROWTH FINANCIAL SERVICES LIMITED
196	23345	YESPE SEA FOOD INDUSTRIES LIMITED
197	23516	REAL GARDENCITY ESTATES LIMITED
198	23698	PARTHASARATHI TEXTILES LIMITED
199	23833	RANKA & RANKA FINANCIAL CONSULTANTS LIMITED
200	23944	KMS OILS & EXTRACTIONS INDIA LIMITED
201	24013	NELLAI KATTABOMMAN CEMENTS LIMITED
202	24094	FRENCH AIR CARRIERS INTERNATIONAL LTD
203	24159	TRENT PAPER MILLS LIMITED
204	24205	TRINITY CONSTRUCTIONS (MADRAS) LIMITED
205	24235	AARCEE FINANCIAL AND MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
206	24503	TOWER INVESTMENTS INDIA PRIVATE LIMITED
207	24789	B.S.SUPER ALLOYS PRIVATE LIMITED
208	24890	UTHAYAM FINANCIAL SERVICES (INDIA) LIMITED
209	25028	MANOSHANTI FILMS LIMITED
210	25328	SOUTH EAST TECHNOLOGY LIMITED
211	25330	RADHU MARKETING PRIVATE LIMITED
212	25483	SHEVAS ORGANICS AND ALLIED CHEMICALS PRIVATE LIMITED
213	25695	DHANALAKSHMI FERRO ALLOYS LIMITED

214	25835	MEGASTAR UTILITIES LIMITED
215	26013	CHINNA-GURU EARTHMOVERS PRIVATE LIMITED
216	26067	CRESTRINK ORCHARDS INDIA LIMITED
217	26084	SWARNA CHITS (MADRAS) PRIVATE LIMITED
218	26125	MAGAM HOUSING INDIA LIMITED
219	26161	PEARLCITY COMPUTER AND GRAPHIC PRIVATE LIMITED
220	26264	INNOVATION LEATHER EXPORTS LIMITED
221	26349	RAM-ROM SOFTWARE LIMITED
222	26424	BHARAT CREDIT RATING AGENCY LIMITED
223	26525	ESWAR GROW TEK LIMITED
224	26564	FANTASTEAK PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
225	26668	ACHUTHA FINLEASE (MADRAS) PRIVATE LIMITED
226	26794	DELTA AQUACULTURE LIMITED
227	26795	XL GRANITES (INDIA) LIMITED
228	26963	JYOTI SECURITIES LIMITED
229	27028	NEERAJAS LEXPORTS LIMITED
230	27097	PROPS FINANCIAL & ADVISORY SERVICES (MADRAS) LIMITED
231	27184	J.J.I.EXPORTS LIMITED
232	27188	N.S.A. EXPORTS (INDIA) LIMITED
233	27269	MKN CYLINDER LINERS PRIVATE LIMITED
234	27284	PUGALANTHI FINANCE AND INVESTMENTS (INDIA) LIMITED
235	27325	MESU AQUA FARMS AND EXPORTS LIMITED
236	27358	TOP SEED AGRO LIMITED
237	27436	ADITYA COTSPIN INDIA LIMITED
238	27513	N.A.NAVANEETHAN PROJECT CONSULTANTS LIMITED
239	27590	SHANPLAST INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
240	27633	MIST FARMS & ESTATES LIMITED
241	27786	INNOVATION TELEFILMS LIMITED
242	27787	INNOVATION AGRO PRODUCTS LIMITED
243	28056	RAJ BALAJE FILMS PRIVATE LIMITED
244	28133	SUPRABAATH FARMS AND RESORTS LIMITED
245	28299	SAPPHIRE AQUA (INDIA) LIMITED
246	28314	PECHEASE EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
247	28338	GLOBAL RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGIES LIMITED
248	28354	KTP CYLINDER LINERS PRIVATE LIMITED
249	28453	KRISHIRA IMPEX LIMITED
250	28525	CELL TECH COMMUNICATIONS INDIA LIMITED

251	28554	SOUTHEAST HATCHERIES PRIVATE LIMITED
252	28623	SWAN SECURITIES AND INVESTMENTS LTD
253	28641	DHARMA LEATHER EXPORTS LIMITED
254	28771	SHAH TRADE CREDITS LIMITED
255	28879	RAVI ROPES LIMITED
256	29192	MACHINKAST FOUNDRIES PRIVATE LIMITED
257	29231	SIVASUTHA FINANCIAL SERVICES LIMITED
258	29359	GLOBE CERAMICS LIMITED
259	29479	MOTHERLAND PLANTATIONS & CATTLE RESORTS INDIA LIMITED
260	29516	MONEYCRAFT STOCK & SHARES LIMITED
261	29560	NEEMEX INDIA LIMITED
262	29580	SNEHAAM AGRO INDUSTRY AND EXPORTS LIMITED
263	29650	PENINSULA AQUAFARMS LIMITED
264	29691	BHANDARI PHOTO FILMS (INDIA) LIMITED
265	29702	MAXIMA FARMS & RESORTS PRIVATE LIMITED
266	29703	MAXIMA CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
267	29718	EBF STOCKS & SECURITIES LIMITED
268	29803	JAYARAM FLORICULTURE INDO-HOLLAND LIMITED
269	30097	TOP TOWERS INDIA LIMITED
270	30126	SRESANS FINANCIAL SERVICES LIMITED
271	30157	RUBY GEMTEX INDIA LIMITED
272	30165	MITEC INDUSTRIES LIMITED
273	30214	KAVINI EXPORTS LIMITED
274	30405	PEE DEE BUILDERS LIMITED
275	30455	MAGNUM HEAVY EQUIPMENTS LIMITED
276	30537	GLOBAL E-SYSTEMS LIMITED
277	30598	GALAXY AIRWAYS LIMITED
278	30643	EAST INDIA LEATHERS LIMITED
279	30746	SREE LAKSHME MINERALS & EXPORTS PRIVATE LIMITED
280	30818	TRISUL AGRO-LIVESTOCK RANCH LIMITED
281	30848	ROYAL LEATHER HOUSE PRIVATE LIMITED
282	31189	JEEVAN HOUSING LIMITED
283	31246	SUNBHAV FARMS FAND RESORTS LIMITED
284	31311	SRI CHAKARA HOUSING FINANCE AND DEVELOPMENT LIMITED
285	31315	ASTRO DRUG AND PHARMA LIMITED
286	31342	ALP HITECH INFORMATION LTD
287	31347	ALMETAL RECYCLERS PRIVATE LIMITED

288	31348	CHEETA INDUSTRIES LIMITED
289	31358	KOTHARI ORIENT INVESTMENTS LIMITED
290	31436	SANJANA CONSTRUCTIONS LIMITED
291	31470	HITECH CYLINDERS INDIA LIMITED
292	31500	CONTECH SERVICES & AGENCIES PRIVATE LIMITED
293	31565	FISCHER INSTRUMENTS LIMITED
294	31572	COROMANDEL ABRASIVE & DIAMOND TOOLS LIMITED
295	31573	ALP AGRO PRODUCTS LIMITED
296	31680	RSL GOLDEN SHELTERS LIMITED
297	31699	MAPLEY CHEMICALS AND PHARMACEUTICALS LIMITED
298	31704	LAMBREY HATCHERY LIMITED
299	31728	BARGUR TEXTILES LIMITED
300	31742	ZENWELL CONTROLS LIMITED
301	31751	ABILASHA FLORICULTURE AND AGROTECH LTD
302	31761	VIJAY SPAWN PRODUCTS LIMITED
303	31765	CLASSIC COMPUTER SERVICES PRIVATE LIMITED
304	31816	EDS CONSULTANCY LIMITED
305	31822	MUKTHA SILICON IMAGES LIMITED
306	31907	CHETTINAD FINANCIAL SERVICES LIMITED
307	31943	SRI MANICKAVALLI CHIT FUNDS PRIVATE LIMITED
308	31958	SRESTA LABORATORIES LIMITED
309	31964	MAMEX ITALIA SHOE COMP LIMITED
310	32062	MOINMAZ CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
311	32177	OFS ENGINEERING PRIVATE LIMITED
312	32213	ANBU BUSINESS HOLDINGS PRIVATE LIMITED
313	32230	PUSTA HOLDINGS LIMITED
314	32312	YENDELUX VEGEOIL LIMITED
315	32425	JAI SRELAKSHME AGRO FARMS & INDUSTRIES LIMITED
316	32462	POOKA GARMENTS AND FLOWERS LIMITED
317	32471	ZERON FINANCIAL SERVICES LIMITED
318	32478	JAYBEE GRANITES AND MINERALS LIMITED
319	32499	MINOX GASES LIMITED
320	32654	ALBINA BUILDERS LIMITED
321	32709	FIDELITY POWER AND LIGHT LIMITED
322	32724	HOMETEK INTEGRATED FARMS (INDIA) LIMITED
323	32734	APT TV LIMITED
324	32806	HAVEN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED

325	32825	GURUCHARAN IMPEX LIMITED
326	32841	STATUS FINANCIAL SERVICES LIMITED
327	32853	GOLDEN HARVEST FARM & EXPORT LIMITED
328	32869	DAY AND NIGHT MARINE PRODUCTS LIMITED
329	32893	HOME TEK HOUSING FINANCE LIMITED
330	32925	D D FARMS LIMITED
331	32936	KENFARM INDIA EXPORTS LIMITED
332	33434	SARATHY SPINNING MILLS LIMITED
333	33450	MURUGAN CEMENTS LIMITED
334	33462	GAMA COMPUTERS SERVICES I LTD
335	33525	VENSAKI HOTELS INDIA LIMITED
336	33686	MUTHU AGRO FARMS LIMITED
337	33695	SRISHTI ASSETS AND HOLDINGS LIMITED
338	33747	ANSHU MULTIMEDIA SOFTWARE LIMITED
339	33778	ASMITHA SECURITIES LIMITED
340	33823	SNEHAAM CONTSTRUCTIONS LIMITED
341	33851	M R K CLUBS & HOTELS LIMITED
342	33977	SK REAL ESTATES LIMITED
343	33988	SUPREME AVIATION LTD
344	33998	DHARMA RANCH LIMITED
345	34024	NAHAR ORCHARDS LIMITED
346	34035	MAXWORTH ESTATES LIMITED
347	34055	ISHWARYAM AIRLINES CORPORATION LIMITED
348	34174	MODERFN HEALTH CARE LIMITED
349	34197	SANNIDHI PROPERTIES LIMITED
350	34248	CLIFF INFO TECHNOLOGIES LIMITED
351	34279	INDHUMAL FINANCIAL SERVICES LIMITED
352	34303	RICHES & CLIFFCONSTRUCTION LIMITED
353	34318	CHENAI HOUSING LTD
354	34331	BOSE INDIAN HOUSING LIMITED
355	34353	RICHES & CLIF HOTELS & RESORTS LIMITED
356	34365	STAR INDIA SATELLITE CITI CORPORATION LIMITED
357	34454	JAYRAM AGRI TECH LIMITED
358	34478	IGGI SOFTWARES LIMITED
359	34483	GREMACH PROPERTIES LIMITED
360	34530	SAMYUKTHA CONSULTANCY & MARKETING LTD
361	34617	AESTHETIC CREATORS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED

362	34628	IMAGE STEELS LIMITED
363	34634	SRI RAJENDRA MULTIPLIER AND GENERAL CREDIT LIMITED
364	34780	VALLAVAN PROPERTIES LIMITED
365	34783	DIGITAL AUDIO INDIA LIMITED
366	34799	HAPPY INN LIMITED
367	34807	PAN PLANTATIONS AND ESTATES LIMITED
368	34827	EXQUISITE SHOE LIMITED
369	34937	SRI SIDDHI GANAPATHI CONSTRUCTIONS LIMITED
370	34951	SURABHI FARMS AND RESORTS LIMITED
371	35017	H B M FOUNDATIONS LIMITED
372	35132	MARLECHA FINANCE LIMITED
373	35186	YAKA MANPOWER CONSULTANTS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
374	35203	KAUNDINYA ENGINEERING PRIVATE LIMITED
375	36431	PRAVESH ENGINEERS PRIVATE LIMITED
376	36607	SRI SKANDAN STOCKS AND SERVICES LIMITED
377	36864	ASIA TECHNOLOGIES LIMITED
378	36876	HAPPY INN CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
379	37100	EAST COAST CABLE INDUSTRIES LIMITED
380	37155	PRISTINE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT COMPANY LIMITED
381	37226	AIWA INDUSTRIES LIMITED
382	37235	INDSAT TECHNOLOGIES LIMITED
383	37411	DIVINE HILAND LIMITED
384	37465	CASTLEKOTE INDIA LIMITED
385	37485	KODAIKKANAL ORCHIDS LIMITED
386	37760	KALBROS POWER LIMITED
387	37973	OASIS AUTOMATION SYSTEMS AND INFORMATION SOFTWARES LIMITED
388	38220	BHAANUMATHI APPLIANCES LIMITED
389	38368	VIRTUE ADVERTISING LIMITED
390	39012	SWARAM ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
391	39602	CHENNAI BIOSCOPE LIMITED
392	40071	RESOURCE INFOTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
393	40090	ALAGAR BIOTECH PRIVATE LIMITED
394	40109	BOHRA MOTORS PRIVATE LIMITED
395	40147	MERLIN FOREIGN EXCHANGE COMPANY LIMITED
396	40243	CAD CAM TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
397	40261	GOODCARE BIOMEDICAL PRIVATE LIMITED
398	40295	TELEBYTE ELECTRONICS PRIVATE LIMITED

399	40308	YOUTH FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
400	40532	NAM FISHERY AND SEA CHEMICALS LIMITED
401	40583	TERRA PRINTEC PRIVATE LIMITED
402	40714	VICTORY TOURS AND TRAVELS PRIVATE LIMITED
403	40786	TITANIC HOME APPLIAANCES LIMITED
404	40840	NITHIYASANTOSH CEMENTS LIMITED
405	40879	MERTON ENTERPRISES (INDIA) PRIVATE LIMITED
406	40899	HIMAYAM COMPUTER PRIVATE LIMITED
407	40984	INTER GLOBAL TRAVEL & CARGO PRIVATE LIMITED
408	41274	TIFFIN'S GAJJALAKONDA MINERALS LIMITED
409	41343	SUKADEV ADVERTISING SERVICES LIMITED
410	41457	INTELNET MULTI MEDIA SERVICES PRIVATE LIMITED
411	41605	MORWEL REMEDIES LIMITED
412	41836	UNIQUE SOLUTIONS LIMITED
413	41837	SUKADEV PROPERTY DEVELOPERS AND CONSTRUCTIONS LIMITED
414	41973	PAVETHRA PAINTS LIMITED
415	41993	ARUNA BEVERAGES PRIVATE LIMITED
416	42088	EDNET GLOBAL CONSULTING (INDIA) LIMITED
417	42091	LOKRAM EXPORTS PRIVATE LIMITED
418	42099	VAIGAI INTERNET PRIVATE LIMITED
419	42101	AGNEE SECURITY AND DETECTIVE BUREAU PRIVATE LIMITED
420	42114	TSRM WORLDWIDE TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
421	42134	MELCHI INFOSOFTECH PRIVATE LIMITED
422	42138	YESES DETECTIVE BUREAU PRIVATE LIMITED
423	42161	SRI LAKSHMI ENGGTRADING PRIVATE LIMITED
424	42201	CENTREPOINT COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
425	42203	SHAGHI FOODS PRIVATE LIMITED
426	42213	EDGETECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED
427	42215	RAZZLE EXPORTS & IMPORTS PRIVATE LIMITED
428	42251	BUBBLE TOP TRADERS PRIVATE LIMITED
429	42270	POLCOR PROTECH PRIVATE LIMITED
430	42337	MANASAROVER BOOMI AGRO FUELS PRIVATE LIMITED
431	42341	GOLDEN EXPORTS & IMPORTS PRIVATE LIMITED
432	42458	RAASI BIOTECH PRIVATE LIMITED
433	42490	AZAGIA MANDAPAM MERVIN FINANCE LIMITED
434	42671	ASHWIN BEARINGS PRIVATE LIMITED
435	42968	K.A.M.IBRAHIM FOOD PRODUCTS LIMITED

436	44211	NETLOGIC TECHNOLOGIES LIMITED
437	44227	WILSON OVERSEAS TRADING PRIVATE LIMITED
438	44628	K.F.CONSUMER MARKETING AGENCY PRIVATE LIMITED
439	44764	EVERTRANS SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED
440	44833	IBHAR ETL SOLUTIONS LIMITED
441	45039	ENERGREEN POWER LIMITED
442	45061	D-SIGN SOFTWARE SOLUTION LIMITED
443	45594	AEGIS DIGITAL LABORATORIES PRIVATE LIMITED
444	45908	HONCHO TECHNOLOGIES LIMITED
445	45972	PREMIERSKIMMER MOTOR COMPANY LIMITED
446	46099	SUNSHINE CASTINGS PRIVATE LIMITED
447	46868	PETIT DESIGNER DECALS LIMITED
448	46925	UNI-CARE ESTATES & MARKETING LIMITED
449	47215	TRITAAN EGG PRODUCTS LIMITED
450	47253	KINGSLEY TRADING AND PROJECTS LIMITED
451	47443	AADHITYAA INFOMEDIA SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
452	47474	MASSMEDIA ECOM SERVICES LIMITED
453	47829	BBC CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
454	48023	LANOS VAHANA LIMITED
455	48329	ESJEY COMPUTEK NETWORKS PRIVATE LIMITED
456	48592	ACCESS NETWORKS (I) PRIVATE LIMITED
457	48855	ZITT TECHNOLOGIES LIMITED
458	48942	ATHREYA HOLDINGS PRIVATE LIMITED
459	49187	XECHEM PHARMACEUTICALS (INDIA) LIMITED
460	49204	SDV TECHNOLOGIES LIMITED
461	49242	EL SHADDAI COMMUNICATIONS SERVICES LIMITED
462	49409	DRAGON 3 NANOTECH LIMITED
463	49515	ANUPA SALES & MARKETING PRIVATE LIMITED
464	49567	SEVEN HILLS THEME PARKS LIMITED
465	49671	SMART INTEGRATED SOLUTION PRIVATE LIMITED
466	50529	PROTEK UPS (INDIA) PRIVATE LIMITED
467	50927	WORLD CLASS COSMETICS LIMITED
468	50984	VIVA BEAUTY & HEALTH CARE LIMITED
469	51239	MERRILL OFFICETIGER INDIA PRIVATE LIMITED
471	54002	JOYS BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
472	54003	INCORE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
473	54004	OML SHIPPING AGENCY PRIVATE LIMITED

474	54007	CONSULTBURG SERVICES PRIVATE LIMITED
475	54012	GROW N RICH INVESTMENT CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
476	54027	PALPAP TECHNOLOGIES LIMITED
477	54029	VIJAYALAKSHMI FOODS PRIVATE LIMITED
478	54037	RANJI ELECTRONICS PRIVATE LIMITED
479	54039	VELAVAN ENGINEERING PRIVATE LIMITED
480	54045	SRILA PRABHUPADA FARMS PRIVATE LIMITED
481	54046	NAGARAJA FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
482	54400	RAPID BRAIN ABACUS ACADEMY PRIVATE LIMITED
483	54401	ROY MAMMEN'S AND ESSEL HRD TRAINING (INDIA) PRIVATE LIMITED
484	54402	RADIANCE TECHNOLOGY SOLUTIONS & RESEARCH PRIVATE LIMITED
485	54406	GOLDEN RICH MARKETING COMPANY PRIVATE LIMITED
486	54411	SABI FOODS (INDIA) PRIVATE LIMITED
487	54415	BALIKA AIR SERVICES PRIVATE LIMITED
488	54416	THREESIXTY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
489	54418	ASTR PROCESSING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
490	54419	SUN VANILLA PLANTATIONS PRIVATE LIMITED
491	54420	CALL BAZAAR INFO MEDIA PRIVATE LIMITED
492	54423	IDENTITY IMAGE & MEDIA CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
493	54425	ANS CARGO SERVICES PRIVATE LIMITED
494	54431	EUROLIFE WORLDWIDE LIMITED
495	54433	APT MANPOWER RESOURCE PRIVATE LIMITED
496	54438	ARC ANGEL SHIPPING PRIVATE LIMITED
497	54439	KOSHAA AGRO CHEMICALS PRIVATE LIMITED
498	54443	HMS TOPSTAR ENGINEERING PRIVATE LIMITED
499	54453	KRIYAA SAKTHI ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
500	54454	SRI UDAYA NARAYANA TRAVELS PRIVATE LIMITED
501	54456	V M S TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
502	54464	DISCOVER SRILANKA & THAILAND TOURS PRIVATE LIMITED
503	54467	S3 SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
504	54468	PREMIER INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
505	54469	EN-TECH EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
506	54479	HELIX FURNITURE PRIVATE LIMITED
507	54495	KLR EXIM (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
508	54496	INFOZONE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
509	54497	SIDDHARTHA RURAL VIDYALAYA LIMITED
510	54500	NIKKOY GROUND HANDLING SERVICES PRIVATE LIMITED

511	54503	VIJAYAM AIR TRAAVEL PRIVATE LIMITED
512	54508	GMAX OUTSOURCING PRIVATE LIMITED
513	54512	MUTHU MEENA HEALTH CARE SERVICES PRIVATE LIMITED
514	54514	S R S CONTAINER PRIVATE LIMITED
515	54516	JENEFA VISION PRIVATE LIMITED
516	54518	SRI VENKKI PROVISIONS MARKETING PRIVATE LIMITED
517	54530	VM DECOPANEL MALAYSIA PRIVATE LIMITED
518	54535	SRI SREENIVASA SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
519	54545	INTHIYAN SECRET DETECTIVE COUNCIL PRIVATE LIMITED
520	54546	AKSHAYA SYSTEMS AND MARKETING PRIVATE LIMITED
521	54549	PROCURE REMEDIES PRIVATE LIMITED
522	54550	SKYLINE SHIPPING LINES PRIVATE LIMITED
523	54555	RUDRA FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
524	54561	TOUGH GUARD SOFTWARE PRIVATE LIMITED
525	54565	KRIATIV PLANET PRIVATE LIMITED
526	54570	JENESYS MOBILE EXCEL PRIVATE LIMITED
527	54573	DHEERKKAAYUSH INSURANCE AND MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
528	54576	ASCENT SOFTECH CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
529	54577	DENDRO POWER COMPANY PRIVATE LIMITED
530	54580	SHARON ACADEMY PRIVATE LIMITED
531	54582	VANAKKAM MEDIA PRIVATE LIMITED
532	54583	AARANI TRADERS PRIVATE LIMITED
533	54592	SRI SAI SECURITY SYSTEMS AND APPLIENCES PRIVATE LIMITED
534	54593	DREAMEE MOBILE SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
535	54594	PENETGRAPH MANAGEMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
536	54598	EXODUS IMPEX SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
537	54600	ARUNACHALAS SOUTH GATE HOTEL PRIVATE LIMITED
538	54601	SALMA'S FORMULATIONS PRIVATE LIMITED
539	54603	LEADERS LEGENDARY MARKETING & SERVICES PRIVATE LIMITED
540	54608	EMERALD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
541	54609	JAZ CONNECT SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED
542	54620	MARUTHI INDIA REALTY PRIVATE LIMITED
543	54623	SEVENEAGLES SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
544	54624	CHUMASH SOFTWARE INDIA PRIVATE LIMITED
545	54633	HYUNDAI INDIA TELECOM LIMITED
546	54636	S.V.TOURS & TRAVELS (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
547	54638	PIER-1 SHIPPING AGENCIES PRIVATE LIMITED

548	54639	PRAGNYA MANAGEMENT ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
549	54640	THAMIZHAN TOURS AND TRAVELS INDIA PRIVATE LIMITED
550	54642	GIANTIC WORLD MARKETING PRIVATE LIMITED
551	54645	JANAA AND JAYAA IMPEX PRIVATE LIMITED
552	54652	VENUS BUSINESS MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
553	54654	WORLD GATE SHIPPING INDIA PRIVATE LIMITED
554	54659	INDUS FARMS PRIVATE LIMITED
555	54660	GS NETWORKS (INDIA) PRIVATE LIMITED
556	54665	ARUNMARI CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
557	54669	LEADER JAIN MINERALS PRIVATE LIMITED
558	54679	INDUS IRONS PRIVATE LIMITED
559	54681	M&M AGRONOMICS PRIVATE LIMITED
560	54685	BAYCITY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
561	54686	LEVANT BIO PHARMA PRIVATE LIMITED
562	54700	SOUTHERN INDIA SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED
563	54705	SHUBHKRUTHI PACKAGING PRIVATE LIMITED
564	54707	AQUA MAQUE MANUFACTURING PRIVATE LIMITED
565	54710	JASKO INDO BIOTECH PRIVATE LIMITED
566	54717	KEEBHAZ EXPORTS INDIA PRIVATE LIMITED
567	54725	INNOVATIVE VISUALS PRIVATE LIMITED
568	54726	PUNCHAGNI EXPORTS AND IMPORTS PRIVATE LIMITED
569	54731	REDSUN EXIM PRIVATE LIMITED
570	54734	FIXOOUP INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
571	54737	SRI ARUNACHALA BUILDERS PRIVATE LIMITED
572	54745	SKK ENGINEERING PRIVATE LIMITED
573	54753	TRANS CARE TRANSCRIPTIONS PRIVATE LIMITED
574	54761	ACROPOLIS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
575	54764	PADMARAJAM EDUCATIONAL ACADEMY PRIVATE LIMITED
576	54769	C.DINAR RESOURCES PRIVATE LIMITED
577	54779	SHANTHOSHI PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
578	54780	GNANA BAKKIYAM AGRO FARMS PRIVATE LIMITED
579	54787	INDUS GROWTH ADVISORS PRIVATE LIMITED
580	54789	M.S.R. FOAMS PRIVATE LIMITED
581	54793	SREEMAAN REMEDIES PRIVATE LIMITED
582	54794	EXPERTUS AMSPHERE SOFTWARE PRIVATE LIMITED
583	54798	SILICON OYSTER TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
584	54799	OXFORD SUNRISE IMPEX PRIVATE LIMITED

585	54800	DECENT EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
586	54804	OST FILMS PRIVATE LIMITED
587	54807	K.S.MANIAM SPICES PRIVATE LIMITED
588	54808	SUPER GIGA COMPUTER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
589	54815	ISENSOR INDIA PRIVATE LIMITED
590	54816	TRANS CYBER SOLUTION PRIVATE LIMITED
591	54820	NIRMALA FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
592	54821	JDR ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
593	54822	SALAKORN (INDIA) PRIVATE LIMITED
594	54825	CHIRLA EXPORTS & SERVICES PRIVATE LIMITED
595	54826	SATHIA SEA FOOD EXPORTS PRIVATE LIMITED
596	54828	IQA TESTER SERVICES PRIVATE LIMITED
597	54829	NANDA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
598	54830	ULTRA PURE CHEMICALS PRIVATE LIMITED
599	54832	SYNERGY FOOD RESOURCES EXPORTS PRIVATE LIMITED
600	54836	AUSSIE EDU AND TRADE ASSESSMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
601	54838	NH 23 WIL LOGISTICS PRIVATE LIMITED
602	54843	SHRI AYYANAR CHEMICALS PRIVATE LIMITED
603	54845	TRUELIFE MARKETING PRIVATE LIMITED
604	54846	TAURUS SEASHELLS & HANDICRAFTS PRIVATE LIMITED
605	54852	J R M HOTELS PRIVATE LIMITED
606	54853	CHANAKYA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
607	54858	EVERGREEN MOVIE INDIA PRIVATE LIMITED
608	54861	PRYMSOURCE ENGINEERS PRIVATE LIMITED
609	54869	GLOTEX SOFTWARE DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED
610	54871	RIC MARKETING PRIVATE LIMITED
611	54873	ARIEL NETWORK SOLUTION PRIVATE LIMITED
612	54882	RAABHI TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
613	54886	SWARGA CHITRA FILMS PRIVATE LIMITED
614	54891	INTEGRATED WATER TECHNOLOGIES (CHENNAI) PRIVATE LIMITED
615	54894	SREE KRISHNA LOGISTICS & SERVICES PRIVATE LIMITED
616	54896	INFO QUEST COMMUNICATIONS PRIVATE LIMITED
617	54899	EXCELSIOR SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
618	54904	PARIS DAKNER BIOTEK PRIVATE LIMITED
619	54905	AGE POWER SYSTEMS PRIVATE LIMITED
620	54912	SRI SAI SUDHARSHINI ACADEMY PRIVATE LIMITED
621	54919	EMYES OVERSEAS TRADING PRIVATE LIMITED

622	54920	SOUTHERN MEDICHEM PRIVATE LIMITED
623	54925	RUTH FREIGHT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
624	54927	NEWTON INFRASTRUCTURE COMPANY PRIVATE LIMITED
625	54929	BROADNET CONVERGENCE PRIVATE LIMITED
626	54932	MILESTONE MANAGEMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
627	54940	HI-GI LABS PRIVATE LIMITED
628	54941	SRI SAKTHI PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
629	54950	PROFILE TRACK CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
630	54952	XCMG ENGINEERING PRIVATE LIMITED
631	54955	HAYAGREEVA LOGISTICS & MANPOWER PRIVATE LIMITED
632	54956	ANMOL INSTANT FOODS PRIVATE LIMITED
633	54960	CHENNAI MEMORY FASHIONS PRIVATE LIMITED
634	54962	NOOK 'N' CORNER SERVICES PRIVATE LIMITED
635	54968	KMPT TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
636	54969	EARTH & SKY CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
637	54980	DOLPHIN SPECIALITY COATINGS PRIVATE LIMITED
638	54981	SJ2 SOFT PRIVATE LIMITED
639	54984	FINESSE4D TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
640	54991	ITECH TRADING INDIA PRIVATE LIMITED
641	54993	GOODSHINE AIR TRAVELS PRIVATE LIMITED
642	54994	MAARAN CAPITAL MANAGEMENT & SERVICE PRIVATE LIMITED
643	54995	ALTUS NETWORKS LIMITED
644	54996	AUTOWAY TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
645	54999	CHITRA ANANDAN FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
646	55000	JKB ORGANICS PRIVATE LIMITED
647	55111	K.P.M.PROMOTORS PRIVATE LIMITED
648	55305	HI-BRIGHT MEDICARE EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
649	55892	POLAR ARCHITECTURAL FOUNDATION LIMITED
650	58323	GAAVATHRI CORPORATE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
651	58327	COPPER-EDGE TECHNOLOGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
652	59182	A.R.SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
653	59284	AADSMART MARKETING SERVICES PRIVATE LIMITED
654	60426	CANVAS BUSINESS CONSULTING (INDIA) PRIVATE LIMITED
655	60551	MIDAS TOUCH ENTERTAINERS PRIVATE LIMITED
656	62847	INFINITE PRINTING SUPPORTS PRIVATE LIMITED
657	66353	ABH RESEARCH AND SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
658	66577	ISLAND JEWELS PRIVATE LIMITED

659	67435	BECHNA NET SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
660	67447	TIME SQUARE DISTRI PARKS PRIVATE LIMITED
661	67492	NE HOUSING COMPANY PRIVATE LIMITED
662	67657	ADD MARKETING PRIVATE LIMITED
663	67770	E. C. BOOK INDIA PRIVATE LIMITED
664	68305	3D AGENCIES PRIVATE LIMITED
665	68392	REDMOND HOSPITALITIES PRIVATE LIMITED
666	68599	SOUTHSIDE AVIATION LIMITED
667	68647	GREEN C HOUSING PRIVATE LIMITED
668	68754	BHUVAN ESTATES PRIVATE LIMITED
669	68781	ORIGAAMI PACKAGINGS PRIVATE LIMITED
670	69270	NE RURAL SUPPLY CHAIN PRIVATE LIMITED
671	69305	PROQUAL GARAGE EQUIPMENT MANUFACTURING COMPANY PRIVATE LIMITED
672	69327	KAELO MARKETING AND CONSULTING SERVICE PRIVATE LIMITED
673	70843	HARIESWAR FOUNDATIONS PRIVATE LIMITED
674	70974	FMV PROMOTERS PRIVATE LIMITED
675	70981	BIDFRIENDS TECHNOLOGIES INDIA PRIVATE LIMITED
676	71573	SERVICEBAY ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
677	73187	VALUE SAVERS INDIA PRIVATE LIMITED
678	73293	SARA MINING PRIVATE LIMITED
679	73343	IDEAPRO ELECTRONIC SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
680	73636	ARMAAN FOUNDATIONS INDIA PRIVATE LIMITED
681	73832	PREMIER HEALTH CARE DIAGNOSTIC PRIVATE LIMITED
682	74137	NIKOS ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
683	74252	CREADOR RETAIL PRIVATE LIMITED
684	74308	PARRKOURZ SECURITIES PRIVATE LIMITED
685	74505	R V K ENGINEERING PRIVATE LIMITED
686	74963	WHIZ E SOLUTION PRIVATE LIMITED

V. C. DAVEY
Registrar of Companies
Tamilnadu